

दक्खिनी हिंदी

वावूराम सक्सेना

एम० ए०, डी० लिट्०

प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय

१९५२

हिंदुस्तानी एकेडेमी

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

प्रथम संस्करण : २०००

मूल्य ३)

मुद्रक—टउन प्रिंटिंग वर्क्स, ५०९, एलवर्ट रोड,
इलाहाबाद ।

डा० धीरेंद्र वर्मा
को
सस्नेह समर्पित

प्रकाशकीय

इस पुस्तक में डा० चावूराम सक्सेना के दक्खिनी हिंदी संबंधी तीन व्याख्यान संगृहीत हैं। पहला व्याख्यान १८ मार्च सन् १९४५ ई० को पढ़ा गया था। शेष दो पढ़े हुए मान लिये गये थे। ये ही तीनों व्याख्यान पुस्तक रूप में प्रकाशित हो रहे हैं।

हिंदी भाषा का विकास और उसमें साहित्य-रचना का कार्य केवल उत्तरी भारत में नहीं हुआ है। दक्षिणी भारत की मुसलमानी रियासतों, उनके शासकों एवं उनके दरबार के तथा अन्य साहित्यिकों का भी इसमें महत्वपूर्ण हाथ है। मुसलमान फ़कीरों, सैनिकों और राज्य-स्थापकों के द्वारा साहित्यिक हिंदी दक्षिण भारत में पहुँची थी और पंद्रहवीं शताब्दी तक उसमें उच्चकोटि का साहित्य निर्मित होने लगा था। प्रस्तुत पुस्तक इसी संबंध में किये गये अध्ययन का परिणाम है। भाषा-विज्ञान और साहित्य दोनों ही दृष्टियों से इसमें दक्खिनी हिंदी का सम्यक् एवं विद्वत्तापूर्ण अध्ययन उपस्थित किया गया है। परिशेष में दक्खिनी हिंदी के गद्य-पद्य साहित्य के नमूने भी दे दिये गये हैं जो उपयोगी होने के साथ-साथ रोचक भी हैं।

आशा है कि यह पुस्तक दक्खिनी हिंदी का महत्व समझने और तत्संबंधी अध्ययन का वैज्ञानिक एवं विस्तृत स्वरूप दिखाने में विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगी।

धीरेन्द्र वर्मा

१६ दिसम्बर, १९५१ ई०

प्रस्तावना

कई साल हुए जब मेरा ध्यान दक्खिनी साहित्य पर गया था। जितना ही पढ़ा और समझा उतना ही अच्छा लगा। मित्रों से बातचीत में कहा कि इसको देवनागरी में लाकर हिन्दी संसार के सामने रखना चाहिए। मसल है “राह बतावे सो आगे चले।” डा० धीरेन्द्र वर्मा ने हिन्दुस्तानी एकेडेमी को प्रेरित किया कि मुझे दक्खिनी हिन्दी पर कुछ कहने को आमन्त्रित करे। परिणाम-स्वरूप ये व्याख्यान हैं।

दक्खिनी के अध्ययन के लिए मौ० नसीरुद्दीन हाशिमि की पुस्तक दकिन में उर्दू परिचय पाने के लिए बड़ी अच्छी है। डा० सैयद मुहीउद्दीन कादिरि 'ज़ोर' के उर्दू शहपारे, तज़किरह उर्दू मख्तूतात और हिन्दुस्तानी लिस्सानियात बड़े काम के ग्रन्थ हैं। मौलवी डा० अब्दुलहक़ ने दक्खिनी की प्रशंसनीय और अथक सेवा की है। मैंने इन ग्रन्थकारों की रचनाओं से बहुत लाभ उठाया है और जहाँ-तहाँ इनके उद्धरण दिए हैं। इनका उपकार मानता हूँ।

स्थानीय विद्वानों में से डा० अब्दुल सत्तार सिद्दीकी ने मुझे आवश्यक परामर्श देकर कृतज्ञ किया है। मित्रवर डा० मुहम्मद हफ़ीज़ सैयद ने न केवल अपने सुख-सहेला के द्वारा बल्कि अन्य प्रकाशित और हस्तलिखित पुस्तकों को प्रदान कर मुझे इन व्याख्यानों को तैयार करने में बड़ी मदद दी। मैं उनका स्नेहपूर्ण उपकार हृदय से मानता हूँ।

यदि डा० धीरेन्द्र वर्मा का आग्रह न होता तो यह सामग्री कभी भी उपस्थित न हो पाती। इसी लिए ये व्याख्यान उन्हीं को समर्पित हैं।

हिन्दुस्तानी एकेडेमी के सहायक मन्त्री श्री रामचंद्र टंडन ने जिस धैर्य से मुझसे काम निकाल लिया उसकी प्रशंसा मेरा जी ही कर सकता है। वह मेरे अनेक धन्यवाद के पात्र हैं।

वावूराम सक्सेना

विषय-सूची

				पृष्ठ
प्रकाशकीय	७
प्रस्तावना	६
पहला व्याख्यान—प्रवेशक		१३
दूसरा व्याख्यान—भाषा		३६
तीसरा व्याख्यान—शैली तथा साहित्य			...	६७
परिशेष—साहित्य के नमूने		६३
अनुक्रमणी	११३

—

ओ३म्

यां मेघां देवगणाः पितरश्चोपासते
तया मामद्य मेघयाऽग्ने
मेघाविनेँ कुरु ।

प्रवेशक

हिन्दी शब्द का इस्तेमाल आज कई थोड़े बहृत विभिन्न अर्थों में किया जाता है। भाषा-विज्ञानी इस शब्द के अन्तर्गत, पंजाब के पूरबी प्रदेश में बोली जाने वाली बाँगडू दक्खिनी हिन्दी से लेकर संयुक्त प्रान्त के पूरबी जिलों में नाम बोली जाने वाली अवधी पर्यन्त सभी बोलियों को समझते हैं और फ़ारसी लिपि में लिखी गई उर्दू और देवनागरी में की खड़ी बोली को इसी हिन्दी की एक शाखा हिन्दुस्तानी के दो साहित्यिक रूप मानते हैं। इसी प्रयोग के अनुकूल उर्दू को हिन्दी ही के भीतर एक विशेष शैली की हिन्दी समझा गया है। लेकिन आजकल हिन्दी शब्द को अधिकतर संस्कृत शब्दावली पर निर्भर एक विशेष शैली के लिए ही काम में लाया जाता है। जिस भाषा का विवेचन करने हम खड़े हुए हैं, उसके तीन नाम मिले हैं--हिन्दवी, हिन्दी और दक्खिनी। आरम्भ में ही इतना बताना जरूरी है कि संस्कृत-निष्ठ शैली से यह भाषा कई बातों में अलग है।

हिन्दी और हिन्दुई या हिन्दवी शब्द एक ही अर्थ को जतलाते हैं, यानी हिन्द या हिन्दु की भाषा। हिन्दी की नस्बत

प्रवेशक

हिन्दी शब्द का इस्तेमाल आज कई थोड़े बहुत विभिन्न अर्थों में किया जाता है। भाषा-विज्ञानी इस शब्द के अन्तर्गत, पंजाब के पूरबी प्रदेश में बोली जाने वाली बाँगड़ू दक्खिनी हिन्दी से लेकर संयुक्त प्रान्त के पूरबी जिलों में बोली जाने वाली अवधी पर्यन्त सभी बोलियों को समझते हैं और फारसी लिपि में लिखी गई उर्दू और देवनागरी में की खड़ी बोली को इसी हिन्दी की एक शाखा हिन्दुस्तानी के दो साहित्यिक रूप मानते हैं। इसी प्रयोग के अनुकूल उर्दू को हिन्दी ही के भीतर एक विशेष शैली की हिन्दी समझा गया है। लेकिन आजकल हिन्दी शब्द को अधिकतर संस्कृत शब्दावली पर निर्भर एक विशेष शैली के लिए ही काम में लाया जाता है। जिस भाषा का विवेचन करने हम खड़े हुए हैं, उसके तीन नाम मिले हैं--हिन्दवी, हिन्दी और दक्खिनी। आरम्भ में ही इतना बता देना जरूरी है कि संस्कृत-निष्ठ शैली से यह भाषा कई बातों में अलग है।

हिन्दी और हिन्दुई या हिन्दवी शब्द एक ही अर्थ को जतलाते हैं, यानो हिन्द या हिन्दु की भाषा। हिन्दी की नस्बत

हिन्दी शब्द पुराना है। शुरू में इसका इस्तेमाल फारसी से भेद दिखलाने के लिए इस देश भारत (हिन्द) की भाषा के ही लिए किया गया है। मुल्ता वजही अपने गद्य के ग्रन्थ सवरस (१६३५ ई०) में किन्सा आरंभ करने समय लिखते हैं—

“हिन्दोस्तान में हिन्दी ज़बान से इस लताफ़त इस छन्दा से नज़्म और नल मिला कर गुलाकर यो नैं बोल्या”। (प० ११) शेर अग्रक अपने ग्रन्थ नौसरहार (१५०३ ई०) में कहते हैं—

“बज़ां कैता हिन्दी में। किस्ए मक़तल शाह हुसै ॥
नज़्म लिखी सब मौज़ू आन। यो में हिन्दी कर आसान ॥
यक यक बोल य मौज़ू आन। तक़रीर हिन्दी सब बखान ॥
(मसतूतात प० १८)

शाह बुहानुद्दीन जानम बीजापुरी इशादिनामह (१५८२ ई०) में हिन्दी बतलाने हैं—

मठ सब बोन् हिन्दी बोल। पुन तू एन्हों सेती बोल ॥
देर न गणै हिन्दी बोल। मानी तो चप दीखै खोल ॥
हिन्दी बोनी हिया बखान। जेकर परमाद या मुँक ग्यान ॥
(मसतूतात प० १६)

हुन्नी मौ० रस के मौजबह का अनुवाद करने समय (१६६० ई० में) ग़ाक ग़ाक लिखते हैं—

मं इमरो इ हिन्दी ज़बो इय वाग्ने कश्ने लगा।
यो फारसी सग़ने नदी सग़ने इने मुग़ दिन होकर ॥

(मसतूतात प० २२)

सम्बन्ध अपनी समनरी पं० इब्रान व महयार में कहते हैं—

इसका अर्थ है कि इस देश में हिन्दी।
दिखाने वाले ही हिन्दी में ग़रब ॥

ने १२६७ ई० में गुजरात जीता, और उसी के सेनापति मलिक काकूर ने १३०४ ई० में मदाराष्ट्र पर, १३०७ ई० में आन्ध्र पर और १३०८ में कर्नाटक पर विजय पाई। ये सभी राज्य दिल्ली के सूबे समझे जाने लगे। यह क़ब्ज़ा कुछ ही साल कायम रह सका। दक्खिन को इतना महत्त्व दिया गया कि मुहम्मद तुगलक ने दौलताबाद को राजधानी बनाया (१३२७ ई०)। फ़ीरोज़ तुगलक के राज्यकाल में दक्खिन स्वतन्त्र हो गया, और हमन गंगो बहमनी ने (१३४७ ई० में) गुलबर्गा में बहमनी राज्य स्थापित कर दिया। गुजरात भी स्वतन्त्र हो गया। सन् १३३६ ई० में ही विजयनगर के हिन्दू राज्य की नींव पड़ गई थी और उनमें दक्खिन का बहुत सा भाग शामिल हो गया था। फ़ीरोज़ शाह के मरने समय (१३८८ में) दक्खिन पूरा का पूरा दिल्ली के क़ब्ज़े में निरुल गया था और उसका कोई राजनीतिक महत्त्व न रह गया था। बहमनी राज्य के छिन्न-भिन्न होने पर, बीजापुर में आदिलशाही (१४६० ई०), गोलकुटा में कुतुबशाही (१४६० ई०), बीदर में बरीदशाही (१४८७ ई०), और बरार में इमादशाही तथा अकमदनगर में निजामशाही (१४६० ई०) गणतन्त्रों बनीं और बहमनी लड़नी बग़दनी रहीं, पर उत्तर भारत के राजनीतिक पंजे में असें तक बची रहीं।

होती रहीं। औरंगज़ेब ने १६५२ ई० में औरंगाबाद को अपना केन्द्र बनाया और कुछ कवि यहाँ आगए। औरंगज़ेब ने नसरती आदि एक दो को आदर सम्मान भी दिया। औरंगज़ेब के देहान्त (१७०७ ई०) के बाद दिल्ली के मुगल परिवार की अवनति होने लगी। वर्तमान निज़ाम राज्य के आदि पुरुष निज़ामुल्मुल्क आसफ-जाह १७२३-४ ई० में स्थायीरूप से दक्खिन के सूबेदार होकर आगए। तब से आज तक निज़ामराज्य हैदराबाद में कायम चला आ रहा है। इस खानदान के नरेशों ने प्राचीन दक्खिनी सुल्तानों की तरह बराबर दक्खिनी भाषा के साहित्यकारों को आश्रय और प्रोत्साहन दिया है।

हिन्दी या हिन्दवी का दक्खिनी कहलाना केवल इन दक्खिनी राज्यों के सम्बन्ध के कारण है। उन दिनों भी आज की तरह उस प्रदेश में आर्य भाषाओं में की मराठी और द्राविड़ भाषाओं में की तेलगू, तामिल और कन्नड़ बोली जाती थीं।

इतिहास से हमें पता चलता है कि मराठी भाषा में साहित्य का निर्माण पहले पहल यादववंशी मराठा क्षत्रिय राजाओं की संरक्षा में हुआ। इस वंश के प्रथम नरेश ने मराठी पहले नासिक जिले के सिमनार नाम के स्थान पर और बाद को देवगिरि में अपनी राजधानी कायम की। इस वंश ने करीब दो सौ साल तक राज किया। यहाँ मराठी को द्वारी (राज) भाषा माना गया और सरस्वती के पुजारियों को सम्मान मिला। इन्हीं के समय में महाराष्ट्र में दो धार्मिक सम्प्रदाय स्थापित हुए—महानुभाव पन्थ और वाकरी पन्थ। प्रथम के देवता कृष्ण और दत्तात्रेय थे, द्वितीय के हरि और विठ्ठल। दोनों में सभी जातियों और मतों के जन

ने १२६७ ई० में गुजरात जीता, और उसी के सेनापति मलिक काफूर ने १३०४ ई० में महाराष्ट्र पर, १३०७ ई० में आन्ध्र पर और १३०८ में कर्नाटक पर विजय पाई। ये सभी राज्य दिल्ली के सूबे समझे जाने लगे। यह क़ब्ज़ा कुछ ही साल क़ायम रह सका। दक्खिन को इतना महत्त्व दिया गया कि मुहम्मद तुग़लक ने दौलताबाद को राजधानी बनाया (१३२७ ई०)। फ़ीरोज़ तुग़लक के राज्यकाल में दक्खिन स्वतन्त्र हो गया, और हसन गंगो वहमनी ने (१३४७ ई० में) गुलबर्गा में वहमनी राज्य स्थापित कर दिया। गुजरात भी स्वतन्त्र हो गया। सन् १३३६ ई० में ही विजयनगर के हिन्दू राज्य की नींव पड़ गई थी और उसमें दक्खिन का बहुत सा भाग शामिल हो गया था। फ़ीरोज़ शाह के मरते समय (१३८८ में) दक्खिन पूरा का पूरा दिल्ली के क़ब्ज़े से निकल गया था और उसका कोई राजनीतिक सम्बन्ध न रह गया था। वहमनी राज्य के छिन्न-भिन्न होने पर, बीजापुर में आदिलशाही (१४६० ई०), गोलकुंडा में कुतुबशाही (१५१२ ई०), बीदर में बरीदशाही (१४८७ ई०), और बरार में इमादशाही तथा अहमदनगर में निज़ामशाही (१४६० ई०) सल्तनतें बनीं और बहुधा लड़ती भगड़ती रहीं, पर उत्तर भारत के राजनीतिक पंजे से असें तक बची रहीं।

ये राज्य दक्खिनी हिन्दी के कवियों और ग्रन्थकारों को बराबर आश्रय देते रहे और इनकी संरक्षा में १५वीं, १६वीं और १७ वीं ई० सदियों में अच्छे साहित्य का निर्माण हुआ। जब १७ वीं सदी के मध्य में औरंगज़ेब ने दक्खिन की ओर जाकर इन सल्तनतों को मटियामेट कर दिया तब कुछ काल तक दक्खिनी के साहित्यकार निराश्रय होकर तितर-बितर हो गए, पर रचनाएँ

होती रहीं। औरंगजेब ने १६५२ ई० में औरंगाबाद को अपना केन्द्र बनाया और कुछ कवि यहाँ आगए। औरंगजेब ने नसरती आदि एक दो को आदर सम्मान भी दिया। औरंगजेब के देहान्त (१७०७ ई०) के बाद दिल्ली के मुगल परिवार की अवनति होने लगी। वर्तमान निजाम राज्य के आदि पुरुष निजामुल्मुल्क आसफ-जाह १७२३-४ ई० में स्थायीरूप से दक्खिन के सूबेदार होकर आ गए। तब से आज तक निजामराज्य हैदराबाद में कायम चला आ रहा है। इस खानदान के नरेशों ने प्राचीन दक्खिनी सुल्तानों की तरह बराबर दक्खिनी भाषा के साहित्यकारों को आश्रय और प्रोत्साहन दिया है।

हिन्दी या हिन्दवी का दक्खिनी कहलाना केवल इन दक्खिनी राज्यों के सम्बन्ध के कारण है। उन दिनों भी आज की तरह इस प्रदेश में आर्य भाषाओं में की मराठी और द्राविड़ भाषाओं में की तेलगू, तामिल और कन्नड़ बोली जाती थीं।

इतिहास से हमें पता चलता है कि मराठी भाषा में साहित्य का निर्माण पहले पहल यादववंशी मराठा क्षत्रिय राजाओं की संरक्षा में हुआ। इस वंश के प्रथम नरेश ने मराठी पहले नासिक जिले के सिमनार नाम के स्थान साहित्य पर और बाद को देवगिरि में अपनी राजधानी कायम की। इस वंश ने करीब दो सौ साल तक राज किया। यहाँ मराठी को दर्बारी (राज) भाषा माना गया और सरस्वती के पुजारियों को सम्मान मिला। इन्हीं के समय में महाराष्ट्र में दो धार्मिक सम्प्रदाय स्थापित हुए—महानुभाव पन्थ और वाकरी पन्थ। प्रथम के देवता कृष्ण और दत्तात्रेय थे, द्वितीय के हरि और विठ्ठल। दोनों में सभी जातियों और मतों के जन

भरती हुए। महानुभाव पन्थ के प्रवर्तक चक्रधर थे, इन्होंने १२६३ से १२७१ ई० तक अपने मत का प्रचार किया और फिर बदरिकाश्रम चले गए। इनके वचनों का संग्रह इनके शिष्य महीन्द्रभट्ट ने किया। यही वचन आचार्यसूत्र और सिद्धान्तसूत्रपाठ नाम से, इस सम्प्रदाय के मूल ग्रंथ हैं। महिमभट्ट ने अपने गुरु की जीवनी भी लीलाचरित नाम की लिखी। ये तीनों पुस्तकें गद्य में हैं। चक्रधर के दूसरे चेले भास्कराचार्य ने शिशुपालवध नामक काव्य रचा। यादववंशी राजा इसी महानुभाव पन्थ के अनुयायी थे। देवगिरि में (१३२७ ई० में) मुस्लिम राज्य कायम हो जाने पर भी महानुभाव पन्थ थोड़े दिन चलता रहा। यह मूर्ति-पूजा के विरुद्ध था, इसलिए इसको मुसलमानों द्वारा उतनी हानि न पहुँची जितनी अन्य मतों को। पर यही मुस्लिम संरक्षा इस सम्प्रदाय के लिए घातक सिद्ध हुई क्योंकि हिन्दू जनता इसी कारण उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगी। इस सम्प्रदाय के खतम हो जाने का दूसरा कारण यह भी दिया जाता है कि इसके संचालकों ने अपने ग्रंथ ऐसी गुप्त लिपि में लिखे जिसका परिचय केवल विशेष दीक्षा-प्राप्त शिष्यों को था। कुछ भी हो, महानुभाव पन्थ के करीब बारह ग्रंथ ऐसे मिले हैं जो वार्करी पन्थ के आदि ग्रंथों से पहले के हैं।

महानुभाव पन्थ की निरव्यत वार्करी पन्थ अधिक लोकप्रिय साबित हुआ। इसके सन्तकवि मराठी भाषा के आदि कवि समझे जाते हैं। ज्ञानेश्वर को मराठी का आदिम साहित्यकार कहा जाता है। इन्होंने भावार्थदीपिका नाम की भगवद्गीता की व्याख्या १२६० ई० में बनाई। इसी को ज्ञानेश्वरी भी कहते हैं। इसके अलावा अमृतानुभव नाम का एक दर्शन-ग्रंथ और कुछ स्तोत्र और भजन भी इनकी कृति हैं। इतना काम इन्होंने २२ साल की अवस्था में कर

लिया और संसार छोड़ गए। मुकुन्दराज के ग्रंथ विवेकसिन्धु और परमामृत ज्ञानेश्वर के पहले के हैं। शैली आदि आन्तरिक परीक्षा से ये ग्रंथ ज्ञानेश्वरी के बाद के जंचते हैं पर संभावना यही है कि इनके वर्तमान संस्करण ही ज्ञानेश्वरी के बाद के हैं, मूल संस्करण पूर्वकालीन रहे होंगे। मुकुन्दराज के ये ग्रंथ ज्ञानेश्वर की कृतियों के बराबर लोकप्रिय न हो पाए। ज्ञानेश्वर के समकालीन ही, पर उनसे कुछ छोटे नामदेव थे। यह जाति के दर्जा (शिल्पी) थे। इनका देहान्त १३५० ई० में हुआ। कोई दो सौ साल बाद (१५४८ ई० में) एकनाथ का जन्म हुआ। इनका ग्रंथ एकनाथी भागवत बड़े महत्त्व का है और ज्ञानेश्वरी के बाद लोकप्रियता में इसी का नम्बर आता है। एकनाथ ने रामायण और महाभारत के आधार पर कुछ काव्य भी रचे। इस प्रकार दक्खिनी हिन्दी में किसी रचना के बनने के बहुत पहले मराठी में अच्छा खासा साहित्य मौजूद था।

द्राविड़ साहित्य तो और भी पुराना है। तिरुविलिङ्गयडल पुराण (१२वीं सदी ई०) और तेवारं (७वीं सदी ई०) नाम के ग्रंथों में सुरक्षित अनुश्रुति के अनुसार पांड्य देश में द्राविड़ संग होते थे। तीन संगों का साहित्य अस्तित्व बताया जाता है। प्रथम संग का स्थान मदुरा था और स्थितिकाल ४४०० वर्ष। इसमें अग्रस्त्य, शिव आदि सदस्यों की संख्या ५४६ और ग्रंथकारों की ४४४६ थी। द्वितीय संग का स्थान कवाटपुरं था, इम नगर का उल्लेख वाल्मीकि की रामायण में भी मिलता है। इस संग में ५६ सदस्य थे और ३७०० कवि और ग्रंथकार। इसका स्थितिकाल ३५०० वर्ष का था। तीसरे संग में ४६ सदस्य और

४४६ ग्रंथकार थे। इसका स्थितिकाल १८५० साल था और स्थान उत्तर मदुरा (वर्तमान मदुरा) था।

ऊपर दी गई संख्याओं में स्पष्ट ही कृत्रिमता और अत्युक्ति है और पुराण के रचयिता की कपोल कल्पना जान पड़ती है। प्रथम संग का कोई ग्रन्थ नहीं मिलता; उपलब्ध परिपाडल बहुत करके तीसरे संग का है। तीसरे संग के कवि नक्कीरर ई० दूसरी सदी के समझे जाते हैं। कपिलर के बारे में विद्वानों का मत है कि यह ई० पहली सदी के उत्तरार्ध और दूसरी के पूर्वार्ध में हुए। तैवार के रचयिता अप्पर स्वामिगळ ने लिखा है कि दारुमि नाम के एक कवि ने संग से सम्मान और पुरस्कार पाया था।

द्राविड़ शब्द संग संस्कृत के संघ शब्द का रूपान्तर है। उत्तर भारत में बौद्ध और जैन संघों का अस्तित्व बहुत पहले से था। दक्खिन में वज्रनन्दि नाम के एक जैन साधु ने ४७० ई० में एक द्राविड़ संघ की स्थापना की। यह धार्मिक था। सम्भव है कि साहित्यिक संगों की कल्पना को इस धार्मिक संघ से बल मिला हो। संगों के अस्तित्व में अविश्वास रख कर भी इतना मानना पड़ता है कि तामिल भाषा का साहित्य ईसा की प्रारम्भिक सदियों तक का मिलता है। प्राचीन ग्रंथों की भाषा बाद की तामिल से बहुत पुरानी और भिन्न है। अनुमान है कि तामिल का प्राचीन युग ५ वीं सदी ई० में समाप्त हो गया और छठी सदी से नवयुग शुरू हुआ। तामिल में केवल धार्मिक ग्रन्थ ही नहीं हैं। मण्णिसल्लर और कुंडलकेशि नाम के दो महाकाव्य भी हैं जो प्राचीनता में संग काल के माने जाते हैं।

कन्नड़ भाषा का जो सब से पुराना ग्रन्थ मिलता है वह है नृपवृक्ष (असोववर्ष) का बनाया हुआ अलंकार-ग्रन्थ कविराजमार्ग।

राष्ट्र कूट नरेश नृपतुङ्ग का समय ई० ८१५-८७७ निर्धारित किया गया है। इन्होंने अपने ग्रन्थ में विमल, उदय, नागार्जुन, जय-वन्धु और दुर्विनीत नाम के सर्वोत्तम गद्य लेखकों और श्रीविजय, कवीश्वर, पंडित, चन्द्र और लोकपाल आदि सर्वोत्तम कवियों का उल्लेख किया है। अवनिसुन्दरीकथा के अनुसार भारवि, दुर्विनीत के दरबार में गए थे और इस लिये दोनों समकालीन माने जाते हैं। दुर्विनीत गांग नरेश थे और चालुक्य वंश के प्रथम नरपति विष्णुवर्धन और कांची के पल्लव नरपति विष्णुवर्धन के सहयोगी। इस तरह दुर्विनीत का स्थितिकाल ६०० ई० के करीब पड़ता है। कन्नड़ में ही तत्त्वार्थ महाशास्त्र की एक टीका चूडामणि (तुम्बुलूराचार्य कृत) है। यह सातवीं सदी की समझी जाती है। कन्नड़ में शिलालेख पाँचवीं सदी ई० तक के पुराने मिलते हैं।

तेलगू भाषा का सब से पुराना ग्रन्थ भारत है। इसके रचयिता, पूरबी चालुक्य नरेश राजराज के राजकवि नाज्ञय्य भट्ट थे। राजराज का समय १०२३-६३ ई० है। नाज्ञय्य भट्ट तेलगू भाषा के प्रथम व्याकरण-कार भी हैं। किसी भाषा में व्याकरण का बनना इस बात का द्योतक है कि उस भाषा में थोड़ा बहुत साहित्य रचा जा चुका है। शिला-लेखों की कवितामयी भाषा से भी इस बात का प्रमाण मिलता है। इनमें गुणगविजयादित्य (८४४-८८ ई०) के लेख उल्लेख-योग्य हैं।

केरल की भाषा १० वीं सदी ई० तक शुद्ध तामिल (शैन्द-मिळ) रही इस कारण मलयालं का साहित्य बहुत पुराना नहीं मिलता। द्राविकोर के नरेश श्रीराम का बनाया हुआ रामचरितं मलयालं का प्रथम ग्रन्थ समझा जाता है। श्रीराम १३ वीं सदी ई० में हुए।

हमने आपको मराठी, तामिल, कन्नड़ आदि भाषाओं के प्राचीन साहित्य का इस कारण परिचय कराया कि आप लोगों को समझा सकें कि भारतवर्ष के जिस प्रदेश में यह हिन्दवी साहित्य पनपा वहाँ अच्छा खासा साहित्य विविध भाषाओं में पहले से मौजूद था। देवगिरि में मुस्लिम राज १३२७ ई० में कायम हो चुका था, पर साहित्य का पहला ग्रन्थ ख्वाजाबन्दा नवाज़ गेसू दराज़ मुहम्मद हुसेनी का मीराजुल आशिकीन इसके प्रायः सौ साल बाद बना। इसके मुक्काबिले में मराठी भाषा में महिम-भट और ज्ञानेश्वर के ग्रन्थ १३०० ई० के पहले रचे जा चुके थे, और तामिल, कन्नड़, तेलगू के ग्रन्थ तो कई सौ साल पहले।

दक्खिन में यह नया साहित्य वहमनी, आदिलशाही, कुतुबशाही आदि सुल्तानों और उनके दरबारियों के दिमाग की उपज थी। इन सुल्तानों में से कइयों ने हिन्दू राजघरानों से कन्याएँ लेकर अपने महल बसाए और कुछ हिन्दू विद्वानों को राज्य और शासन का भी थोड़ा बहुत भार सौंपा। पर इस हिन्दवी भाषा के साहित्य के निर्माण में उस प्रदेश की जनता का कोई सहयोग नहीं दिखलाई पड़ता। सम्भव है कि इन नये आये हुए शासकों के सम्पर्क से मराठी, तेलगू, तामिल आदि भाषा भाषियों ने जहाँ अरबी और विशेषकर फ़ारसी साहित्य को देखा और पढ़ा हो, वहाँ हिन्दवी के साहित्य का भी अवलोकन किया हो और मसनवियों आदि के क्रिस्से कहानियों में रुचि दिखलाई हो। लेकिन कलाकार इस साहित्य का कोई हिन्दू नहीं हुआ। १७ वीं सदी तक जितने ग्रन्थ दक्खिनी हिन्दी के मिलते हैं वे सब मुस-लमान साहित्यिकों की कृतियाँ हैं।

आगे चलकर व्यंग्यार विवेचन से मानूस होगा कि हिन्दवी

जबान पंजाब के पूरबी हिस्से और दिल्ली मेरठ के आस पास की भाषा थी। इस प्रदेश के निवासी भी उत्तर भारत का साहित्य-विहीन न थे। पृथ्वीराज की हार (११९३ ई०) के बाद स्वदेशी संस्कृति बिखर सी गयी थी। केन्द्र टूट चुका था। निःस-सहाय मध्यमवर्ग को मथुरा वृन्दावन की शरणलेनी पड़ी। राज-पूतों ने राजपूताने में घर बसाया। कलाकार भी तितर बितर हो गए थे। इस समय में साहित्यिक भाषाएँ तीन थीं—संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। तीनों में रचनाएँ जारी थीं। दर्शन और साहित्यशास्त्र आदि के उच्चकोटि के ग्रन्थ संस्कृत में अब भी लिखे जाते थे। जयचन्द के राजकवि श्री हर्ष का नैषधीयचरित इस देश के महाकाव्य-साहित्य में अपना सानी नहीं रखता। उसकी नाजुक खयाली और अतिशयोक्ति उर्दू के बढ़िया से बढ़िया काव्य से टक्कर ले सकती हैं। श्रीहर्ष का ही, दर्शनशास्त्र का उत्तम ग्रन्थ खंडनखंडखाद्य आज भी बड़े बड़े दार्शनिकों के दौँत खट्टे करने में समर्थ है। कन्नौज के नरेश चंडपाल और महेन्द्र-पाल के दरबार का कवि राजशेखर, १० वीं सदी के आरम्भ में ही, उत्तम उत्तम संस्कृत ग्रन्थों के अलावा प्राकृत भाषा में कर्पूर-मंजरी सा अपूर्व सट्टक रच चुका था। साथ ही साथ जैन कला-कार अपभ्रंश में चरित पर चरित रचते चले जा रहे थे।

इस देश के सम्राटों में अन्तिम थे प्रतापी महाराज हर्षवर्धन (६०६-६४८ ई०)। उनके समय तक, जो-जो आक्रमणकारी बाहर से आए वे या तो स्वयं द्वार कर वापस गए या जीत गए तो ऐसे घुलमिल गए कि इसी देश के होकर स्वदेशी समाज के अंग बन गए। हमारे चातुर्वर्ण्य में आर्य, द्राविड़, शक, हूण आदि

कितनी ही जातियाँ शामिल हैं। हर्षवर्धन के समय में ही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का कड़ुआ फल दिखाई पड़ने लगा था। जिस भावना से स्कन्दगुप्त को देशी राजाओं ने हूणों को बाहर भगा देने में मदद पहुँचाई थी उसका हास हो गया था। भारत इस समय राजनीतिक टुकड़ियों में ही नहीं समाज और संस्कृति सम्बन्धी टुकड़ियों में बँट गया था। ऐसी परिस्थिति में भारत कुछ ही दिनों ईरानी, अरबी और तुर्की हमले वालों से टक्कर ले सका। सिन्ध पर किया गया अरबों का हमला (७१२ ई०) चिरस्थायी न रह सका। महमूद गज़नवी भी भारत के मर्मस्थल पर क़ब्ज़ा न कर पाया। पर मुहम्मद ग़ोरी द्वारा दिल्ली में पराधीन किए जाने पर, भारतीय राजश्री के दिन चल दिए। नरेशों ने हिम्मत ही नहीं हारी, पृथ्वीराज की मदद तो दूर, उसकी हार को अपनी जीत समझे। पर विदेशी कब किसका हुआ है? अरब और ईरान की जनता में उस समय वही आग भड़काई गई थी जो आज जर्मनी और जापान के नेताओं ने अपने देशों में भड़काई है। नतीजा यह हुआ कि जहाँ हमला करनेवाला जान की वाज़ी खेल कर लड़ रहा था वहाँ उस समय का भारतीय एकत्व की भावना को भूला हुआ था। वह भगवान कृष्ण के मार्मिक उपदेश

एतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महोम् ।

तस्माद्गुत्तिष्ठ कीन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥

की याद खो चुका था, वेद के आदेश

मंगच्छ्यं संवदप्यं संधो मनांसि जानताम् ।

अथवा

गमानी प्रया सद् वोऽन्नभागः ।

मन्त्र की कौन बात कहे ?

वर्तमान भारतीय आर्य भाषाओं का आरंभ मोटे ढंग से क़रीब १००० ई० के बाद से माना जाता है और उससे पहले

अपभ्रंश का । इस समय संस्कृत और शौरसे-

भाषाओं की नी महाराष्ट्री आदि प्राकृतें पखिडतसभा स्थिति की ही चीजें रह गई थीं । साधारण जनता न उन्हें समझती थी न बोलती थी ।

अपभ्रंश ही बोलचाल के सबसे निकट की भाषा थी । काव्य में अपभ्रंश के इस्तेमाल का पहला उल्लेख हमें दण्डी की काव्यादर्श नाम की पुस्तक में मिलता है--

आभीरादिगिरः काव्येष्वपभ्रंशतया स्मृता : ।

ऐसा जान पड़ता है कि आचार्य दण्डी के समय (७वीं सदी ई०) में आभीर आदि इस देश में बहुत पुराने नहीं पड़े थे और उस समय की बोलचाल की भाषा अपभ्रंश बोलते थे । काव्य में उनके मुख से जो भाषा सुलवाई जाती होगी वह संस्कृत या प्राकृत न होकर अपभ्रंश ही रहती होगी । अपभ्रंश में साहित्य-निर्माण का उल्लेख बाण के हर्षचरित में भी मिलता है । अपभ्रंश में साहित्य का सृजन १६वीं सदी ई० तक चलता रहा पर १,००० ई० के क़रीब यह उच्चशिखर पर रहा होगा । इस समय के आस पास की वीसियों रचनाएँ मिली हैं । अपभ्रंश उत्तर भारत में सिन्ध से लेकर बंगाल तक और दक्खिन में गुजरात और महाराष्ट्र तक फैले हुए थे । इनका जो रूप सर्वमान्य हुआ वह उसी प्रदेश का था जो आज मोटे तौर से खड़ी बोली का क्षेत्र है । भाषा-विज्ञानियों की धारणा है कि अपभ्रंश के इस साहित्यिक रूप के साथ, उसका बोलचाल का भी कोई रूप

भारत में सब कहीं प्रचलित था और हर राज्य में ऐसे लोग थे जो इस को अन्तर्राज्य या अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार के लिए काम में लाते थे। स्थिति कुछ आजकल की खड़ी बोली हिन्दी की स्थिति सी रही होगी। संस्कृत भी अन्तर्राज्य व्यवहार के लिए मौजूद थी पर उसका इस्तेमाल अपेक्षा से सीमित था। वह पंडित-समाज की चीज रह गई थी। इस बोलचाल के अभ्रंश में भी अलग अलग जनपदों के अनुसार थोड़े बहुत भिन्न रूप रहे होंगे। आज भी जो हिन्दी खड़ी बोली का रूप हमें पञ्जाबी, सिन्धी, तेलगू आदि अलग-अलग भाषाओं के क्षेत्र में बोलचाल में सुनाई पड़ता है, वह एक नहीं और स्टैंडर्ड खड़ी बोली से जुदा है। जब आज रेल डाक आदि परस्पर सम्पर्क और आने जाने के साधनों की बहुतायत के समय में ऐसी हालत है तो ११ वीं सदी में इससे कैसी भिन्न समष्टि-बोधक स्थिति रही होगी उसका अन्दाज़ लगाया जा सकता है। अरब के मशहूर यात्री अल्बेरूनी ने ११वीं सदी के आरंभ काल (१०२५ ई०) की स्थिति का बयान करते हुए लिखा है कि उस समय भारत में भाषा की दो शाखाएँ थीं—एक साहित्य की और दूसरी बोलचाल की। इस बोलचाल वाली को वह उपेक्षित और जनसाधारण की मानता है। यह बोलचाल का अभ्रंश ही रहा होगा। सवाल उठाया जा सकता है कि उस समय भारत में अलग अलग स्वतन्त्र राज्य थे और अलग अलग जनपदीय बोलियाँ, इनमें आपस के लेन-देन या व्यवहार की कल्पना करना युक्तिसंगत नहीं। इस सवाल का जवाब यही है कि इस देश में भिन्नता के होने पर भी संस्कृति-मन्यन्त्रों एकरा पुराने समय से चली आ रही थी। इसका इति-शम प्रियदर्शी राजा अशोक से लेकर लगातार मिलता है।

एकता में बाँधने वाले केवल मौर्य, गुप्त आदि बड़े बड़े साम्राज्य ही न थे, ये इनके अलावा देश के कोने कोने में फैले हुए हिन्दू, बौद्ध और जैन तीर्थस्थान । चारों कोनों पर शंकराचार्य की पीठों और कुम्भ आदि देशव्यापी मेलों की योजना भी समष्टि और एकता की भावना को जाग्रत और स्थिर रखने में काफ़ी मदद पहुँचाती रही है ।

सफल विदेशी आक्रमण को अन्दर से खोखला करने के उपाय भारतीय समाज ने सोचे थे । मुस्लिम धर्म को राजकीय बल मिल हुआ था, उसके सहारे मुस्लिम सन्त और दर्वेश अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे और फलस्वरूप भारतीय समाज के कुछ लोग अपना धर्म बदल रहे थे । स्वदेशी जन को स्वदेशी धर्म और संस्कृति में क़ायम रखने के लिए भारतीय नेताओं को उस समय नए उपायों का अवलम्बन करना पड़ा । रीति रिवाज के नियम कड़े कर दिए गए । अन्दर ही अन्दर विदेशी के बहिष्कार की भावना को उत्तेजना दी गई । गोरखपन्थी, सहजिया आदि साधुओं के समूह के समूह अपने अपने मत का प्रचार करने के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक फिर रहे थे । इस सर्वंकष प्रचार के लिए वर्तमान भाषाओं का सहारा लिया गया और अन्तजनपद प्रचार के लिए बोल चाल के अपभ्रंश का । यह प्रचार मुख्यरूप से ज़बानी ही किया गया ।

उत्तर भारत की इस बोलचाल की भाषा में साहित्य का सृजन पहले पहल विदेशियों ने किया । यह बात स्वाभाविक थी । इस समय देशी कलाकार अपनी प्रचलित साहित्यिक भाषाओं—संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश—में रचनाएँ कर रहे थे । ये ज़बानें आए हुए विदेशियों के लिए मुश्किल ही नहीं, बेकार भी थीं ।

अपनी मातृ-भाषा फ़ारसी, तुर्की के अलावा यदि उन्हें किसी भाषा से सरोकार था तो साधारण जनता की बोल-चाल की भाषा से जिसमें उन्हें रोज़ाना व्यवहार करना था। उन्हें इस देश में अपने साहित्य और संस्कृति का भी प्रचार करना था। यह सुगमता से बोल-चाल की ही ज़बान में हो सकता था। इस प्रचार कार्य में मुसलमान सन्तों और दर्वेशों का ही मुख्य हाथ था। इनके घरों पर बहुधा और नियमरूप से फ़ारसी बोली जाती थी। सुल्तानी खानदानों में फ़ारसी का ही दौर दौरा था। पर भारतीय जन के साथ व्यवहार करने में इस प्रदेश की भाषा शौरसेन अपभ्रंश की उत्तराधिकारिणी खड़ी बोली का सहारा लिया गया। डा० अब्दुल हफ़ ने अपनी किताब “उर्दू की इत्ति-दाई नशो व नुमा में सूफ़ियाय कराम का काम” में इस बात का उल्लेख किया है कि इन फ़कीरों और बुजुर्गों के घरों पर कभी कभी हिन्दी भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। इन साधु संतों की मजलिसों में केवल विदेशी मुसलमान ही नहीं, भारतीय मुसलमान और थोड़े बहुत हिन्दू भी शामिल होते होंगे। इन हिन्दु-स्तानियों के लिए इन बुजुर्गों को हिन्दी भाषा का प्रयोग करना पड़ता होगा, टूटे फूटे शब्दों में ही सही। आज भी गिर्जाघरों में जनपदी बोली या खड़ी के साथ अंगरेज़ी के शब्दों की फ़नक मिनती है। इसी तरह आज से सात आठ सौ साल पहले भी एक खिचड़ी बोली निकल पड़ी जिसका आश्रय सर्वांश में भारतीय था, केवल विदेशियों के मुँह से निकली हुई ज़बान में विदेशी शब्दों की संख्या कुछ न कुछ रहती थी। उस समय भी भारतीय जन खड़ी बोली में बहुत विदेशी शब्द न लाता होगा और जिन्हें लाता भी होगा उन्हें भारतीय जामा पहनाकर। धीरे-धीरे मुस्लिम

राज्य और संस्कृति के विस्तार के साथ साथ इस खड़ी बोली (हिन्दी) की भी व्यापकता बढ़ी। सूफियों का बयान करते हुए डा० अब्दुल हक उसी पुस्तक में लिखते हैं--

“इन बुजुर्गों के घरों में भी हिन्दी बोलचाल का रवाज था और चूं कि यह इनके मुफ्तीदे मतलब था इसलिए वह अपनी तालीम व तकलीफ में भी इसी से काम लेते थे।”

जरा “इनके मुफ्तीदे मतलब” इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। इनमें साफ इशारा धर्म प्रचार की ओर है। धर्म प्रचार के लिए जनता की बोली से बढ़कर कोई साधन नहीं हो सकता। इसी लिए महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने संस्कृत (छन्दस्) का पल्ला न पकड़ कर प्राकृते अपनाई। गोरख, कबीर, तुलसीदास ने जनपदी बोलियाँ लीं। ईसाई पादरियों ने भी विविध जनपदी बोलियों में इंजील के अनुवाद कराए और उनके द्वारा ईसाई मत का इस देश में प्रचार किया। इसी तरह इतिहास-पूर्व काल में अगस्त्य, परशुराम आदि आर्य संस्कृति के प्रचारकों ने दक्षिण में उस समय की बोल चाल की भाषाओं में प्रचार किया होगा।

जिस भाषा को मुसल्मान सूफियों ने धर्म के प्रचार का साधन बनाया और जिसे मुस्लिम साहित्यकारों ने अपने सृजन की भाषा माना वह इस देश में पहले से मौजूद थी।

हिन्दी का उसे मुसल्मान कहीं बाहर से नहीं लाए।

आदिकाल जिस समय इन्होंने उसे अपनाया, उस समय भी उसमें प्रचुर कथा-साहित्य और गीति-काव्य मौजूद रहा होगा जो आज मिलता नहीं, क्योंकि लिखा नहीं गया। पर वह परम्परा से जनपदी लोकभाषा में चला आ रहा है। सच तो यह है कि सभी बोलियों में वह मौजूद है।

मुस्लिम सन्तों और साहित्यकारों ने उस भाषा को इतना सहारा
 अवश्य दिया कि उसे अपने प्रचार का साधन बनाया। खेद है
 कि उस समय के ये विदेशी साहित्यकार भारतीय साहित्यिक
 भाषाओं और परम्पराओं से परिचित न थे और न उन्हें ज्ञान था
 यहाँ के अलंकारशास्त्र और छन्दशास्त्र का। नहीं तो वे भारतीय
 जनता के दिलों तक पहुँचने के लिए अपने ख्यालों को पूरे तौर
 से भारतीय जामा पहनाते। नतीजा यह हुआ कि उनके बनाए
 हुए ग्रंथ जनता में जगह न कर पाए। उनकी भाषा में ज़रूरत
 से ज्यादा विदेशीपन का पुट था।

उत्तर भारत में हिन्दी के कवियों में सर्वप्रथम अमोरखुसरो
 समझे जाते हैं। प्रसिद्ध औलिया शेख निजामुद्दीन (१२३६-१३
 २४ ई०) के यह शिष्य थे। इनका जन्मस्थान जिला एटा और
 जन्मवर्ष १२५३ ई० बताया जाता है। देहान्त १३२५ ई० में हुआ।
 इन्होंने फारसी में काफी कविता की है पर हिन्दी में भी थोड़ा
 बहुत कहा है। इनकी जो कविता मिलती है उसकी भाषा विश्व-
 सनीय नहीं। तब भी इतना कह सकते हैं कि इनकी हिन्दी बोल-
 चाल की भाषा थी, जिसमें खड़ी के साथ ब्रज का भी थोड़ा पुट
 था। इन्होंने अपने पूर्ववर्ती कवि मसऊद का उल्लेख किया है
 जिनमें भी प्रचुर फारसी काव्य के अतिरिक्त कुछ हिन्दी में भी
 लिखा था। मुहम्मद औफ़ी ने अपने तज़करे (१२२८ ई०) में
 लिखा है कि मसऊद ने दो दीवान फारसी में और एक हिन्दी में
 लिखा था। मसऊद मुल्तान इब्राहीम के ज़माने में थे और दिल्ली
 के पराजय के समय ज़िन्दा थे, इसलिये उनका समय १२वीं
 ई० सदी माना जाता है। खेद है कि इस कवि का कोई भी हिन्दी
 काव्य, ग़ज़ल या मन्ज़ू, नहीं मिलता।

डा० अब्दुल हक ने उक्त पुस्तक में शेखफरीदुद्दीन शकरगंजी (११७३-१२६५ ई०) का कुछ कलाम उद्धृत किया है। ये पद्य देखिये—

तन धोने से जोदिल होता पूक ।
 पेशरू असक्रिया के होते गूक ॥
 रीश सचलत से गर बड़े होते ।
 बोकड़वाँ से न कोइ बड़े होते ॥
 खाक लाने से गर खुदा पाएँ ।
 गाय बैलाँ भी वासलाँ होजाएँ ॥
 गोश गीरी में गर खुदा मिलता ।
 गोश चोयाँ कोई न वासिल था ॥
 इश्क का रमूज़ न्यारा है ।
 जुज़ मदद पीर के न चारा है ॥

इन्हीं शीख के झूलना के ये दो शेर भी देखिये—

जली याद की करना हर घड़ी, यक तिल हुज़ूर सों टलना नई ।

उठ बैठ में याद सों शाद रहना, गवाहदार को छोड़के चलना नई ॥

शेख-शरफुद्दीन वू अली कलन्दर जिनका देहान्त १३२३ ई० में हुआ, अमीर खुसरो के समकालीन थे। इनका यह दोहा मशहूर है—

सजन सकारे जायेंगे और नैन मरेंगे रोय ।

विषना ऐसी रैन कर भोर कधी ना होय ॥

इस तरह उत्तर भारत की खड़ी बोली में काव्य का निर्माण १२ वीं सदी ई० तक का प्राचीन मिलता है और दो चार नमूने १३ वीं सदी के मिलते भी हैं। खड़ी बोली में साहित्य के निर्माण की परम्परा उत्तर भारत में इसके बाद कई सदियों तक लुप्त

रही। तुलना की नज़र से खड़ी की अपेक्षा अवधी और ब्रज का साहित्य इससे काफी बाद का है। अवधी के प्रथम सन्तकवि कबीर १५ वीं सदी में हुए। ब्रज में साहित्यनिर्माण १५ वीं सदी के अन्त में जब बल्लभाचार्य ब्रजमंडल में आकर रहने लगे तब से आरम्भ होता है। मैथिली में ज्योतिरीश्वर कविशेखराचार्य का वणरत्नाकर १४ वीं सदी के आरम्भ का है। डिंगल का पृथ्वी-राजरासो पृथ्वीराज के दरबारी चन्द्रकवि का बनाया हुआ कहा जाता है पर इस ग्रन्थ का वर्तमान उपलब्ध रूप उस समय का नहीं है, और १६ वीं सदी का हो सकता है।

हिन्दी के कुछ मान्य विद्वानों ने कभी कभी पुष्पदन्त आदि अपभ्रंश के कवियों को और बौद्ध गान ओ दोहा आदि के रचयिताओं को हिन्दी के आदि कवियों का पद दिया है। पर यह भ्रम है। उन ग्रन्थकारों की भाषा और हिन्दी में बड़ा अन्तर है। सचाई यह है कि हिन्दी खड़ी बोली के जो प्राचीन ग्रन्थ इस समय मिलते हैं वे विदेशियों की कृतियाँ हैं। इस बात को स्वीकार करने में कोई लज्जा की बात नहीं कि हमारी भारतीय बोली "हिन्दी" को नष्ट आये हुए विदेशियों ने साहित्य का माध्यम बनाया। जब उन्होंने इसे अपनाया उस समय भारतीय परम्परा में ऊँचे दर्जे का साहित्य संस्कृत में रचा जा रहा था, पर काव्य, नाटक, कथा कदाही आदि प्राकृतों और अपभ्रंशों में लिखे जा रहे थे। भारतीय परम्परा के अनुकूल ही इस हिन्दी में भी लोक-गीत और लोक-कथाएँ रही होंगी जो मौखिक थीं और जिनका कोई लिखा निशान बाकी नहीं। विदेशियों की विद्याओं की भाषा नहीं की संस्कृत के मुक्ताविले की कारसी थी और विदेशी परम्परा वाले विद्या मार्ग की चीजें कारसी में लिखने थे पर

जन-साधारण के समझने लायक सिद्धान्त और किस्से कहानियाँ हिन्दी में भी लिख देते थे। आरम्भ-काल की रचनाएँ अधिकतर फ़ारसी के ग्रन्थों के अनुवाद हैं। इसी लिये उनमें भाव विदेशी हैं। भाषा भारतीय है, पर जहाँ तहाँ अरबी फ़ारसी की शब्दावली की खपत सहित; लिपि फ़ारसी, छन्द भी फ़ारसी, कविता का रूप भी फ़ारसी—मसनवी, मर्सिया, क़िता आदि, न कि महा-काव्य, खण्डकाव्य, चरित आदि।

खड़ी बोली के साहित्य की यह विदेशी परम्परा ईसा की चौदहवीं पंद्रहवीं सदी में गुजरात, महाराष्ट्र, विजयनगर आदि दक्खिनी प्रदेशों में मुसल्मानी फ़ौजों और दक्खिन को सन्तों और दर्वेशों के साथ गई और ज्यों-ज्यों प्रस्थान ये लोग वहाँ बसते गये त्यों त्यों वहाँ इसने भी घर कर लिया। फ़ौजों के जाने का विवरण ऊपर दिया जा चुका है और यह भी बताया जा चुका है कि किस तरह दक्खिन में ये मुसल्मानी सल्तनतें कायम हुईं। दौलतावाद में पूरी दिल्ली ला बसाने की मुहम्मद तुग़लक की सनक सब लोगों को मालूम है। सन्त लोग किस संख्या में पहुँचे इसका विवरण डा० अब्दुलहक़ के शब्दों में सुनिए—

“हज़रत बुहानुद्दीन ग़रीब अपने मुर्शिद कामिल हज़रत सुल्तानुल-शौलिया ख़ाजा निज़ामुद्दीन के हुक़म से चार सौ बुज़ुर्गों के साथ दक्खिन की जानिब ख़ाना हुए और यहाँ पहुँच कर दौलतावाद (रौज़ा) में क़याम क़र्माया।”

—मीराजुल आशिक़ीन की भूमिका

अचरज की बात यह है कि जहाँ उत्तरभारत में खड़ी बोली की इस परम्परा की रचना कई सदियों तक लुप्त रही, दक्खिन में

इन्हीं सदियों में यह खूब फूली फली। इसका एक ही कारण समझ में आता है और वह यह कि उत्तर भारत वालों का फ़ारस आदि से बराबर सम्पर्क जारी रहा। नए नए राजवंश आ आकर क़ब्ज़ा करते रहे और अपने अपने देशों से लाए हुए फ़ारसी के कवियों और ग्रंथकारों का आदर मान देते रहे। इस प्रकार उत्तर में फ़ारसी का प्रभुत्व कायम रहा और क़रीब १८वीं सदी के मध्य तक अडिग रहा। पर दक्खिनी रियासतों में यह विदेशी सिलसिला नाममात्र को रह गया। औरंगज़ेब ने जब दक्खिन जीत लिया तब जाकर बड़ी तादाद में आना जाना फिर शुरू हुआ। इस लिए हिन्दी ने जो क़दम दक्खिन में जमाए उन्हें फ़ारसी हिला न सकी। बहोला मुल्तानों ने फ़ारसी के साहित्यकारों को भी मान और पुरस्कार दिया पर हिन्दी को मिटा कर नहीं।

प्रसिद्ध इतिहासकार फ़रिश्ता ने लिखा है कि बहमनी राज्य के दफ़तरों में हिन्दी ज़बान प्रचलित थी और सल्तनत ने उसे सरकारी ज़बान का पद दे रक्खा था।

हिन्दी बहमनी राज्य के छिन्न-भिन्न हो जाने पर भी

राजभाषा हिन्दी का यह पद उत्तराधिकारी रियासतों ने कायम रक्खा। दक्खिन में फ़ारसी की

निरवत हिन्दी का राजभाषा बनना दो कारणों से हुआ जान पड़ता है। इस प्रदेश में मराठी तेलगू आदि कई भारतीय भाषाएँ चल रही थीं। पर इनसे उत्तर भारत से आए हुए सिपाही और फ़र्माँर परिचित न थे। उन्हें ज्ञान था केवल हिन्दी का, और अन्धश्रद्धा को फ़ारसी का। बहोले सिपाही फ़ारसी से भी अनाभिन्न रहें होंगे। सब जगह थोड़ा बहुत प्रचलित अपभ्रंश उस प्रदेश में भी रहा होगा। उसके नाते जनता को भी हिन्दी

थोड़ी बहुत परिचित लगती होगी। इस लिए हिन्दी को ही अपना ना नीति-संगत समझा गया। दूसरे यादववंशी नरेशों ने एक देशी भाषा मराठी को राजभाषा कर रक्खा था। हिन्दी को उस भाषा की जगह बिठाने में परम्परा की भी थोड़ी बहुत रक्षा हो गई।

दक्खिनी के पहले ग्रंथकार ख्वाजा वन्दानवाज़ गेसूदराज़ मुहम्मद हुसेनी (१३१८-१४२२ ई०) हैं। इनके पिता सैयद यूसुफ़ (शाह राजू क़त्ताल) उस चार सौ के समूह में

दक्खिनी में आए थे जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका

साहित्य-निर्माण है। दक्खिन आने के समय ख्वाजा की अव-

स्था चार पाँच साल की थी। माँ भी साथ

आई थीं। अभी आप पन्द्रह साल के ही हुए थे कि पिता स्वर्ग सिधार गए। उनके देहान्त पर यह अपनी माँ के साथ दिल्ली लौट गए।

१३६८ ई० में तैमूर लंग ने दिल्ली जीती और ऐसा ऊधम मचाया कि ख्वाजा मुहम्मद हुसेनी अस्सी साल की उम्र में भी बाल-

बच्चों समेत दक्खिन की तरफ़ रवाना हुए और भेलसा, गवा-लियार, भौंड़ी और गुजरात के अन्य स्थानों से होते हुए दौलता-

बाद पहुँचे, और सुल्तान फ़ीरोज़शाह बहमनी के निमन्त्रण पर गुलबर्गा चले गए और मरते दम तक वहीं रहे। आपकी कृतियाँ अधिकतर फ़ारसी में हैं पर तीन रिसाले, मीराजुल आशक़ीन,

हिदायत नामा और रिसाला सेहवारा, दक्खिनी में हैं। इनमें से पहला डा० अब्दुलहरू ने सम्पादित कर प्रकाशित किया है। यह

उन्नीस पन्नों का अरबी फ़ारसी मिश्रित हिन्दी गद्य है। यह बात संभावना से बाहर नहीं कि ख्वाजा साहब ने मूल पुस्तक फ़ारसी में लिखी हो और वर्तमान ग्रंथ उसका अनुवाद हो। इसकी

पुरानी से पुरानी प्रति सन् १५०० ई० की लिखी हुई मिली है।

इस लिए ख्वाजा साहब की कृति के रूप में न सही, १५वीं सदी के गद्य के रूप में इसका मूल्य कम नहीं। ख्वाजा साहब के पोते अब्दुल्ला हुसेनी के भी एक ग्रंथ निशातुल इफ़्क़ का पता चला है जो शेख़ अब्दुल फ़ादिर हीलानी के फ़ारसी ग्रंथ का दक्खिनी में अनुवाद है। अब्दुल्ला द्वितीय अहमदशाह बहमनी (१४३४-१४५७ ई०) के ज़माने में मौजूद थे। बहमनी राज्य का सब से मशहूर ग्रंथकार और कवि निज़ामी था जो सुल्तान अहमदशाह तृतीय के शासनकाल (१४६०-६२ ई०) में मौजूद था। यह दक्खिनी का पहला कवि है। इसकी रचना कदमराव व पदम मसनवी है।

दक्खिनी साहित्य बीजापुर के आदिलशाही राज्य और गोलकुंडा के कुतुबशाही राज्य में खूब चमका। दोनों राज्यों के सुल्तान न केवल कविरत्नक थे, बहुधा स्वयं अच्छे कवि थे। इनमें मुहम्मद कुली कुतुबशाह (१५००-१६११ ई०) और सुल्तान इब्राहिम आदिलशाह विशेष उल्लेख करने के योग्य हैं।

कुतुबशाही राज्य में बजही, गवासी, इन्न निशाती, गुलाम अली, सेवक आदि कई अच्छे साहित्यकार हुए। इसी तरह आदिलशाही में भी शाह मीरां जी, बुरहानुद्दीन जानिम, मुक़ीमी, ननाती, रमतमी, नसरती आदि कई उच्च कोटि के कलाकार हुए। बहमनी सल्तनत के मिट जाने पर बीदर में बरीदशाही कायम हुई, वहाँ भी थोड़ा बहुत साहित्य रचा गया।

औरंगज़ेब की फौजों ने १६५५-६ में आदिलशाही और कुतुबशाही सल्तनतों को नशत करके मुग़ल राज्य स्थापित किया था। इनमें भी कई अच्छे अच्छे कवि हुए जिनमें प्रमुख कवि बन्नी औरंगज़ादी हैं। इनके अलावा ज़र्दकी, धरती, बजही, बन्नी बारां और इशरती के भी नाम उल्लेख-योग्य हैं।

मुगल राज्य के ही सूबेदार आसफ़जाह १७२३ ई० में स्थायी रूप से दक्खिन के नवाब नियत हुए । अर्से तक यह आसफ़जाही खानदान मुगल राज्य के अधीन रहा और थोड़ा बहुत दिल्ली का शासन मानता रहा । बाद को स्वतन्त्र हो गया और आज तक क़ायम है । बली औरंगावादी के दिल्ली की यात्रा करके लौटने के बाद जहाँ दिल्ली के कवि और ग्रन्थकारों ने फ़ारसी को छोड़कर हिन्दी या रेखता से लिखना शुरू किया, वहाँ दक्खिन में भी ज़बान का स्टैंडर्ड रूप निखरने लगा और साथ ही साथ स्वदेशी शब्दों का बहिष्कार और फ़ारसी शब्दों की भरती आरम्भ हुई । दिल्ली से लेन देन, आना जाना १७ वीं सदी के मध्य से ही चल पड़ा था । अठारवीं सदी में यह और बढ़ा । उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में दिल्ली का केन्द्र टूट गया, लखनऊ जमने लगा, और हैदराबाद भी कलाकारों का अच्छा पोषक साबित हुआ । दिल्ली से आकर हफ़ीज़ दक्खिन में बस गए । यह दक्खिन में, जौक़ दिल्ली में और नासिख लखनऊ में मशहूर हुए । उन्नीसवीं सदी के कवियों के ग्रन्थों में दक्खिनी विशेषताएँ प्रायः गायब ही हैं । अच्छे कवियों की कृतियों में और उत्तर भारत के शाबरों की रचनाओं में न भाषा का और न भाव का कोई अन्तर दिखाई पड़ता है । दोनों फ़ारसी के रंग में सराबोर हैं ।

आसफ़जाही राज्य में इस भाषा में दो चार हिन्दू ग्रन्थकार भी दिखाई पड़ते हैं जिनमें ला० मोहनलाल 'मेहताव' और ला० लल्लिमीनरायन 'शकीक़' का उल्लेख किया जा सकता है । बीसवीं सदी में, और लखनऊ की नवाबी के ख़तम होने पर १६ वीं के उत्तरार्ध में भी, निज़ाम राज्य उर्दू का एकमात्र पोषक रह गया । राज्य की ओर से खुले हाथ से उर्दू के कलाकारों और सभा

सोसाइटियों की मदद की गई। कोई भी आया खाली हाथ नहीं लौटा। अब प्रायः सभी साहित्यकारों की भाषा खालिस उर्दू है। तब भी इक्का दुक्का कवि दक्खिनी में लिख गए हैं। इनमें हलम की ठुमरियों और अजमत के हिन्दी छन्द अच्छे घन पढ़े हैं। मुहिव हैदराबाद के पहले शखस थे जिन्होंने स्त्री-सुधार और स्त्री के अधिकारों पर जोर दिया। इनकी वाणी आदरणीय है।

अगले व्याख्यान में दक्खिनी भाषा का विवेचन किया जायगा।



भाषा

पहले व्याख्यान में हम देख चुके हैं कि जिस बोल चाल की भाषा में अमीर खुसरो और शेख फरीदुद्दीन शकरगंजी आदि प्रारम्भ काल के कलाकारों ने रचना की और जिसका साहित्य उत्तर भारत में लुप्त होकर, दक्खिन में १५वीं, १६वीं और १७वीं इ० सदी में फूट निकला उसका नाम हिन्दवी और हिन्दी था और उसी को दक्खिनी साहित्यकार कभी कभी दक्खिनी भी कहते थे। 'उर्दू' नाम दक्खिनी के किसी कलाकार के ग्रन्थ में नहीं आया। भाषा के अर्थ में इस शब्द का प्रथम प्रयोग उत्तर भारत के कवि मुसहफ़ी ने किया है और मीर ने निकालुशोअरा (१७५२ ई०) में 'ज़वान-ए-उर्दू-ए-मुअल्ला' कहा है। यहाँ उर्दू की ज़वान अर्थ है और उर्दू का अर्थ बाज़ार या लश्कर न होकर उच्च निवासस्थान (शाही क़िला या महल) है।

उर्दू भाषा के उद्गम का विचार करते समय मुसलमान मनीषी इस भाषा का सम्बन्ध मुस्लिम आक्रमण या किसी विशेष भाग में मुस्लिमों की बस्ती से जोड़ देते हैं, और इसी के कारण कभी इसे सिन्ध की, कभी पंजाब की और कभी दक्खिन की करार दे देते हैं, साथ ही यह ग़लत धारणा रखते हैं कि उर्दू हिन्दुओं और

मुसल्मानों के मेलजोल से निकली हुई ज़बान है। ऐसे विवेकी विद्वान जैसे मौ० सुलेमान नदवी भी लिख देते हैं—

“लेकिन हकीकत यह मालूम होती है कि हर मुमताज़ एब्दे की मुकामी बोली में मुसलमानों की आमद व रफ्त श्रीर मेलजोल से जो तर्ग़ियुरात हुए उन सबका नाम उर्दू रक्खा गया है।”

मुक़ालाते उर्दू १९३४ ई० प० ४६

मुसल्मानों की आमद-रफ्त व मेलजोल से भारतीय भाषाओं पर केवल एक असर हुआ और वह यह कि इनमें अरबी, फ़ारसी और तुर्की आदि विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द आ गए, किसी में कम, किसी में कुछ ज्यादा। मुस्लिम बादशाही के केन्द्र दिल्ली के अड़ोस पड़ोस की भाषा में, स्वाभाविक ही था कि कुछ अधिक विदेशी शब्दों ने जगह कर ली, विशेषकर उस बोलचाल में जो दरबारियों और उस समय के अफसरों के इस्तेमाल में आई या उन लोगों की भाषा में जिन्होंने मुस्लिम विद्यागृहों में शिक्षा पाई। आज भी हम उन लोगों की भाषा में अधिक अँगरेज़ी शब्द पाते हैं जो स्कूल कालेजों में पढ़ते हैं या पढ़ कर अँगरेज़ी दफ्तरों में काम करते हैं। तुलना की नज़र से देखा जाय तो जनता की बोली में केवल नए विचारों का बोध कराने वाले ही विदेशी शब्द अधिकतर आते हैं, दूसरे बहुत कम। पर विदेशी शासन और संस्कृति, विशेष कर शिक्षा दीक्षा से घाल मेल करने वाली श्रेणियों में अपेक्षाकृत जनता जितने शब्द लेती है, उससे कहीं अधिक आ जाते हैं। यह भी संभव है कि यदि एक गिरोह एक जगह कई साल आबाद रह कर दूसरे स्थान पर फिर कुछ साल रहे और वहाँ कई साल रह कर फिर आगे बढ़े तो जिन

जिन स्थानों पर वह गिरोह रहा है उनके कुछ शब्द उसकी बोली में आ जायें।

पर भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है। उसका एक ढाँचा होता है जो उसकी ध्वनियों और व्याकरण से बनता है। वही भाषा का देहपंजर है। उस देहपंजर में बहुत से शब्द मूलरूप से चिपके होते हैं और इन शब्दों का उस पंजर से समवाय सम्बन्ध रहता है। ये शब्द उसके दैनिक व्यवहार के हैं और उन्हें उस भाषा के बोलने वाले रोज काम में लाते हैं। इन शब्दों में भाषा के सर्वनाम, गिनतियाँ, खाने पीने, आने जाने, उठने बैठने, सोने आदि सर्वसाधारण क्रियाओं का बोध कराने वाले शब्द और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों के नाम आते हैं।

एक तो मुसलमान इस देश में एक साथ एक जगह नहीं आए। कुछ अरब मलाबार में ७ वीं ई० सदी में आ बसे थे, कुछ ८वीं सदी में सिन्ध आए थे, थोड़े ईरानी और तुर्क ११ वीं में पञ्जाब में जम गये और फिर १२ वीं सदी के अन्त से शुरू करके उन्नीसवीं तक बराबर कम या अधिक भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा से होकर आते रहे। आज भी निजाम राज्य में कुछ ज़्यादा और भूपाल में कुछ कम मात्रा में अरबी आदि विदेशियों को भरती किया जाता है। यदि इन मुसलमानों और हिन्दुओं के मेलजोल से ही उर्दू बनती तो सिन्ध, मलाबार, पञ्जाब आदि प्रान्तों में रहने वाले मुसलमानों की भाषा एक रही होती। सच्ची बात यह है कि इन मनीषियों की इस भ्रान्त धारणा का मूल कारण भाषा-विज्ञान के मौलिक सिद्धान्तों का और आर्य-भाषाओं के इतिहास का अज्ञान है। भाषा-विज्ञान के विद्यार्थियों को मालूम है कि वह भाषा जिसके हिन्दवी, हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्दू ये कई

नाम प्रचलित हैं, संस्थान की दृष्टि से शौरसेनी प्राकृत और अप-
 भ्रंश की आत्मजा है। जिस भाषा को भाषाविज्ञानियों ने पच्छिमी
 हिन्दी की हिन्दुस्तानी शाखा कहा है, वही इसकी मूल है। यह
 दिल्ली के आस पास की बोली है और पञ्जाब के पूरबी हिस्से
 की केवल इस अंश में कि इसकी दो चार बातें पूरबी पञ्जाबी में
 भी मिलती हैं। पर यह न तो पञ्जाबी है, न सिन्धी और न
 मलाबारी या और कोई (दक्खिनी भाषा)। यह इस देश में,
 मुसलमानों के दिल्ली जीतने के पहले से मौजूद थी, विजेता उसे
 अपने साथ नहीं लाए। वे लाए थे फारसी और तुर्की जिनके
 थोड़े बहुत शब्द इसमें भर गये, बस ! आज भी फारसी में करीब
 एक तिहाई शब्द अरबी के हैं, पर इस कारण फारसी अरबी
 नहीं हो गई। हिन्दुओं और मुसलमानों के मेलजोल से बनी
 हुई भाषा कहने का यदि इतना ही मतलब हो कि उसमें मुस-
 लमानों के माध्यम से ये विदेशी शब्द आ गए हैं, तो उर्दू को
 ऐसा कह सकते हैं। पर यदि इस कथन का यह मतलब हो कि
 उर्दू शैली को हिन्दू और मुसलमान, दोनों वर्गों के कलाकारों ने
 बनाया और सँवारा तो यह सरासर गलत है, क्योंकि १५वीं
 सदी के पहले एक भी हिन्दू कलाकार नहीं मिलता जिसने इस
 शैली में ग्रन्थ बनाये हों, और तब तक इसकी शैली अधिकांश
 में मँज सँवर चुकी थी। बाद को जिन साहित्यकारों ने इसे अप-
 नाया वे इस अन्धकार परम्परा के ही अभिन्न और पोषक थे,
 और स्वदेशी परम्परा से अपरिचित।

हिन्दी, हिन्दवी भाषा के उद्गम आदि की विवेचना वाले
 कई ग्रन्थ हिन्दी वाङ्मय में मौजूद हैं और हिन्दी भाषा और
 साहित्य के जानकार सचाई से परिचित हैं। उर्दू में भी डा०

सैयद मुहीउद्दीन क़ादिरि 'जोर' की हिन्दुस्तानी लिसानियात नाम की पुस्तक है, जिसमें भी भाषाविज्ञान की दृष्टि से विचार किया गया है। इस लिये यहाँ इस विषय को दुहराकर हम आप का समय नहीं बर्बाद करना चाहते।

आज की साहित्यिक खड़ी बोली (हिन्दी या उर्दू) ने एक स्टैंडर्ड रूप धारण कर लिया है, परन्तु अपने ही प्रान्त में बोलचाल की खड़ी में उच्चारण और व्याकरण की विभिन्नता मिलती है। इसी तरह की विभिन्नता दक्खिनी हिन्दी के साहित्यिक ग्रन्थों में वर्तमान बोलियों में पाई जाती है। दक्खिनी आज भी आंशिक रूप से गुजरात, बम्बई, बरार, और हैदराबाद रियासत के विस्तृत प्रदेशों में उत्तर भारत से गए हुए मुसल्मानों और हिन्दुओं की बोलचाल की भाषा है। वर्तमान दक्खिनी का विवरण डा० क़ादिरि ने अपनी अँगरेजी किताब हिन्दुस्तानी फ़ोनेटिक्स में दिया है। संक्षिप्त व्योरा सरकार द्वारा प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वे की नवीं जिल्द के पहले हिस्से में मौजूद है। १८६१ ई० की आवादी की रिपोर्ट के अनुसार दक्खिनी के बोलने वालों की संख्या ३६,५४,१७२ थी। वर्तमान दक्खिनी के लक्षण अधिकांश में पुरानी (साहित्यिक) दक्खिनी पर भी लागू हैं। यहाँ इसका थोड़ा विवरण दे देना ज़रूरी है।

(१) हिन्दी बोलचाल के सभी स्वर अ आ, इ ई, उ ऊ, एँ ए, ओँ ओ, ऐ औ दक्खिनी में भी मौजूद हैं। डा० क़ादिरि का कथन है कि उकार और ओकार के बीच के ध्वनियाँ उच्चारण का एक स्वर दक्खिनी में और सुनाई पड़ता है जो उत्तर भारत की बोलचाल में नहीं सुन पड़ता पर जो द्राविडी में मिलता है। स्टैंडर्ड

नाम प्रचलित हैं, संस्थान की दृष्टि से शौरसेनी प्राकृत और अप-
भ्रंश की आत्मजा है। जिस भाषा को भाषाविज्ञानियों ने पच्छिमी
हिन्दी की हिन्दुस्तानी शाखा कहा है, वही इसकी मूल है। यह
दिल्ली के आस पास की बोली है और पञ्जाब के पूरबी हिस्से
की केवल इस अंश में कि इसकी दो चार बातें पूरबी पञ्जाबी में
भी मिलती हैं। पर यह न तो पञ्जाबी है, न सिन्धी और न
मलाबारी या और कोई (दक्खिनी भाषा)। यह इस देश में,
मुसलमानों के दिल्ली जीतने के पहले से मौजूद थी, विजेता उसे
अपने साथ नहीं लाए। वे लाए थे फारसी और तुर्की जिनके
थोड़े बहुत शब्द इसमें भर गये, वस ! आज भी फारसी में करोब
एक तिहाई शब्द अरबी के हैं, पर इस कारण फारसी अरबी
नहीं हो गई। हिन्दुओं और मुसलमानों के मेलजोल से बनी
हुई भाषा कहने का यदि इतना ही मतलब हो कि उसमें मुस-
ल्मानों के माध्यम से ये विदेशी शब्द आ गए हैं, तो उर्दू को
ऐसा कह सकते हैं। पर यदि इस कथन का यह मतलब हो कि
उर्दू शैली को हिन्दू और मुसलमान, दोनों वर्गों के कलाकारों ने
बनाया और सँवारा तो यह सरासर गलत है, क्योंकि १५वीं
सदी के पहले एक भी हिन्दू कलाकार नहीं मिलता जिसने इस
शैली में ग्रन्थ बनाये हों, और तब तक इसकी शैली अधिकांश
में मँज सँवर चुकी थी। बाद को जिन साहित्यकारों ने इसे अप-
नाया वे इस अमरातीय परम्परा के ही अभिन्न और पोषक थे,
और स्वदेशी परम्परा से अपरिचित।

हिन्दी, हिन्दवी भाषा के उद्गम आदि की विवेचना वालें
कई ग्रन्थ हिन्दी वाङ्मय में मौजूद हैं और हिन्दी भाषा और
साहित्य के जानकार सचाई से परिचित हैं। उर्दू में भी डा०

सैयद मुहीउद्दीन क़ादिरि 'ज़ोर' की हिन्दुस्तानी लिसानियात नाम की पुस्तक है, जिसमें भी भाषाविज्ञान की दृष्टि से विचार किया गया है। इस लिये यहाँ इस विषय को दुहराकर हम आप का समय नहीं बर्बाद करना चाहते।

आज की साहित्यिक खड़ी बोली (हिन्दी या उर्दू) ने एक स्टैंडर्ड रूप धारण कर लिया है, परन्तु अपने ही प्रान्त में बोलचाल की खड़ी में उच्चारण और व्याकरण की विभिन्नता मिलती है। इसी तरह की विभिन्नता दक्खिनी हिन्दी के साहित्यिक ग्रन्थों में वर्तमान बोलियों में पाई जाती है। दक्खिनी आज भी आंशिक रूप से गुजरात, बम्बई, बरार, और हैदराबाद रियासत के विस्तृत प्रदेशों में उत्तर भारत से गए हुए मुसल्मानों और हिन्दुओं की बोलचाल की भाषा है। वर्तमान दक्खिनी का विवरण डा० क़ादिरि ने अपनी अँगरेज़ी किताब हिन्दुस्तानी फ़ोनेटिक्स में दिया है। संक्षिप्त व्योरा सरकार द्वारा प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वे की नवीं जिल्द के पहले हिस्से में मौजूद है। १८६१ ई० की आवादी की रिपोर्ट के अनुसार दक्खिनी के बोलने वालों की संख्या ३६,५४,१७२ थी। वर्तमान दक्खिनी के लक्षण अधिकांश में पुरानी (साहित्यिक) दक्खिनी पर भी लागू हैं। यहाँ इसका थोड़ा विवरण दे देना ज़रूरी है।

(१) हिन्दी बोलचाल के सभी स्वर अ आ, इ ई, उ ऊ, एँ ए, औँ औ, ऐ औँ दक्खिनी में भी मौजूद हैं। डा० क़ादिरि का कथन है कि उकार और ओकार के बीच के ध्वनियाँ उच्चारण का एक स्वर दक्खिनी में और सुनाई पड़ता है जो उत्तर भारत की बोलचाल में नहीं सुन पड़ता पर जो द्राविडी में मिलता है। स्टैंडर्ड

पट्टा शब्द का दक्खिनी रूप पुट्टा है जिसका उकार, न उ ही है और न ओ ही। उल्लेख के योग्य दूसरी बात यह है कि यदि पास पास के दो अक्षरों में दोनों जगह दीर्घ स्वर हो, तो पहले का उच्चारण कभी कभी ह्रस्व हो जाता है, जैसे,

वो अदमी नहीं जिसमें इन्साफ नै । (कुतुब मुश्तरी)

विलायत के अस्मान ते भार ज्यों । (सैकुलमलूक बदी उज्जमाल)

हैरत ते गंगे हुए सन्न मोती । (सवरस, प० २२)

सुंगते दिल में भरे उसास । (सवरस, प० १०)

इसी तरह भिगना (भीगना) आदि ।

(२) हिन्दी बोलचाल के सभी व्यञ्जन भी दक्खिनी में मौजूद हैं। पढ़े-लिखों की भाषा में फ़ारसी अरबी के भी कुछ आंगण हैं। ये हैं ख़, ज़, ग़, फ़, क़। अन्तिम के धारे में डा० कादिरी ने लिखा है—

“अरबी हफ़ क़ाफ़ का तलफ़फ़ुज़ हिन्दोस्तान के लिए अजनबी है, इस लिए दोआब के उर्दू बोलने वालों के अलावा दूसरे मुक़ामात के उर्दूदाँ इसका सही तलफ़फ़ुज़ नहीं करते। पञ्जाब में यह क की तरह बोला जाता है और दक्खिनी में ख़ की तरह।”

—हिन्दुस्तानी लिस्सानीयात, प० १०६

उदाहरण के लिये शौक़ की जगह शौख़ और षक़्त के लिए वख़्त। इसी तरह उत्तर भारत की बोलचाल म क़ की जगह ख़ बोला जाता है (सौख, वख़त)।

(३) उत्तर भारत की बोलचाल में जहाँ एक ही शब्द में दो मूर्धन्य ध्वनियों पास पास के अक्षरों में आती हैं, वहाँ दक्खिनी में पहली के स्थान में दन्त्य ध्वनि आ जाती है, जैसे—

तौंटा (टंटा), तुटे (टूटे), तेड़ीच (टेड़ी ही), थंडी (ठंडी),
 टट (डाट), दबटना (डपटना), धूँड़ते (ढूँँड़ते), दंडल (डंडल)
 डाने (ढूँँडने)—वजही ।

(४) स्टैंडर्ड खड़ी बोली में जहाँ शब्द के मध्य का दीर्घ व्यञ्जन ह्रस्व हो गया है और प्रतिकार में, पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ, वहाँ दक्खिनी में बहुधा व्यञ्जन दीर्घ ही पाया जाता है और पूर्ववर्ती स्वर ह्रस्व, यथा—

हत्ती—देख्या यक हत्ती को जो आता अथा ।

सुना (सोना), चुना (चूना), छल्ले (छाले), फिकाः
 (फीका) आदि ।

यह विशेषता खड़ी बोली की बोलचाल में भी पाई जाती है । उस में कभी कभी गाड़ी की जगह गौँड़ी या गड़ा सुनाई पड़ता है । इसके अलावा भी दक्खिनी में दीर्घ व्यंजन (द्वित्व) मिला है, जैसे, डल्ली (डली), तल्ला (तला) आदि । यह बात भी उत्तर भारत की बोलचाल में पाई जाती है ।

(५) दक्खिनी में महाप्राण ध्वनियाँ बहुधा अल्पप्राण मिलती हैं, यथा—

ख का क—मुँजे देक तूँ, लाक, पारकी, मूरक, रक्ते नहीं,
 फल चाक देख ।

घ का ग—पत्थर पिगले, गुला कर ।

छ का च—विचड़ावे, छाच, कुछ का कुच, पिचें. (पीछे),
 पूच ।

झ का ज—समज, समजेगा, मुज कोँ, तुज कोँ ।

ठ का ट—उट ।

ढ का ढ—कड़ाई, बड़ाई (= बढ़ई), काड़ूँ, पड़ेगा पड़ने कों,
चड़ चड़।

थ का त--हात, हत्ती (हाथी), सात (साथ) ।

ध का द—अदिक, सुद, दूद, बाँद कर ।

भ का ब--जीव, बी ।

इसी प्रकार - न्ह - की जगह - न- और - रह - की जगह -म-
ध्वनियाँ मिलती हैं--

पिनाना (पिन्हाना), पैना (पैन्हना-पहनना) ।

कुमलाते (कुम्हलाते) ।

शब्द के मध्य का -ह- कहीं कहीं बिलकुल गायब हो गया है,
विशेष कर कह- धातु के रूपों में, जैसे—

कया मैं (कह्या मैं), ज्यों अरबी में कता (कहता) है, दुनिया
उसे कते (कहते) हैं। ठैरते (ठहरते), पैछान कर (पहचान कर)
में -ह- की ध्वनि गायब होकर अगले अक्षर में जा मिली है।

एक आध उदाहरण अल्पप्राण व्यंजनों के महाप्राण हो जाने
के भी मिले हैं, यथा उल्ले (उल्ले), फंखड़िया (फंखड़ियाँ) ।

(१) साहित्यिक खड़ी बोली में व्यंजनान्त पुंलिङ्ग संज्ञाओं की
अविकारी विभक्ति के एकवचन और बहुवचन
संज्ञा दोनों में एक ही रूप रहता है (जैसे, चोर
आया, चोर आए), पर दक्खिनी में बहुवचन
के लिए अविकारी में भी -आँ जोड़ दिया जाता है, यथा--

हौर गवालियर के चातुराँ, गुन के गुराँ उनों भी बात कों खोल्ले हैं,
यों बोले हैं ।

हौर फ़ारसी के दानिशमन्दाँ, बिनोँ समजते हैं बाताँ के बन्दाँ, उनोँ कोँ योँ भाया है ।

वासिलाँ ने बोले हैं । खुदा के दोस्ताँ ने बोले हैं । हज़रत के याराँ हैं । जेते गुनकाराँ हीयसन आज लगन । बाज़े अजब लोकाँ हैं । दंगाँ, जीवाँ, जाहिलाँ ।

खेलाँ बहोत बले खेलनहार एक ।

ऐसियाँ औरताँ खातिर जीवाँ देते हैं ।

(२) व्यंजनान्त स्त्रीलिंग संज्ञाओं की अविकारी विभक्ति का बहुवचन साहित्यिक खड़ी बोली में -रँ, रें जोड़ कर बनाया जाता है, पर दक्खिनी में पुलिंग की तरह -रँ ही जोड़ कर बनाए हुए रूप बहुधा मिलते हैं, जैसे--

छुप्याँ न्यामतोँ ग़ैब क्य़ाँ पायें चल ।

जेत्याँ औरताँ दोस्तदाराँ की-थ्याँ ।

भूठ्याँ बाताँ कती (कहती) ।

एक इरक़ उसके एते रंगाँ एत्याँ सुरताँ ।

वाटाँ बहोत बले ठार एक । किताबाँ ।

(३) साहित्यिक खड़ी बोली की इकारान्त-ईकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञाओं में इस अविकारी विभक्ति के बहुवचन में -याँ जुड़ता है, उसी तरह दक्खिनी में भी, यथा--

एक अपे, अपनियाँ एतियाँ मूरतियाँ ।

बैसियाँ शाहपरियाँ ।

साहित्यिक हिन्दी में आकारान्त पुलिंग का बहुवचन -आ के स्थान पर -र आदेश करके बनता है, दक्खिनी में -याँ जोड़ कर, जैसे सब दानायाँ (दाना लोग) ।

(४) साहित्यिक खड़ी बोली की विकारी विभक्ति के बहुवचन में सब संज्ञाओं में -ओं या -यों जोड़ा जाता है, पर दक्खिनी में -ओं रूप अपवाद है, सब कहीं -आँ, -याँ रूप ही मिलता है, यथा--

पेसियाँ औरताँ खातिर, अपन्याँ मावाँ खातिर, आँखियाँ सो, बतियाँ में बाज़ियाँ (बाज़ों) को, छुरियाँ सो, मुसल्मानाँ में, हिन्दुआँ में, सीपियाँ समाँ (सीपों की तरह), बन्दाँ बन्द्याँ (बन्दों) को, मिल्याँ (मिलों) को बिचड़ावे, दीदयाँ (दीदों) के अघार को, अंगारयाँ (अंगारों) में बहाया, तलवयाँ (तलवों) में, गई सौ जन्याँ (जनों) पास वो । दुन्दियाँ पर तू जो खड़ग चख खींच धावे ।

(५) साहित्यिक खड़ी बोली में जहाँ संज्ञा को दुहरा देते हैं वहाँ दक्खिनी में दुहराते समय पहली संज्ञा के अन्त में -ए, -एँ जोड़ देते हैं, जैसे—

घरे घर (घर घर,) ठावे ठावँ, ठारे ठार, राते रात ।

(६) दक्खिनी में लिंग का बहुधा व्यत्यय मिलता है, साहित्यिक खड़ी बोली की पुल्लिंग संज्ञा कहीं स्त्रीलिंग में और कहीं स्त्रीलिंग संज्ञा पुल्लिंग में पाई जाती है । विदेशी शब्दों में यह बहुधा देखा गया है । उदाहरण के लिए--

अगर कोई बड़े की अदब रख्या । यहाँ अदब स्त्रीलिंग है ।

बादशाह की नाँवँ अक़ल । जिसकी नाँवँ खुदा है । परन्तु उसका नाँवँ आदि प्रयोगों में यह शब्द पुल्लिंग ही बहुधा मिला है । इश्क़ का चश्म बेपरवाई, यादगार हो अछेगा, अक़ल अपना सँभाल पाने का फ़िकर कर, देवने का बात, और जागा ना या आशनाई का शरम, दिये का पिरित, मुनी यक़ पलँग ।

इसी तरह शराब, खबर, सूरत, दुनिया, आवाज़, इमारत, उम्र, मुश्किल, दाद, कुदरत, ज़रूरत, दवा, हकीकत, हालत, पुल्लिंग

में इस्तेमाल हुए हैं और खयाल स्त्रीलिंग में। निश्चय ही इस प्रकार का व्यत्यय हिन्दी की अन्य बोलचाल में भी पाया जाता है।

साहित्यिक खड़ी बोली के अन्य पुराने ग्रन्थों की तरह दक्खिनी में सर्वनाम शब्दों की बहुरूपता मिलती है।

सर्वनाम कुछ उदाहरण पेश किए जाते हैं।

(१) उत्तम-पुरुषवाचक सर्वनाम में

बहुवचन में हम हमें के अलावा हमन हमना रूप भी इस्तेमाल में आए हैं और इनका अर्थ विकारी विभक्ति का या अविकारी का या विशेषण का हुआ है जैसे—

हमन (हम) ते, हमना ते, हमना उपर, हमन (हमारे) ख़ाव में, हमना (हमको) क्या काम, सो हमना (हमें) देखे, हमन (हमारे) संग, हमन (हमारे) पाप ते, हमन को । एकवचन के रूप मुजकों, मुँजे आदि में 'भ्र' का ज हो जाना दक्खिनी में स्वाभाविक ही है। पर एक स्थान पर मु सों (मुझसे) रूप भी मिला है।

मध्यमपुरुष में भी तुमन, तुमना रूप उत्तमपुरुष के हमन हमना के वजन के मिलते हैं, जैसे तुमन विन । तुमरे, तुमारी रूप में महाप्राणत्व का लोप हो गया है। एकवचन में तुज, तुझ, तुजे आदि रूप हैं और तुज रूप तेरा तेरे के अर्थ में भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे तुज इस्म (तेरा इस्म), तूज (तेरे) विन । अन्तिम उदाहरण में स्वर की दीर्घ मात्रा छन्द के कारण कर दी गई है।

अन्यपुरुष के एकवचन में अकसर वो रूप मिलता है और कभी कभी ओ और वह । सो भी बहुधा दिखाई पड़ा है। कर्मवाचक उस, उसे के स्थान पर कई रूप मिले हैं।

✓ जो करे सो होय । आपी किया उसे (उसका) क्या इलाज ।
उसो, उसों, तिसपर । लगी बोलने यों मिठे बोल उसों(उसको) ।

बहुवचन में विकारी और अविकारी दोनों विभक्तियों में उनो,
उनों रूप बहुधा मिलता है, जैसे—

उनो भी बात को खोले हैं, उनो को, उनो ते, उनन दोई के
पाँव पर । एक स्थान पर उने वह के लिये इस्तेमाल किया
गया है ।

(२) दूरनिर्देशवाचक सर्वनाम भारतीय भाषाओं में अन्य-
पुरुषवाचक के ही रूप ग्रहण करता है । निकट-निर्देशवाचक के
यो, ये, ए, यह, इने रूप मिलते हैं, जैसे—

न यो इसे देख्या न वो उसे जाने । ए बात । ये ज्योती । यो
दो । और खाकी इने ।

(३) सम्बन्धवाचक सर्वनाम के एकवचन में जो, जिसे
आदि और बहुवचन में जिने, जिनो आदि रूप हैं, यथा—

जो—सो । जिने कुछ समज्या...उने अपनी जागा राख्या गुन ।
जिने सुन्या उने घायल होना है । जिनों समजते हैं । जिनों की नेकीं;

(४) निजवाचक सर्वनाम के बहुतेरे रूप मिलते हैं । यथा—
एक अपे अपन्याँ एत्याँ मूरतियाँ ।

अपे अपस कों देखे, अपे अपस ते अपस कों छिपावे, इधर
भी अपे उधर भी अपे, अपे तरसते अपें तपते । अपे भी फुर्माई ।
सब आपस में अपे चार । अपसें (अपने आप) । आपी आप
(आप ही आप) । आपी किया उसे क्या इलाज । अपस सों
अपे । आपने (अपने) घर मने (में) ।

कभी कभी निजवाचक सर्वनाम की जगह पुरुषवाचक सर्व-
नाम ही प्रयोग में आया है, यथा—

मुँजे तेरी (अपनी) वेटी को दे शाद कर ।

ऐसे प्रयोग मालत्री आदि अन्य बोलियों में भी मिलते हैं ।

(५) परवाचक सर्वनाम और और समुच्चयबोधक अव्यय और में साहित्यिक खड़ी बोली में कोई भेद नहीं किया जाता पर दक्खिनी में परवाचक और है तथा समुच्चय-बोधक हौर, यथा--

किसी और के होते । और खाकी इने ।

(६) प्रश्नवाचक सर्वनाम अप्राणिवाचक क्या का और प्राणिवाचक को, कौन, कवन है । बहुवचन का रूप किन है, यथा किनने ।

(७) सर्वबोधक सर्वनाम सब, सभी हैं ।

(८) अनिश्चयवाचक अप्राणिवोधक कुछ (कुछ) और प्राणिवोधक किने, कोई, किसे आदि रूप हैं, यथा—

मुहम्मद की जागा किने (कोई) पाये ना ।

किसे (किसी को) क्या कुदरत ।

कूच में स्वर की दीर्घमात्रा छन्द के कारण है ।

(९) सम्बन्धवाचक और अनिश्चयवाचक को जोड़कर बोलने का जो चलन उत्तर भारत में है वह दक्खिनी में भी मौजूद है । इनमें जो का कभी कभी जु हो गया है, यथा—

जु कोई, जु कुछ, जु कुच ।

(१०) सर्वनाम-विशेषणों में साहित्यिक खड़ी बोली में -ना, -नी वाले रूप (जितना, जितनी, जितने) ही मान्य हैं, पर दक्खिनी में ये कम मिलते हैं और साधारण बोलचाल के (-ता -ती -ते) रूप अधिक, जैसे—

सिफत करे कोई कितेक, जेती ।

येता, जेती तेती, केता ।

एते रंगौं एतियाँ सूरतियाँ ।

जिते विते । एते चाले ।

स्त्रीलिंग के विशेषणों के बहुवचन में भी -याँ प्रत्यय जोड़ा जाता है, ऐसियाँ, जैसियाँ, एतियाँ, तेतियाँ ।

संख्यावाचक शब्दों के भी कई ऐसे रूप मिलते हैं जो साहित्यिक खड़ी बोली में मान्य नहीं । एक के लिए एकस रूप भी था,

जैसे एकस का, एकस कौं, हर एकस कौं । एक

संख्यावाचक का छोटा रूप यक भी पद्य में प्रचलित है ।

दो के लिए दोइ, दोय रूप भी मिले हैं ।

अ्यारह की जगह एअ्यारह और पचीस के लिए पचीस । नव्वे के लिए नवद (सं० नवति) और निन्यानवे के लिए नवद नौ (सं० नवनवति) ये रूप प्रयोग में आए हैं—

नवद पर गई तव जनियाँ पास मैं ।

नवद नौ हैं तुज नाँव यक नाँव नैं ।

दोनों, तीनों के लिए अनुस्वार-रहित रूप दोनो तीनो मिले हैं । दूसरा के लिए दुसरा, दूजा और तीसरे के लिए तिसरे ये रूप ग्रन्थों में आये हैं । दुगना तिगुना की जगह दुगुन तिर्गुन इस्तेमाल हुए हैं ।

ही का अर्थ साहित्यिक खड़ी बोली में पूरा शब्द जोड़कर किया जाता है (किताब ही, सभी, आप ही) पर बोलचाल में

केवल -ई बहुधा ही की जगह ले लेता है
 (किताबी, आपी आदि) । दक्खिनी में

भी कहीं कहीं -ई या -ई ही मिलता है, जैसे--

आपी, आपीं, हमीं, तुमीं ।

अन्यथा ही हीं वाले रूप (तूँहीं, तुहीं) भी मिलते हैं ।

इनके अलावा -च, -छ में अन्त होने वाले इसी अर्थ के द्योतक रूप बहुतायत से मिलते हैं, यथा—

खुदा मना किया सो बुरे फेलांच खातिर ।

यो च यार कों यार कैते ।

यो च, नहीं च, पिउ च, ऐसे च, देखते च सुनते च, तूँ च ।

भाती च हैगी यो सवाद की बात ।

बहुते चा लजीज़ । उसीच का ।

यो छ, अपनी छ । काम होता छ भला । मँगने छ पर आवे ।

यहाँ छ वनेछ ।

एक आध जगह -ज वाले रूप—अन्तर ते ज—भी मिले हैं ।

हिन्दी के पुराने ग्रन्थों में परसर्गों का उतना प्रयोग नहीं मिलता जितना वर्तमानकाल में । १६२३ में हमने इण्डियन ऐंटी-

क्वैरी में “रामायण में संज्ञा-रूप” नाम के

परसर्ग

निबन्ध में यह दिखलाया था कि आज की

तुलना से तुलसीदास की रामायण में पर-

सर्गों के प्रयोग का अनुपात केवल २५ प्रतिशत के करीब है ।

प्रायः ऐसी ही स्थिति दक्खिनी के पुराने ग्रन्थों में मिलती है ।

नीचे के उदाहरण देखिए—

छुपाने खातिर, बहलाने खातिर, मिलने खातिर, साहब पास, किसी ना दिखलावे किसी ना सुनावे, दम मारने या किसी नै मजाल, सवरस सब को पढ़ने आवे-हवस, उस यादगार, यकायक चलने किसकी मजाल, किसी जुदा न कर, दुन्दी रश्क ते, लैला मुँह बात, इन बोलों शुरू किया, किस काम न होय, दिल पीछे, उस आछें, जिस सिफ़ात, इस (की) तफ़पील, तिस मदाह, जिन्ह ख़ालिक, हर भारती कहा ।

(१) कर्तृवाचक परसर्ग ने का प्रयोग अनियमित है। वर्तमान में जहाँ इस्तेमाल होता है, वहाँ दक्खिनी में यह नदारद है, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ मौजूद है, यथा—

खुदा के दोस्ताँ ने बोले हैं। वासिलाँ ने बोले हैं। ग़ैर ने समजी। उनों भी बात को खोले हैं।

अक़ल दिल को दिया है पादशाही।

बादशाह शराब पिया।

ने की जगह कहीं नी भी मिलता है।

कर्मवाचक परसर्ग को की निस्वत कों अधिक इस्तेमाल में आया है—

जहालत कों, ज़रूर कों, किसी कों नैं मिले।

(२) करण-अपादानवाचक का रूप केवल से नहीं है, इसकी निस्वत सों, ते, थे, सती, सते, सेती, सात आदि रूप अधिक मिलते हैं, जैसे—

लताफ़त सती खोल मीठी ज़बाँ।

कामाँ सते।

अपस सों, सब सों। माकूल जिस सों।

इस घात सेती।

कह्या मेहरबाँ हो तब उस सात नाग।

किसी के करने ते।

वन में थे। अदम में थे।

क्लादिराँ ने गुजराती से प्रभावित दक्खिनी में सोय का भी प्रयोग बताया है, यथा निहायत सोय।

(३) सम्प्रदान का वाचक अधिकतर खातिर है, पर तई भी मिलता है, यथा---

अपनी खातिर को ।

समुन्दर के तई ।

(४) साहित्यिक खड़ी बोली में सम्बन्धवाचक परसर्ग के रूप केवल का, की, के हैं, पर दक्खिनी में रूप-बाहुल्य है । विशेष-कर केरा, केरी, केरे रूप भी मिले हैं, और स्त्रीलिंग के बहुवचन में क्याँ रूप पाया जाता है । देखिए---

उनन के मोछ्याँ ।

उनों क्याँ अँखियाँ ।

खुरासान क्याँ कुमरियाँ । दिल के फ़ायदे क्याँ बहुत बातों है ।

कि बाताँ यो सुनकर मेरी ग्यान क्याँ ।

उस राज को (के) ।

कि है चाकरी मर्द केरा सिंगार ।

मोहब्बत केरा मय जो पीता अहै ।

मोहब्बत केरे मय को पीता अछूँ ।

सलासत नहीं जिस केरे बात में ।

अजब तेरे कुदरत केरे काम हैं ।

(५) अधिकरण के परसर्ग में के अलावा मने, मियाने, महँ, महिँ आदि और पर के अतिरिक्त पो, उपर, उपराल अधिक प्रचलित हैं, जैसे---

इन दोनों में ।

हर थक शय मने ।

जिस पो, मुइँ पो, पावाँ पो ।

किस उपर, मुँज उपर, उस उपर, सब उपर ।

मुँज उपराल ।

दक्खिनी का वर्तमान साहित्यिक खड़ी बोली से खास भेद क्रिया में है ।

क्रिया (१) स्टैंडर्ड हिन्दी के कर्मवाच्य के भूत-काल में क्रिया का वचन और लिंग, कर्म के अनुरूप होता है, पर दक्खिनी में वहाँ भी कर्ता के ही अनुरूप, कर्तृवाच्य की तरह रहता है । देखिए—

उसे लोग तो लइ वज़ा सों डराए ।
 साहब आस्मान ज़मीन ने फ़र्माये ।
 हु ज़ूर चुलाय पान दिथे और फ़र्माये ।
 नबी बात यो सुन कहे जाय चल ।
 जिते आक़िलाँ ने अक़ल दौड़ाए ।
 वो देना यौँ पाक है आरिफ़ाँ ने कचूल किये हैं ।
 ख़िलाफ़ नैं किये । पैदा किया ज़मीन ।
 क्या बली क्या नबी सिजदा किये उस ठार सभी ।
 जिसे खुदा दिया सफ़ाई उसे आई ।
 जो कोई यौँ बाट पाया । धनी जो धरती धरया ।
 मैं तो यो बात नैं किया हूँ,
 ईसा होकर बात को जीव दिया हूँ ।
 काम बहोत खास किया हूँ ।
 हुस्न परी हिज़ करी ।
 ग़ैर दिल को समजाई ।
 मेरे हक़ पो तू कुच वी नेकी न की ।
 खुदा का हुआ खेल कैसा देखी ॥
 क्या जाने क्या गुनह की थी अक्वल ज़माने ।

वह महताब सा मुख जो उसका निभाई ।
 इन छिनाल ने मुझ मारी,
 इन छिनाल ने मेरा घर वाली ।
 उनने आखिर मरद को गँवाई ।
 यो तकसीर तेरा सो बखशी हूँ मैं ।
 उनो ने अपना नफ़ा खींचे ।
 दिया इश्क़ ने आरायश ।
 तूँ धोया गुनाहाँ ।
 जो कामाँ किया है शुजाअत के तूँ ।

(२) निष्ठा--निष्ठा का पुलिग एकवचन रूप साहित्यिक खड़ी बोली में आकारान्त धातुओं को और कुछ औरों को छोड़ कर (लाया, आया, गया, किया) सब जगह -आ में अन्त होता है, पर दक्खिनी में आ वाले रूपों के अलावा -या वाले रूप भी बहुतायत से पाये जाते हैं। उत्तर भारत की खड़ी बोलचाल में भी यही स्थिति है। दक्खिनी के उदाहरण देखिए--

जान्या, जुड़्या, पूछ्या, विचार्या, धर्या, पहचान्या, बोल्या, दौड़्या, कर्या, रख्या, सिज्या, लग्या, भर्या, भेद्या, देख्या, ल्याया, लाइया, कह्या, सह्या, किय्या, चीन्त्या, वैसला ।

इसके बहुवचन के रूप पुलिग में -आ -या के स्थान पर ए का आदेश करके खड़ी बोली की तरह बनते हैं। स्त्रीलिग में एक वचन- ई के आदेश से और बहुवचन- याँ के आदेश से बनते हैं.
 यथा—

दिई भेज । थ्या ।

बुलाया तो आयाँ घर उसके बेल्याँ ।

ओ हँस पड़ याँ खोल मों ।

सो वें उंट खड़ याँ हौर कहाँ ।

(३) वर्तमानकालिक (शुच) रूप खड़ी बोली में पुलिग में -ता में अन्त होते हैं पर दक्खिनी में -त में भी पाए जाते हैं । अन्य कुछ रूप ऐसे भी हैं जो आज खड़ी में नहीं दिखाई पड़ते पर बालियों में मिलते हैं, जैसे—

होता सब खुदा का भाता । देख्या जाता । जिउते कों ।

इश्क अब भावता खयाली है । स्त्री० लावती । होवता ।

बहुवचन में लावते, जावते । दो दिल एक दिल होतें ।

न गमता देखत वक्त, हैराँ हुई ।

स्त्रीलिग का बहुवचन एकवचन के -ती के स्थान पर -त्याँ का आदेश करके बनता है, जैसे—

दायम भगड़त्याँ जो बुलबुलाँ लड़त्याँ ।

चारों तरफ़ से बरसत्याँ गालियाँ ।

हमीं करत्याँ हैं । गमात्याँ ।

असील औरता अपने मरद बगैर दूसरे कों अपना हुस्न देख-लाना गुनाह कर जान्त्याँ हैं, अपने मरद को हर दो जहाँ में अपना न्दीन व ईमान कर पहचान्त्याँ हैं ।

(४) भविष्यकाल के रूप खड़ी की तरह -गा, -गी में अन्त होने वाले अधिकतर मिलते हैं, पर थोड़े से रूप -स वाले भी ग्रन्थों में मौजूद हैं । देखिए—

खागा । कसा जायगा । देओंगा । मेलागी । ल्यायगा । सकेगा तुँ ।

खुदाये ताला दिखलायेंगा । दिल का शक जायेंगा ।

निकलसूँ ; लेसूँ (उत्तम० एक०) । न रहसे हमन याँ ।

खुदा को इस नज़र सों देख्या ना जासी ।
 खुदा नज़र में ना आसी ।
 इस किताव को सीने पर ते हलासी ना ।
 इस किताव बग़ैर कोई अपना वक़्त भुलासी ना ।
 जेते गुनकाराँ होयसन ।
 न होसी हुनर इस बज़ा किस सती ।
 न करसी क़दम कोइ अँगो इस सती ।
 पुंजसे न यहँ (यहाँ न पैदा होंगे) ।
 अच्छसे (होंगे) ।

चलसे (चलेगा) । जरोसी (हज़म होगी) । न होसे (न होगा) । तूँ ना होसी ।

(५) पूर्वकालिक क्रिया के रूप साहित्यिक खड़ी बोली में आज धातुरूप के बाद कर, के जोड़कर बनाए जाते हैं, पर बोलियों में प्राचीन काल के पूर्वकालिक रूप (ल्यवन्त) की -इ अब भी मौजूद है । यह दक्खिनी में भी पाई जाती है । इसके अलावा कर या के के अतिरिक्त को भी जोड़ा जाता है, यथा—

हुज़ूर बुलाय पान दिये । मिला के एक करे । उतर आयकर ।
 ल्यायकर । मिल को । होय कर । होय को । तसलीम कर कर ।
 चल्या राय कों लेको जीता वहाँ ।

(६) क्रियार्थक संज्ञा—खड़ी में इसका अविकारी रूप -ना है और विकारी -ने । पर दक्खिनी में -न में अन्त होने वाले रूप भी मिलते हैं, यथा—

करन जायगी ।

लगा देवन । सोवने । बोलन । किसी के करन ते क्या होय ।
 पानी पिलान (पानी पिलाने) ।

जावने (जाने) । आवना जावना ।

कहीं कहीं जहाँ आज खड़ी में अधिकारी रूप आता है वहाँ दक्खिनी में विकारी का प्रयोग मिला है, जैसे—

मैं भी चुलबुलाने जानती हूँ ।

तो भी यकायक चलने किसका मजाल ।

(७) साहित्यिक खड़ी में सक- धातु के पूर्व पूर्वकालिक क्रिया-का धातु-रूप लगाया जाता है, पर दक्खिनी में अधिकतर क्रियार्थक संज्ञा का विकारी रूप मिलता है, यथा—

सिर उसका तूँ सकता है ल्याने अगर ।
करने सके ।

खड़ी में आज सक- धातु एक सहायक क्रिया के रूप में ही इस्तेमाल होती है, पर दक्खिनी में जगह जगह वह स्वतन्त्र रूप से प्रयोग में आई है । ऐसे स्थानों पर कर सकने का अर्थ है, यथा—
खुदा सकता । सकेगा तु ।

(८) कर्तृवाचक संज्ञा—यह साहित्यिक खड़ी बोली में -वाला जोड़कर बनाई जाती है, पर दक्खिनी में अधिकतर -हारा -हार जोड़कर बनी है, यथा—

मिलनहारा, धरनहार, सिर्जनहार, करनहारा, जानहारा, अन्नहार, समजानहारा, समजानहारे, चलनहारे, बोलनहारा च ।
रहनहार ।

लेनहार खेलनहार एक ।

पैदा करनहारे ने यों पैदा किया पैदायश ।

(९) सहायक क्रिया—स्टैंडर्ड हिन्दी में इसके रूप सीमित हैं (वर्तमान हूँ, है, हैं, हो; भूत था, थे, थी, थीं; भविष्य हूँगा, हाँगा, होंगे, होगी, होंगी) पर दक्खिनी में इनके अलावा अच्छ-, अह-, अथ- रूप भी काफी मिलते हैं, देखिए—

तुँ उसकी इवादात में दिनरात अच (हो, रह) ।

अछ (है), अछे (रहे), हो अछेगा, अछता, अछते हैं,
अछती । अछता है, अछना । अछो (हो), अछसे (होंगे) ।

खास अछो या आम (हो) । आया अछै (है) ।

औरत गर सुषड़ अछी ।

जो जग में सदा काल जीता अछूँ ।

नहीं मिलकर अचत यो दो एक ठार ।

जो फ़ीरोज़ महमूद अचते जो आज ।

अथे दो जने । रतन यो अथे ।

अथ्या । अथी ।

थ्यौँ (थीं) ।

अहै तूँ अथा तूँ अछैगा तुहीं । रचे तूँ रच्या तूँ रचैगा तुहीं ।

शेर गचे लै लोग जोड़े अहैं । बुरे भाँत हौर खूव थोड़े अहैं ।

कोई क्यों उसे कहे हें कि यों है खुदा है ।

अहैं हें ।

हेंगी ।

एक जगह मध्यमपुरुष के साथ हें का प्रयोग मिला है, होना चाहिए था हो,—

लेकर आये हैं तुम दगा दे इसे ।

(१०) प्रेरणार्थक क्रिया—इसके भी दो-चार बोलचाल के रूप पाए गए हैं, यथा—

देखलाता, दिखलाता ।

मुसल्मान कहवाते ।

(११) इच्छाथक धातु चाह -के अलावा चाव- और मंग- भी पाई गई हैं, जैसे—

चावे (चाहे) ।

अगर दिल मंग्या ।

जिसे ज्यों मंगता उसे वों रखता ।

अगर मंगता है दिल में मुहब्बत भरे शराब पी ।

अगर कुछ ऊँचा चढ़ने मंगता है तो शराब पी ।

(१२) साहित्यिक खड़ी बोली से बहुत भिन्न और अजीब सा एक प्रयोग कर के साथ दक्खिनी में मिलता है, देखिए—

इश्क की सूरत कैसी है कर क्यों कहा जाता ।

खुदा है कर तो बोल्या जाता ।

अंधारे को उजाला कर समजता ।

हम मुसल्मानों तुजे बड़ा कर जानेंगे ।

(दिल) किधर गया है कर धुंडने लग्या ।

मामला यों है कर बोल्या ।

तो उन लोड़ती हैं तुजे मर्द कर ।

यहाँ कर का इस्तेमाल कहीं यह ऐसा के अर्थ में, कहीं समझ कर के अर्थ में हुआ है । डा० अब्दुलहक कहते हैं कि ऐसा इस्तेमाल “मीर अमन के हाँ भी पाया जाता है ।”

दक्खिनी में क्रिया-विशेषण, समुच्चय-बोधक आदि अव्ययों के बहुतेरे प्रयोग स्टैंडर्ड हिन्दी से भिन्न हैं ।

अव्यय (१) स्थानवाचक क्रिया-विशेषणों में जधाँ,

तधाँ, कधन, कधीँ, काँ, याँ वाँ, वड़ँ (वहाँ) कई

आदि मिलते हैं, यथा—

इश्क कड़ँ नै खाली ।

इश्क कधीँ आकिल कधीँ ।

इसी तरह बाहर के लिए बहार, भार, बहेर, आगे के लिए आगे आगे भी पाए जाते हैं, जैसे—

अगर घर ते जो तूँ न निकले बहार ।

आगे के ।

संग के लिए संगत, साथ के लिए सात (अदब सात), पास के लिए कने (हज़रत कने, मरद कने, सिपाही कन), तरह के लिए निमन (वाटसारू निमन), नेमे (मरद नेमे), नमेन (खुदा नमेन), धात (यक धात , बहु धात) जिस (माकूल जिस सों) और नीचे के लिए तल तथा ऊपर के लिए उपर, उपराल शब्द इस्तेमाल हुए हैं । नज़दीक के लिए नज़ीक मिलता है । बहुत के लिए बहोत, मौत बहुधा आया है । तक का अर्थ लक, लग (अपस विसरे लग), लगन (आक़वत लगन, आज लगन, जौ लगन) से होता है ।

(२) समयवाचक अव्ययों में ये ताल (इस समय) इतचार (इस मर्तवा), तिल (तिल ना देखे = क्षणभर न देखे), अताल (अब), अजहों (अब तक , आज तक) आदि बहुत से, स्टैंडर्ड से भिन्न प्रयोग मिले हैं ।

(३) प्रश्नवाचक क्यों के स्थान पर बराबर की (सं० किम्) इस्तेमाल में आया है और बेहतर के लिए बरी (सं० वरम्), यथा—

बरी की न मैं इस उचाकर ले जाऊँ ।

(४) निषेधवाचक नहीं, न के अलावा ना, नैं , नको आदि मिले हैं, यथा—

ना दिक ना देस न हाँक न पुकार ।

खिलाफ़ नैं किये । नैं जले सों जले की बात क्या जाने ।

तुँ ग़ाफ़िल न को अच्छे मेरे हाल ते ।

विना के अर्थ में बाज (सं० वर्ज-) का प्रयोग बराबर हुआ है, यथा--

वहाँ दूसरा न था कोई अली बाज ।

समजे ना कोई आशिक्र बाज ।

उसके हुक्म बाज ज़र्रा कइँ नैं हिलता ।

(५) समुच्चयबोधक और की जगह बराबर हौर इस्तेमाल हुआ है, यथा--

हुज़ूर बुलाये पान दिये बहोत मान दिये हौर फ़र्माये ।

वहाँ सब ख़ाली हौर लबालब है ।

स्थानस्थान पर दक्खिनी में अव्ययों के बोलचाल के प्रयोग मिलते हैं। ज़रूर शब्द के साथ स्टैंडर्ड हिन्दी में कोई परसर्ग नहीं लगाया जाता, पर बोलचाल में उत्तर भारत में से कभी कभी सुन पड़ता है (ज़रूर से)। इसी तरह मुल्ला वजही ने को लगाया है--

वहाँ औरत ज़रूर को वेराज़ होकर मरद कने सोती ।

ऊपर दिए गए विवरण से दो बातें साफ़ मालूम होती हैं। एक तो यह कि इस साहित्यिक दक्खिनी में रूपों की विभिन्नता है जो कई बोलियों का सम्मिश्रण जतलती परिणाम है।-सी, वाले भविष्यकाल के रूप पंजाबी के से लगते हैं, पर इनकी निस्वत -गा गी रूप ही अधिक हैं जो खड़ी बोली के ही निजी हैं। परसर्गों में से केरा, केरी तथा अपेक्षित स्त्रीलिङ्ग के स्थान पर पुल्लिङ्ग का प्रयोग पूरबी-पन का द्योतक है, पर ऐसे प्रयोग कम ही हैं।-आँ में अन्त होने वाले, संज्ञाओं के बहुवचन के रूप, विशेष रूप से खड़ी बोली से भेद प्रगट करते हैं। पर सभी विभेदों पर सामान्य दृष्टि से

विचार करने से नतीजा यही निकलता है कि दक्खिनी, खड़ी बोली का ही पूर्वकालीन रूप है। प्राचीन साहित्य का अध्ययन करने वाले जानते हैं कि अन्यत्र भी इस तरह का बोली-भेद मिलता है। उदाहरणार्थ पालि भाषा में ही व्याकरण और ध्वनि सम्बन्धी एक-रूपता नहीं है। फिर दक्खिनी में कैसे होती जो आरम्भ-काल में विदेशी ग्रन्थकारों के ही हाथों में रही और जिसने उस समय की अन्य साहित्यिक भाषाओं से नीचे का ही दर्जा पाया था।

अगले व्याख्यान में दक्खिनी के ग्रन्थों की शैली की विवेचना और साहित्य का सिंहावलोकन किया जायगा।

शैली तथा साहित्य

शैली

पिछले व्याख्यान में दक्खिनी भाषा पर विचार करते समय देखा गया है कि इसका जो रूप पुराने ग्रन्थों में मिलता है उसमें काफ़ी बोली-भेद है, व्याकरण के रूपों की बहुलता मिलती है और यह नहीं कहा जा सकता कि कोई स्टैंडर्ड रूप प्रचलित था। इसी भाषा की यह रूप-बहुलता आज भी मिलती है पर बोल-चाल में। निज़ाम राज्य की सरकारी भाषा आज स्टैंडर्ड उर्दू है, पर वहाँ के ऊँचे अधिकारी भी दक्खिनी का ही बोल-चाल में प्रयोग करते हैं। उत्तर भारत से गए हुए बटोही को यह उच्चारण और व्याकरण का बोलीपन वहाँ तुरन्त दिखाई पड़ जाता है।

शैली के विचार में प्रधान बात शब्दावली की होती है। दक्खिनी के ग्रन्थों को देखने से पता चलता है कि उनमें अरबी

फ़ारसी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द बहुत शब्दावली नहीं हैं और निश्चय ही आजकल की उर्दू में

जितने मिलते हैं उनसे बहुत कम। यह सच

है कि एक ही ग्रन्थकार के दो विभिन्न विषयों के प्रतिपादक ग्रन्थों में ही शब्दावली का भेद पड़ जाता है। दक्खिनी में

इस्लाम धर्म के प्रचारक (मीराजुल आशिकीन आदि) ग्रन्थों में अरबी शब्द ज्यादा हैं पर (तबरस आदि) कहानी क्रिस्से के ग्रन्थों में उतने नहीं । 'कुतुब मुस्तरी' की भूमिका में सम्पादक डा० अब्दुल हक लिखते हैं—

“फारसी हिन्दी अल्फ़ाज़ का तनासुब एक और अढ़ाई का पढ़ता है और सारी मसनवी का यही हाल है ।” (प० १८)

इसी तरह ग़वासी की मसनवी सैफुल्मलूक व बदीउल्जमाल के सम्पादक लिखते हैं कि—

“ग़वासी के कलाम में हिन्दी अल्फ़ाज़ ज़्यादा पाए जाते हैं ।”
(प० १३)

यही बात समान-रूप से दक्खिनी के अधिकतर ग्रन्थों के बारे में कही जा सकती है। वली 'आरंगवादी' के दिल्ली आने के पूर्व की कृतियों में देशी शब्द अधिक हैं, दिल्ली से लौटने के बाद की रचनाओं में विदेशी शब्दों की संख्या की मात्रा कुछ अधिक हो गई है। परकालीन ग्रन्थकारों की कृतियों में यह और बढ़ती गई है। कभी कभी तो कोई भी विदेशी शब्द नहीं दिखाई पड़ता। यह पद्य लीजिए—

विरागी जो कहते हैं उसे घरवार करना क्या ।

हुई जोगिन जो कोइ पी की उसे संसार करना क्या ॥

जो पीवे प्रीत का पानी उसे क्या काम पानी सों ।

जो भोजन दुख का करते हैं उसे आघार करना क्या ॥

(कुल्लियात वली, प० ५५)

दक्खिनी हिन्दी के ये ग्रन्थ फारसी लिपि में लिखे गए।

इस लिपि के कारण भी इन ग्रन्थों में फ़ारसी अरबी आदि विदेशी शब्द ज्यों के त्यों रह गए। बहुधा शब्द का लिखित रूप एक होता है और उच्चारण दूसरा। बहुत सी फ़ारसी अरबी ध्वनियाँ उर्दू लिपि में मौजूद हैं पर उनका उच्चारण दूसरा होता है। ऐन (ع) का उच्चारण नहीं होता, पर वह वर्ण लिखने में उपस्थित है। इसी तरह तोय (ط) का उच्चारण ते (ت) की तरह और से (س) का सीन (س) की तरह होता है पर लिखावट में ये वर्ण मिलते हैं।

दक्खिनी के ग्रन्थों में आदि-काल में कहीं कहीं अक्षर-विन्यास उच्चारण के अनुकूल मिलता है। विदेशी शब्द मिसाल के लिए मुल्ला वजही के ग्रन्थ सवरस में से कुछ शब्द लीजिए—

	सवरस में रूप	शुद्ध विदेशी रूप
आला	آلا	اعلى
दिक्कद, दिक्कत	كد، كك	كدت
तगादा	تغاد	تفاض
नफ़ा	نفا	نفع
वज़ा	وزا	وضع
वाक्का, वाक्खा	واكا، واخا	واضع

सुल्तान मुहम्मद कुली कुतुबशाह बकरीद (بكرید) लिखते हैं, न कि बकरीद (بقرید)।

नीचे कुछ और शब्द दिए जाते हैं, जिनमें अक्षर-विन्यास उच्चारण के अनुसार है। फ़ारसी के अन्तिम ह के स्थान पर अधिकतर आ ही मिलता है—

	ग्रन्थों में पाया गया रूप	शुद्ध रूप
इनाम	अनाम	अनाम
सात	सात	सात
अखल	अखल	अखल
अदमी	अदमी	अदमी
आरूस	आरूस	आरूस
अन्देशा	अन्देशा	अन्देशा
वजीद (जिद से)	बक़िद	बख़द
पुस्तता	बख़ता	बख़ता
पुरगम	परगम	परगम
वगर	बगर	बग़िर
खफ़ा	खफ़ा	खफ़े
नफ़ा	नफ़ा	नफ़े
सही	सही 'सही	सही
सुवा	सुवा	सुवा
क़िस्ता	क़िस्ता	क़िस्ता
खाला	क़ेहाला	खाला
फ़िकरवन्द	फ़िकरुन्द	फ़िकरुन्द
हुनरवन्द	हनुरुन्द	हनुरुन्द
दफ़े	दफ़े	दफ़े
दावन	दावन	दावन
मुलाज़ा	मालाज़ा	मालाज़ा
कायल	क़ायल	क़ायल
दावा	दावा	दावा
फ़तवा	फ़तवा	फ़तवा

चकमक	چکک	چقماق
जमात	جمات	جماعت
मुलम्मा	علما	ملع
ज़िबे	ضیے	ذبیح
मना	منا	منع
वस्ताद	وستاد	استاد
झाया	ضایا	ضایع
वसूत, वसूत	وخت، بخت	وقت
कुलुफ़	کلف	قفل
विदा, अल्विदा	وداء، الودا	وداع، الوداع
क़िला	قلا	قلعه
नामा	ناما	نامه
वदख़	بدنه	بطاخ
नुख़्स	نکس	نقص
मनसा (वली)	منسا	منشا
नज़र	نزر	نظر
विचारा	بیچارا	بیچاره
यह	یہ	یہ

फ़ारसी अरबी शब्दों के कुछ ऐसे रूप मिले हैं जो आज उर्दू की लिखित भाषा में नहीं मिलते पर जो बोलचाल में अब भी सुनाई पड़ जाते हैं, देखिए—

ज़िन्दगानी, परेशानगी, मेहरवान (मेहवान), जागा (जगह), सबूरी, क़बूल; सूरत, नज़ीक, ख़ाहीन ख़ाही (ख़ाम ख़ाह), जाव (जवाब), ख़ार (ख़वार) शहनाई (शाहनाई), बलक (बल्केह), अज़व (अजीब), जनावर (जानवर) ।

कुछ शब्दों का अक्षर-विन्यास निश्चय ही गलत है, जिससे साबित होता है कि लिपिकार अथवा लेखक विदेशी भाषाओं के अच्छे विद्वान न थे, यथा—

पौलाद (फौलाद), खसालत (खसलत), ज़िट (ज़िच),
नाज़ुक (नाज़क), ख़ज़ीने (ख़ज़ाने)।

कहीं कहीं छन्द की ज़रूरत के कारण भी शब्द अशुद्ध लिख गए हैं, यथा—

मशारे (मशविरे), सफ़ा (सफ़ाई), सराफ़राज़ (सरफ़राज़), उस्ता
(वास्ते), शातीर (शातिर), शौ (शौहर), हिम (हिम्मत), रवीश
(रविश), ज़हार (ज़हर), शरमँदा (शर्मिन्दा)

विदेशी संज्ञाओं को लेकर उनसे क्रिया बनाने के कई उदा-
हरण मिले हैं, जैसे—

फ़ाम (फ़हम) से फ़ामना = समझना

रंज से रंजानते = रंजीदा करते

नवाज़ से नवाज़ना = कृपा करना

तलासना = तलाश करना ।

गुमना = खोना

ख़र्च से वनी नामधातु के रूप साहित्यिक भाषा में आज नहीं मिलते, पर बोल-चाल में मिलते हैं। उसी तरह दक्खिनी में भी मिले हैं, जैसे—

ख़र्ची जावेगा = ख़र्च किया जायगा ।

वख़श-धातु का एक दीर्घ रूप मालवी बोलियों में मिलता है, वह दक्खिनी में भी मौजूद है—

वख़शायगा = वख़शगा ।

बाज़ (بعض) का बहुवचन रूप बोल-चाल में मिलता है, वह दक्खिनी में भी मिला है—

बाज़े कहते हैं = कुछ लोग कहते हैं ।

कहीं कहीं विचित्र रूप भी दिखाई पड़े हैं । मुल्क का बहुवचन मुमालिक होता है पर मुलायक मिला है ।

दक्खिनी के ग्रन्थों में कहीं कहीं विदेशी शब्द को देशी के साथ मिला कर बनाया हुआ समास भी मिलता है, यथा—

गुलवाड़ी = फुलवाड़ी

खुशलखन = सुलक्षण, नेकचलन ।

इस विवरण से इतना स्पष्ट है कि विदेशी शब्दों का समावेश उस समय जीती-जागती भाषा में किया गया था और अभिप्राय था उस भाषा में चतुराई से भाव प्रकट करना न कि विदेशी भाषा के रूपों और मुहाविरों को ज्यों का त्यों रखना ।

दक्खिनी के ग्रन्थों में भारतीय शब्दों का केवल अनुपात ही अधिक नहीं है, बहुतेरे शब्द तत्सम रूप में मिलते हैं जो आज साहित्यिक उर्दू में मतरूक हैं, देखिए—

अंग, अंगन, अखंड, अधर, अचल, अम्बर,	
भारतीय तत्सम शब्द	अन्तर, अपार, अवतार (उच्च कोटि का), आदि, आधार, अनन्त, उपकार, उपचार, अपरूप (अद्वितीय), उत्तम, काच, काल, कला, कुच, कुजल, कुन्तल, गगन, गज, गम्भीर, मास, घन, छल्ल, छन्द, तुरंग, दानी, दिक, धरित्री, धनी, धीर, चतुर, दल, देह, नारी, पवन, चर (श्रेष्ठ), परमेश, पुरुष, वस्तु, भाव (इज़्जत), भानु, मान, रोमावलि, वादी, सन्मुख, सूर, सेवक, हस्ति (हाथी), तेज (ज्ञान व

शौकत), दार (दारा = घर), दया, दिवाकर, संभोग, स्वाद, सम, संग्राम, सुरंग (अच्छे रंग का) ।

दक्खिनी हिन्दी के व्याकरण पर विचार करते समय ऊपर कहा जा चुका है कि इन ग्रन्थों में हिन्दी की तद्भव शब्द बोलियों का रूप-बाहुल्य मिलता है। इसी तरह शब्दावली में भी रूप बाहुल्य हैं। एक ही शब्द तत्सम (संस्कृत अथवा फ़ारसी-अरबी) रूप में एक जगह मिलता है तो दूसरी जगह तद्भव रूप अनेक हैं। कुछ उदाहरण देखिए—

अपन्नरी अन्नरी (अप्सरा), अदिक अदिख अधिक, अदरमान (आदर मान), अस्तोत (स्तुति), अमत (मत-धर्म-हीन), अम्रीत (अमृत), उलास उलासा (उल्लास), आँव (आम), अवकल (वेकल), अलक (अलख, अलक्ष्य), अँधारा (अंधेरा), अन्मनाना (अन्यमनस्क होना), उरगन (उडुगण--तारे), उकल (विकल), औलखन (अलक्षण), कुजात (विजाति), छन्द (उपाय), जगावना (जगाना), जालना (जलाना), तिर्गुन, तिलींक, दरसनी (दर्शन करनेवाला), तत्ता (गरम), दीवा दिवा (दीप), दिपाना (रोशन करना), दुकाल (दुष्काल), दुन्दी (दुश्मन), दिशत (दृष्टि), कशत (कष्ट), धरत धरती धरित्री, धाना (दौड़ना), अभाल (वादल, अभ्र), घड़ी करना (तह करना), विउ (धी), जिउ (जी, जीव), चितारा (चिनेरा, चित्रकार), चूला (चूल्हा), ऋर (स्रोत, भरना), नवाना (भुक्रना, भुक्राना), नँह (नख), नित (नित्य), निरासा, निजीव, निर्मोल, नेम धरम (नियम धर्म), पत (उज्जत), पतियारा (विश्वास), पन्त (पन्थ), परते (सामर्थ्य), परदल, परकाज, परदुख, परचिभंजन, पहिराना (पहनाना), धात (प्रकार, तरह), सुलगा (सुलगन,

मानूस), उमस (उत्साह), उसास (साँस), रुस (रोप), औधरम (वेध-
रम), रेल छेल (रेल पेल), पायक (दूत), वाई (वापी, कुर्वाँ),
नवल नवा नवी (नया नई), अगला (बढ़िया), बाड़ा (मुहल्ला),
खासा (अच्छा), पेखना (देखना), फोकट, वाट, वाट-
पाड़ (वटमार), वाट-सार (मुसाफिर), वाव वाउ (वायु),
विचित्तर (चित्रकार), विसरात (विस्मृति), वेगि वेगी (जल्दी),
मान (बहिन), मिआव (विवाह), भुअंरु भुअंरु (भुजङ्ग),
मुई (भूमि), म्याने मने (बीच में), मतना (मत्त होना),
मया (प्रेम), मनहर (मनोहर), मूंडी (सिर), यदी (यदि),
यकांग (एकांग), रगत (रक्त), रज (रजोगुण, जोश), रन
खाम (रण खंभ), रसरी, राकस (राक्षस), रुच रुछ (रुचि
इच्छा, चमक), रूत (ऋतु), रैन (रजनी), रीज (रीक-
इच्छा), न्हाटना न्हासना (नाश करना), न्हनपन (वचपन),
विसलाना (बैठाना), वैसना (बैठना), पैसना (घुसना), उत-
राई (बदला), अचर अछर (अक्षर), अचूक, अरत (अर्थ),
उपासी (भूखा), अगिन (अग्नि), नीहचह (निश्चय), छव (छवि),
माटी (मिट्टी), ससा (शश), संघाती (संघी), सीस (सिर)।

जिस तरह फ़ारसी अरबी शब्दों के रूप विकृत अवस्था में
विकृत शब्द मिलते हैं उसी तरह भारतीय शब्दों के भी
यथा—

म्हाड़ी (मढ़ी), मंघिर (मन्दिर), सिंघार (सिंगार),
वढाई (बढ़ई), लुच्दाइया (लुभाया), चिनगी (चिनगारी),
सैसार (संसार), पुन (पुण्य), परधान (प्रधान), समुद
(समुद्र), हत हस्त (हाथ), घावरा (घबड़ाया), घीक
(धीरज), सुना (सोना), सुन्वार (सुनार), रीच (रीछ),

सुल (शून), वराँ बेराँ (वेला-समय), कँथा (कथा), सजान (सजन), घास (घास), हड़ (हड्डी), हंडी (हॉडी), सुखर (सुघर), सोरेज (सूरज), देस (दिवस), डींग (डग—कूदम), सकत (शक्ति), सोरात (स्वार्थ), खम (खंभ), घरदार (घर-चार), लत (लात), सगट (सकल) ।

कुछ क्रिया-शब्द जो साहित्यिक शैली में हिन्दी में नहीं नए क्रिया-शब्द मिलते, दक्खिनी में मौजूद हैं, जैसे—

उचाना (ऊपर उठाना)

दिसना (दिखाई देना)

हेरना (खोजना)

सारना (प्रयोग में लाना)

सादना (प्राप्त करना)

सरना (पूरा होना)

सपड़ना (बनना)

लूड़ना (चाहना)

लाना { लगाना)

निपचाना नुपचाना (पैदा करना)

चितरना (चित्रित करना)

हँकारना (निकालना)

पाड़ना (डालना)

मेदना (पसन्द करना)

गमना (बीतना, चलना), गमाना (बिताना)

चीन्त्या (सोचा)

रोलना (फँलाना)

जीउना (जीना)

माना (समाना)

हम तुम होना (बराबरी करना)

हुदरना (हिलना)

निम्नाना (देखना)

सोसना (सहना)

दक्खिनी के ग्रन्थों में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो उत्तर भारत की साहित्यिक हिन्दी में क्या, बोलचाल में भी नहीं मिलते।

इनमें से कुछ आर्य-भाषा परिवार के हैं, पर अपरिचित शब्द कुछ अवश्य द्राविड़ या मुंडा परिवार की

भाषाओं से लिए हुए जान पड़ते हैं। नीचे

थोड़े से ऐसे शब्दों की सूची दी जाती है।

अनाचती (अनजाने)

अँपड़ना (पहुँचना), अँपाड़ना (पहुँचाना)

अंभू (अँसू)

अचा सवा (ऐरा गैरा)

अपाड़ना (निकालना)

अपटना (विगड़ना)

अरडावना (चित्तलाना)

अड़वाट (अन्मार्ग)

अड़नाँव (उपनाम)

अखंड (छल कपट)

अपंग (बहुत)

आटा, आट (मुश्किल, आफत)

उभाल (छलांग, बदल)

उधान (ज्वार भाटा)

- औधूत (बहादुर)
 एलाड़ (इधर)
 कला (चीख पुकार)
 काकलोः (लालच)
 काँद (दीवार)
 कोड़ (मूर्ख)
 कौलियाँ (गोदड़)
 चाड़ (सदमा)
 चोड़ (हानि)
 मूल (ईर्ष्या)
 म्हाड़ (वृत्त)
 म्हाँप (छलांग)
 म्हाल (छलांग)
 ठार, ठहार (जगह)
 दड़ी मारना (चुपचाप बैठे रहना)
 दाट (सख्त)
 घाड़ (मुसीबत)
 घनियारा (धोकेबाज)
 नचतर (बहुत घुरा)
 पेलाड़ (दूर)
 माक (माणिक्य)
 रोजीट (शासन)
 मूप (नक्रशा)
 रावाँ, रानवाँ (तोता)
 लहुवा (तलवार)

साँदी (पागल)
 हेड़ा (मांस)
 जम (हमेशा)
 खो (गड्ढा)
 वेकटर, वेकड़ (कठोर)
 रीस (ईश्या)
 लुहाटी (कोयला ?)
 चँधोरी (चोटी)
 बूँट (अंगुल)
 कुँवल (वड़ा)
 पाच (जाला)
 नीट (दोस्त)
 बलबलिया (खुशामदी)
 नन्हवाद (वच्चा) ।
 धेर (तरफ़) ।
 रास (ठीक) ।
 डोसा (बुड्ढा) ।

इनके अलावा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रत्यय भी लिए गए हैं, जैसे ये शब्द—

तैरालू (तेरने वाला)
 डरालू (डरने वाला)
 घरघालू (घर बर्बाद करने वाला)
 उतारू (तैयार) ।

शब्दावली के द्वारा भाषा का रूप बदल जाता है । हिन्दी

और उर्दू के वर्तमान स्वरूप में जो भेद है, वह अधिकतर इसी पर निर्भर है। पर शब्दावली के अतिरिक्त व्याकरण-रूप व्याकरण-रूपों पर भी भाषा का स्वरूप आश्रित है। यदि विदेशी शब्दों को देशी व्याकरण-रूप दे दिए जायँ तो वे शब्द स्वदेशी शब्दों में घुल-मिल कर कालान्तर में स्वदेशी से लगने लगते हैं और जनता को भेद नहीं मालूम होता। अँगरेज़ी का स्टेशन शब्द हिन्दी में आ गया है। उसका हिन्दी रूप टेसन (अवधी टेसनि, टेसनिया) है और उसका बहुवचन टेसनें (अवधी टेसनिन, टेसनी) है। अँगरेज़ी पढ़े-लिखे हिन्दी भाषी स्टेशन और बहुवचन में स्टेशंस बोलकर इस शब्द के स्वदेशी हो जाने में बाधा डालते हैं।

ऊपर बताया जा चुका है कि दक्खिनी के ग्रन्थकारों ने विदेशी शब्दों को लिया तो है पर उनमें बहुत जगहों पर स्वदेशी ध्वनियों को अपरिचित विदेशी ध्वनियों के स्थान पर रख दिया है : वकरीद, तगादा आदि उदाहरण हैं। इसी तरह बहुवचन बनाने में भी स्वदेशी प्रत्ययों को अपनाया है न कि अरबी के वजन पर बहुवचन बनाकर शब्दों को मोअर्रव किया है। फ़ारसी संज्ञा अथवा विशेषण लेकर उनसे क्रियाएँ हिन्दी के नियमों के अनुकूल बनाई हैं। इनके उदाहरण ऊपर दिए गए हैं।

कभी कभी चिर-परिचित और परम्परागत एक-आध शब्द से ही पद्य की शकल भारतीय हो गई है। महवूव या मायूक के लिए लालन शब्द ऐसा है। इसका प्रयोग इन दक्खिनी ग्रन्थों में बराबर मिलता है। इसी तरह लौन (लावण्य) भी इन ग्रन्थों में प्रयोग में आया है।

शब्दावली और व्याकरण-रूपों के अतिरिक्त अन्य परम्पराएँ भी हर देश में रहती हैं। उदाहरण के लिए परम्परा-निर्वाह भारत में किसी को मनाने के लिए अथवा आदर-मान दिखाने के लिए पैर छूना, पैर पड़ना, पैर दाबना वरावर ग्रन्थों में मिलता है। कैकेयी जब दशरथ से नाराज़ हुई तो वाल्मीकि ने दशरथ के मुँह से कहलवाया—

स्पृशामि चरणावपि ते प्रसीद मे ।

(मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारे चरण छूता हूँ ।)
कालिदास की शकुन्तला को मनाने के लिए दुष्यन्त कहते हैं—

संवाहयामि चरणायुत पद्मताम्री ।

(या तुम्हें प्रसन्न करने के लिए तुम्हारे पाँव दबाता हूँ ।)
प्रसन्न करने के लिए पाँव पड़ने का यह मुहाविरा कई ग्रन्थों में दक्खिनी में मिला है, जो सर्वथा भारतीय पुट है ।

वली के ये दो पद्य देखिए जिनमें भारतीय अलंकारों और पान खाने की परम्परा को किस प्रकार साहित्य में अमर किया गया है—

यह नैन तेरे मुझको दिसैं जंजाली ।

और कान में बाला के नजिक यह बाली ॥

....

करता हूँ जाँ सुपारी कथई है हाथ जिसके ।

करने को दिल का चूना आता है पान खाकर ॥

प्रत्येक देश में कुछ कवि-सम्प्रदाय विकसित हो जाते हैं, जैसे फारसी में गुल व बुलबुल का, भारत में कवि-सम्प्रदाय कमल और भौरि का तथा चन्द्र और चकोर

का । दक्खिनी के ग्रन्थों में भारतीय कवि-सम्प्रदायों का बहुधा प्रयोग मिलता है, उर्दू में वह वहिष्कृत सा है । वली के ये पद्य देखिए—

विरह के वाग में दे आव दारी ।

हमेशा रख झड़ी नैनां की जारी ॥

फि खुरशेदे नबूअत की मदह में ।

कँवल का दिल खिला सीनः की दह में ॥

दक्खिनी के एक कवि की यह उक्ति लीजिए—

अगर नै है आशिक चकोर चोंद का ।

तो रातों को वो क्या सब्र जागता ॥

कवि-सम्प्रदायों से अधिक प्रभाव डालने वाले प्राचीन कथानकों के उल्लेख होते हैं । भारतीय परम्परा में सीता की सी पतिपरायणता और चरित्र-साधुता, राम की सी कर्तव्य-निष्ठा तथा हनुमान की सी स्वामि-भक्ति अन्यत्र नहीं दिखती । उर्दू के ग्रन्थों में इस भारतीय पुट का सर्वथा अभाव मिलता है । पर दक्खिनी के ग्रन्थों में ऐसा नहीं है । यद्यपि अधिकांश ग्रन्थ फारसी अरबी के ग्रन्थों के अनुवाद हैं या उनके प्रभाव से लिखे हुए, तथापि राम, सिया (सीता), हनुवन्त का उल्लेख इन ग्रन्थों में मिल जाता है । इसी तरह भारतीय नदियों, पर्वतों आदि का वर्णन और उनके दी हुई उपमाएँ मिलती हैं । वली ने उज्जैन के वर्णन में सिन्धु नदी का सुन्दर वर्णन दिया है ।

भारतीय परम्परा में प्रियतम-प्रेयसी का भेद और वर्णन स्पष्ट है । पुरुष की प्रेम-पात्र स्त्री और स्त्री का प्रेयसी का चित्रण प्रेम-भाजन पुरुष यह भारतीय परम्परा समस्त भारतीय साहित्य में अक्षुण्ण मिलती है ।

दक्खिनी के बहुतेरे ग्रन्थों में यही धारा मिलती है। मुहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी प्रत्येक प्रेयसी पर कविता लिखी है। वली के ग्रन्थ में भी उनके उत्तर भारत में यात्रा करने के पहले के पद्यों में भी वली का माशूक़ खी ही है। यह कविता देखिए—

मत गुस्से के शोले सों जलते कों जलाती जा ।
 टुक मेहर के पानी सों यह आग बुझाती जा ॥
 तुझ चाल की कीमत सों नहीं दिल है मेरा वाकिफ़ ।
 ऐ नाज़ भरी चंचल टुक भाव बताती जा ॥
 इस रैन अँघेरी में मत भूल पढ़ूँ तिस सों ।
 टुक पाँव के विछुवों की आवाज़ सुनाती जा ॥
 मुझ दिल के कबूतर कों पकड़ा है तेरी लट ने ।
 यह काम धरम का है टुक इसको छुड़ाती जा ॥
 तुझ मुख की परस्तिश में गई उम्र मेरी सारी ।
 ऐ बुत की पुजनहारी इस बुत को पुजाती जा ॥
 तुझ इश्क़ में जलजल कर सब तन को किया काजल ।
 यह रोशनी अफ़ज़ा है आँखें को लगाती जा ॥
 तुझ इश्क़ में दिल चलकर जोगी की लिया सूरत ।
 एक बार अरे मोहन छाती सों लगाती जा ॥
 तुझ घर की तरफ़ सुन्दर आता है वली दायम ।
 मुश्ताक़ है दर्शन का टुक दर्श दिखाती जा ॥

वली के दिल्ली से लौटने पर यह वर्णन-क्रम बदल गया और कवियों का माशूक़ पुलिंग में चित्रित होने लगा। दिल्ली में वली की अच्छी कदर हुई। उनके प्रभाव से दिल्ली-वालों ने फ़ारसी

छोड़कर हिन्दी अपनाई। मीर का यह शेर देखिए—

खूगर नहीं कुछ यूँही हम रेखतः गोई के ।

माशकू जो था अपना बाशिन्दः दकिन का था ॥

एक अन्य कवि ने कहा—

वली पर जो सखुन लावे उसे शैतान कहते हैं ।

इस तरह वली को हर प्रकार से आदर मान मिला । पर उन पर भी उत्तर भारत की दूषित फ़ारसी परम्परा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि न केवल प्रेयसी का वर्णन ही प्रकृति-विरुद्ध हो गया बल्कि फ़ारसी-अरबी की शब्दावली का अनुपात भी बढ़ता गया । धीरे-धीरे वली के वाद के दक्खिनी साहित्य की प्रायः वही शकल हो गई जो उर्दू की है । दक्खिनी इस प्रकार अपना भारतीय पुट सर्वांश में खो बैठी ।

साहित्य

प्रथम व्याख्यान में दक्खिनी में साहित्य-निर्माण का उल्लेख (पृ० ३५) करते समय यह बताया गया है कि दक्खिनी के पहले ग्रन्थकार ख़ाजा बन्दानवाज़ गेसूदराज़ सैयद मुहम्मद हुसेनी (१११८-१४२२ ई०) माने जाते हैं । इनका वचन दक्खिन में बीता था इस लिए स्वाभाविक ही था कि दक्खिनी भाषा का यथेष्ट प्रभाव इन पर पड़ा हो । इनके बुढ़ापे के अन्तिम बीस पच्चीस साल भी दक्खिन में ही बीते । अच्छे फ़कीर थे । मुस्लिम धर्म का प्रचार इनका उद्देश्य था । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने कई छोटी-छोटी पुस्तकें लिखीं, जिनमें से एक प्रकाशित हो चुकी है । यह गद्य में है । सैयद मुहम्मद हुसेनी के नाम से कुछ पद्य भी हैं पर यह संदिग्ध है कि उनका लिखा है । दक्खिनी का पहला कवि निज़ामी था जो बहमनी सुल्तान अहमद

शाह तृतीय के शासन-काल (१४६०-६२ ई०) में मौजूद था । इस प्रकार गद्य और पद्य दोनों की धाराएँ १४वीं, १५वीं शताब्दी ई० में प्रारम्भ हुईं और दोनों जारी रहीं ।

गद्य के ग्रन्थों में दो तरह का साहित्य है, एक इस्लाम धर्म

प्रचार-सम्बन्धी और दूसरा तसव्वुफ़ का ।

गद्य धर्मप्रचार-सम्बन्धी ग्रन्थ प्रायः फ़ारसी के ग्रन्थों के अनुवाद हैं । ये धर्म की दृष्टि से

महत्त्व के हैं, भाषा के विकास के अध्ययन के लिए भी उपयोगी हैं पर साहित्यिक गुणों की दृष्टि से बहुत काम के नहीं हैं ।

मौलाना अब्दुल्ला ने १६२२ ई० में एहकामुलसल्वाह लिखा । यह फ़ारसी के ग्रन्थ का अनुवाद है । इसमें नमाज़ कैसे और कब पढ़नी चाहिए और एकाग्र होकर पढ़नी चाहिए इत्यादि बातों का उपदेश है । इसी तरह के अन्य ग्रन्थों के भी अनुवाद दक्खिनी में किए गए ।

तसव्वुफ़ के ग्रन्थों की संख्या काफी बड़ी है । अधिकांश में कथा-कहानियों के माध्यम से दर्शन और आचार-शास्त्र के तत्त्व समझाए गए हैं । प्रमुख ग्रन्थ मुल्ला वजही का सवरस है । यह ई० सन् १६३५ में रचा गया । यह ग्रन्थ मौलवी डा० अब्दुल हक़ ने १६३२ ई० में सम्पादित कर अंजुमन तरक्की उर्दू, हैदराबाद से प्रकाशित कराया । इनकी भूमिका से स्पष्ट है कि वजही इसके मौलिक ग्रन्थकार नहीं हैं । मूल ग्रन्थ फ़ारसी में है । फ़ातही ने दस्तूर उश्शाक़ नाम की एक मसनवी फ़ारसी में लिखी थी । इसमें पाँच हजार पद्य थे । उसके बाद दो ग्रन्थ और उसी विषय को लेकर लिखे गए—शविस्ताने ख़याल और हुस्नो दिल । हुस्नो दिल गद्य में था । यह बहुत लोकप्रिय हुआ । इसीको आधार

मानकर वजही ने सवरस हिन्दी में लिखा। कहानी का संक्षेप भूमिका के ६० १४-३४ पर सम्पादक ने दे दिया है। अकल पश्चिम का बादशाह था और इस्क पूर्व दिशा का। हुस्न इस्क की बेटी है और दिल अकल का लड़का। वेटा जब सयाना हुआ तो अकल ने उसे शहर तन (शरीर) का बली बना दिया। दिल आदेहयात (जीवन-रस) की तलाश में निकल पड़ता है। फिरते फिरते वह हुस्न के देश पहुँचा। बहुत लड़ाई भगड़े हुए, अन्त में दिल और हुस्न का विवाह हो गया और दोनों ने सुख से जीवन व्यतीत किया। अकल और इस्क की लड़ाई सनातन है। कहानी में बहुत से अन्य पात्र आते हैं—नजर, खयाल, रकीब, हिम्मत आदि आदि। कहानी बड़ी (३०० पन्ने की) है, रोचक भी बहुत है।

साहित्यिक दृष्टि से वजही की कृति आदरणीय है। दो उदाहरण उसके ग्रन्थ से आगे दिए जायेंगे उस से स्पष्ट हो जायगा कि इंशा अल्ला आदि परवर्ती गद्य-लेखकों की शैली पर उसके ग्रन्थ का प्रभाव पड़ा होगा। वजही ने स्वयं फताही के ग्रन्थ से सामग्री ली है और खेद है कि कहीं मूल ग्रन्थ या ग्रंथ-कार का उल्लेख नहीं किया, न अपनी कृतज्ञता प्रकट की। बीच-बीच में उसने अपने पक्ष डाल दिए हैं, जहाँ तहाँ उपदेश भी भर दिए हैं जो मूल ग्रन्थों में नहीं हैं। अपनी तारीफ वह स्वयं इन शब्दों में करता है—

“आज नगन कोरे इस जशन में हिन्दोस्तान में हिन्दी जवान से इय लताकन इय छन्दों में नअ हीर नख मिला कर गुला कर नहीं बोल्ता।”

नमस्वरु के अन्य ग्रंथों में मीरांजी हुस्न खुदानुमा के शरह

तमहीद हमदानी, बुर्हानुद्दीन औलिया के शुमायलुल्-इत्क्रिया, शाह बुर्हानुद्दीन जानिम के हश्त मसायल, अमोनुद्दीन आला के गंज मखफ़ी, शाह बलीउल्ला क़ादिरि के मारफ़तुस्सलूक का तथा तूतीनामा (संक्षेप), इख़लाक़े हिन्दी आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इनमें से दो एक ही मौलिक हैं, शेष सब फ़ारसी अरबी के ग्रन्थों के अनुवाद या संचिप्त हिन्दी (दक्खिनी) रूपान्तर।

गद्य के ग्रन्थों में दक्खिनी के वे रिसाले भी हैं जो गणित, रसायनशास्त्र आदि पर उन्नीसवीं ई० शती के पूर्वार्ध में हैदराबाद में लिखाए गए। यह वैज्ञानिक साहित्य उस समय बड़े काम का था। इधर बीसवीं शती के पूर्वार्ध में निज़ाम साहब की संरक्षा में यूरोपीय विद्वानों के भिन्न-भिन्न विषयों के ग्रन्थों का अनुवाद उर्दू में कराया गया और इन्हीं के कारण उस्मानिया युनिवर्सिटी में उर्दू के माध्यम से उच्चतम शिक्षा का प्रबन्ध हो सका। खेद की बात केवल यह है कि पारिभाषिक शब्दावली अरबी के मूल पर खड़ी की गई जो भारतवर्ष में कभी चल न सकेगी।

जैसा ऊपर बताया जा चुका है निज़ामी की मसनवी कदम राव व पदम दक्खिनी हिन्दी की प्रथम पद्य कविता है। दक्खिन में उर्दू के लेखक श्री नसी-रुद्दीन हाशिमि इस मसनवी के चारे में लिखते हैं—

“हस्त्र रवाज क़दीम इसमें अरबी और फ़ारसी के बजाय हिन्दी अल्फ़ाज़ ज्यादा हैं।

इसकी ज़बान इस क़दर मुश्किल है कि इसका समझना दिक्क़त-तलब है।”

यह किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। डा० अब्दुल हक़ इसका सम्पादन कर रहे हैं, ऐसा सुना है। भाषा के जो नमूने देखने को मिले हैं उनसे यह हिन्दी के आदि चरित-काव्यों में गिनी जानी चाहिए। जायसी की पद्मावत की सी भाषा है। अच्छा हो कि एकेडमी या सम्मेलन इसका एक सुसम्पादित संस्करण देवनागरी में प्रकाशित करे।

दक्खिनी में अन्य बहुत सी मसनवियां लिखी गईं। इनमें से कुछ फ़ारसी के ग्रंथों के अनुवादित रूप हैं। उदाहरणार्थ गवासी की मसनवी सैफुल्मलूक व वदीउज्जमाल फ़ारसी किस्सा का पद्य-बन्ध अनुवाद है जो १६२५ ई० में लिखा गया और उन्हीं की दूसरी कृति तूतीनामा (१६३६ ई०) जियाउद्दीन बख़्शी के फ़ारसी ग्रंथ तूतीनामा का अनुवाद है। दूसरी ओर वजही की कुतुब मुस्तरी (१६०६ ई०) मौलिक रचना है। इब्न निशाती की मसनवी फूलबन (१६५५ ई०) फ़ारसी किस्सा विसातीन का अनुवाद है।

पद्मावती और रत्नसेन की कहानी पर भी दक्खिनी में पद्मावत नाम की मसनवी बनी। इस पद्मावत का लेखक गुलाम अली है। हाशमी ने इसका उल्लेख किया है और रचना-काल १६८० ई० बताया है। जो नमूने उन्हींने दिए हैं उनसे भाषा दक्खिनी और हिन्दी शब्दों से भरी जान पड़ती है। डा० कादिरि (जोर) ने जिस पद्मावत का उल्लेख तजकरह उर्दू मख़तूतात में किया है वह याद की कोई दूसरी रचना है।

मसनवियों में अधिकतर प्रेम के किस्से कहानियाँ हैं। मुक़ीमी की मसनवी चन्द्र बदन व माहियार में एक सुसम्मान युवा माहियार (मुक़ीउद्दीन) और हिन्दू युवती चन्द्रबदन का किस्सा

दिया है। रचनाकाल १६४० ई० है। नायक जब नायिका के पास जाता है उस समय का वर्णन सुनिए—

नज़िक जाको बोल्या कि सुन ऐ परी ।
 मुंजे तुज लताफ़त दिवाना करी ॥
 दिवाना हूँ तेरा दिवाने के तईं ।
 अपस ते न को दूर जाने के तईं ॥
 धरथा आस तेरी निरासी न कर ।
 जफ़्तापुर मुजे तूँ कदासी न कर ॥
 सो तुज बिन मुजे कोई होना नहीं ।
 कि बिन जल मछी का सो जीना नहीं ॥
 केता हूँ तुजे मैं कि ऐ गुन भरी ।
 तूँ करना एता कुछ मेरी दिलबरी ॥
 सो यों कह अदब सो तोड़ा कर उने ।
 धरथा सीस उसके क़दम पर उने ॥
 गिला उस सुना कर उठी बोल यूँ ।
 समज कुछ अपसकों ऐ बेडौल तूँ ॥
 हिंदू मैं कहाँ हीर तुस्क तूँ कहाँ ।
 कहाँ राम सीता मूरक तूँ कहाँ ॥
 कहाँ मैं चँदरमाँ कहाँ तूँ देवा ।
 केता क्या मुए तूँ दिवाना हुवा ॥
 भिड़क बोल उसकों वहीं फिर चली ।
 उठी दिल में आशिक के बईँ तिलमिली ॥

प्रेमी को प्रेम की खातिर क्या-क्या सहना पड़ता है, क्या-क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं और प्रेमिका को भी अपने प्रिय-तम के लिए क्या-क्या दुःख उठाने पड़ते हैं इन सब का विवरण

इन मसनवियों में भरा पड़ा है। जादू, माया, संग्राम आदि के वर्णनों के साथ-साथ चरित्र-चित्रण भी इन ग्रन्थों में अच्छा मिलता है।

ऊपर उल्लिखित मसनवियों के अलावा अहमद जुनेदी की माह पैकर (१६५३ ई०), सेवक का जंगनामा (१६८१ ई०), अमीन को बहराम व हसन वानो, रुस्तमी का ख़ाविरनामा (१६-४६ ई०), नसरती का गुल्शन इश्क़ (जिसमें कुँवर मनोहर और मदमालती की कथा है), कुरेशी की भोगवल, क़ाज़ी महमूद बहरी की मनलगन (१६८६ ई०), बली वेलूरी की तीन मसनवियाँ (जिनमें से एक में पद्मावती की कथा है), इशरती की तीन मसनवियाँ—दीपक पतंग, चितलगन और नेहदर्पन आदि का नामाल्लेख तो करना चाहिए। समयाभाव से कोई विवरण नहीं दिया जा सकता। मुल्तान इत्राहीम की रचना नवरस (१५६६ ई०) का भी उल्लेख करना आवश्यक है। इसकी भाषा में हिन्दी शब्द अधिक हैं और फ़ारसी अरबी कम।

गोलकुण्डा राज्य के कुतुबशाही मुल्तान न केवल साहित्य के संरक्षक थे, खुद भी अच्छे साहित्यकार हो गए हैं। मुहम्मद कुत्नी (१५८०-१६११ ई०), मुहम्मद कुतुबशाह (१६११-२५ ई०), अब्दुल्ला कुतुबशाह (१६२५-७२ ई०) और अबुलहसन (१६७२-८६ ई०) चारों मुल्तान अच्छे कवि थे। मुहम्मद कुत्नी कुतुबशाह की रचनाएँ कुलिन्यात के रूप से प्रकाशित हो चुकी हैं। इनको देखकर हम नरेश की साहित्यिक प्रतिभा की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता। हमने नायिका-वर्णन, ऋतु-वर्णन, मसनवियाँ, ग़ज़ल, ग़दाई, मसियाँ सभी लिखे हैं। इसकी रचना के बाँटने में हमने अन्त में दिए जायेंगे।

इन व्याख्यानों में हमने हिन्दी के उस रूप का विवरण देने की कोशिश की है जो आदिकालीन कहा जा सकता है। फारसी लिपि में ही होने के कारण यह हिन्दीवालों को दुर्वोध है। जरूरत है कि इसका कुछ अंश शीघ्र ही देवनागरी लिपि में प्रकाशित होकर विद्वानों के सामने आवे।

मेरे कथन से इतना स्पष्ट हो गया होगा कि यद्यपि हिन्दी की दक्खिनी शाखा के कलाकार प्रायः सभी मुसल्मान थे तथापि असें तक भाषा में बहुत हद तक उन्होंने भारतीयता निभाई और भावों में भी कुछ हद तक देसीपन क्रायम रक्खा। खेद है कि यह भावना उत्तरोत्तर मिटती गई और भाषा भी हिन्दू मुसल्मानों के बीच भेदक बन बैठी। ईश्वर कल्याण करे।

ओ३म् शम्

परिशेष
साहित्य के नमूने

सुल्तान कुली कुतुबशाह

हम्द

चन्द्र सूर तेरे नूर थे, निस दिन कों नूरानी किया ।
तेरो सिफ़त किन कर सके, तूँ आपी मेरा है जिया ॥
तुज नाम मुँज आराम है, मुँज जीव सो तुज नाम है ।
सब जग कों तुझ सों काम है, तुज नाम जप माला हुवा ॥
तुज याद में जग मोहिया, है जग उपर तेरा मया ।
जो जग मँगे सो तूँ दिया, तूँ ही जगत का है दया ॥
जीता हूँ तेरी आस थे, आया है रहम आकास ये ।
जे कुच मँगूँ तुज पास थे, सो है सो मुँज कों तूँ दिया ॥
बहु तिक मया सेती अपुन, दीना कुतुब को सब दखिन ।
सीसों नबी का नित चरन, जब लग है तन म्याने जिया ॥

कुल्लियात, भाग १, पृ० ३-

बक़रीद

ख़बर बक़रीद खुशियाँ सेती मेरे ताहें ल्याया है ।
खुशियाँ ऊपर ये क़ुरवानी होने बक़रीद आया है ॥
ए मजलिस ईद देखत ऐश हौर खुशियाँ सेती दायम ।
अनन्दों राग को आलाप कर बहु गुन सुनाया है ॥

गुलाली फूल मुँज मजलिस ये रँग पाकर सुहाते हैं ।

कि साकी अप नयन प्याले सों मद दे मुँज रिभाया है ॥

सहेल्याँ अप सवारयाँ हैं परम कसवत के रंगा सों ।

कि बकरीद आके सब जग में तबल इशरत बजाया है ॥

सक्याँ मुज मस्ती क्याँ मात्याँ इश्क़ का खेल मुज सुहता ।

जगत ए इश्क़ कों देखत अचंभा हो लुभाया है ॥

मुँजे चौंघर अनन्दां हीर खुशियाँ का गरजना सुहे ।

तो मस्ती ईद का सर पग पै रख मोमन मनाया है ॥

नबी सिदक़े कुतुब शह कों सुहे जम ईद मस्ताना ।

कि मेरे सिब उपर दायम चतर साही सुहाया है ॥

कुल्लियात, भाग १, पृ० ११५

बसन्त

बसन्त आया सकी जूँ लाल गाला ।

कुसुम चोला ॥

परीदा गावता है मीठे बैना ।

मधुर रस दे अघर फुलका पियाला ॥

पियारी हीर पिया हत में मु हत ले ।

सरोवन में न्हिडें गुल फूल माला ॥

कँठी फोपल सरस नावाँ मुनावे ।

तनन तन तन तनन तन तन तला ला ॥

गरज बादल ये दादुर गीत गावे ।

फोपल दूके मुकुल वन के पयाला ॥

मना मेरा करे ऐसी गुमादे ।

दलिदर दूर कर करना निशाना ॥

नबी सिदक़े हुवा क़तुब तेरा ज़ीनत ।

दुंदर्याँ सीने में सलता दुःख भाला ॥

कुल्लियात, भाग १, पृ० १३६

ठंड काला

हवा आई है ले के भी ठंड काला ।

पिया बिन सँताता मदन वाले वाला ॥

रहन ना सके मन पिया बाज देखे ।

हुवे तन कों सुख जब मिले पीव वाला ॥

ए सीतल हवा मुँज गमे ना पिया बिन ।

मगर पीव कंठ ला करै मुँज निहाला ॥

सजन मुख शमे बाज उजाला न भावे ।

भुलाया है मुँज जीव कों ओ उजाला ॥

जो रात आवे चँदनी की मुँज कों सतावे ।

कि चंदना मुँजे नै नयन सोज़ लाला ॥

मेरे मन को भाता है लालन सो मिलना ।

मुझे भाते हैं पीव हत कंठमाला ॥

नबी सिदक़े क़तुबा अनन्दाँ से मिलकर ।

अपस साईं से पीवै जम मद पियाला ॥

कुल्लियात, भाग १, पृ० २०८

प्यारी

सक्याँ जा मना ल्याओ प्यारी कों आज ।

कि सब छंद भरियाँ का अहे सीस ताज ॥

कहो यों कि मंदिर को बहुरैव से ।

सँवारे वले ना गमे तुज बाज ॥

मदन आ सँताता है गर ग्यान कों ।

करो दाद अर्पी आ तुम्हारा है राज ॥

अजायब है किस्वत तुमन हुस्न की।

कि उस्ये सुहाता है उशवियों का साज ॥

तू खूबों का है रूप मैं पादशाह।

तो ल्याये हैं सब तेरे तैं नेह खिराज ॥

तुमन मुख का नूर जब देखूँ मैं।

ओ एक भन मुँजे सौ बरस का है काज ॥

नबी सिदके कुतुबा धे मजलिस सदा।

सुहाता है जो हुस्न सौ मुल्क लाज ॥

कुल्लियात, भाग १, पृ० २३६

छत्रीली

छत्रीली सौ लग्या है मन हमारा।

कि उस दिन नहीं हमन एक तिल करारा ॥

सबूरी को नहीं है ठार दिल में।

सबूरी क्यूँ करे सो करनहारा ॥

अलक फाँसी सौ पंगी जिव पकड़ने।

दिखाई गाल ऊपर तिल का चारा ॥

बसे मन में सो इसके खयाल निस दिन।

नहीं इस खयाल दिन मुँज मन में ठारा ॥

नयन बरगी छोड़ी यूँके टोरी सौ।

करे नंचल पैंगी दिल को शिकारा ॥

मया करना करे माशुक अपे हो।

को ना क्या करे आशिकु बिचारा ॥

नबी सिदके कुतुबा आशिकु है तेरा।

मया मिन अद्व न हो पैंगु मिन भी न्यारा ॥

कुल्लियात, भाग १, पृ० २४७

सुन्दर

चंद्रमुख तुज, लाल लब हैं, दसन जूँ तेर तारे हैं ।
 कही यह चाँद काँ का है किस असमाँ थे उतारे हैं ॥
 अगर यह चाँद इस असमाँ का कहें जग तो कबूलूँ क्यों ।
 समाँ के चाँद के मुख में कौन देख्या जो तारे हैं ॥
 सुरज चँद सों सुँधर मुखकों दिए तशबीह सब शायर ।
 बले पूँछें जो मुभकों तो उस अंगे ओ विचारे हैं ॥
 कही देखे करश्मा कर वो सुन्दर नाज़नी मुँज को ।
 तो उस नैनाँ के भलकारे भलकते जों कटारे हैं ॥
 समा आ बाज़ के ऊपर हदफ़ सो सर करना वो ।
 भवाँ के क़ौस सों तारे के नैना तीर मारे हैं ॥
 सूरज हौर चाँद के करनाँ भलकते सो दिसें मुन यों ।
 कि ज्यूँ मँगते सुँधर कन ओ गदा हो हत पसारे हैं ॥
 ऐसी सुन्दर को पाया हूँ खुदा के रहम थे कुतुबा ।
 जो हुराँ हौर मलक देख कर हुए हैरान सारे हैं ॥
 कुल्लियात, भाग १, पृ० २७४-५

नक़शाए विसाल

ये नार मेरे नैन को दे आपना दीदार ऐश ।
 सरबन भी तपते हैं मेरे इनकों भी दे गुप्तार ऐश ॥
 मुँज नाक धन तुज नाक थे दम वास का धरता हवस ।
 दम वास देकर तूँ उसे दायम दिए आपार ऐश ॥
 तुज दुर अधर तिसमें नवात अम्रीत भर ।
 मेरे अधर पर धर अधर मँगता हूँ मैं आसार ऐश ॥
 तुज रुख़ सेती मुँज रुख़ अहे नहीं इस थे रुख़ फ़रख़ कहीं ।
 रुख़ सों मिला रुख़ को कि है रुख़सार को रुख़सार ऐश ॥

मुँज कंठ घन तुज कंठ की कँठ को बहुत मँगता अहे ।

मुँज कंठ सों हम कंठ होवे सूर का भलकार ऐश ॥
बाहाँ मेरयाँ मुस्ताकू हैं तुज बाँह के गलहार के ।

बाहाँ मने बा ना सके तुज बाँह का गलहार ऐश ॥
मुँज हात मँगता है अदिक तुज हात सों मिलने के तहँ ।

मुँज हात को अप हात सों करने दे तूँ ऐ यार ऐश ॥
भेटन के दूबट सेती घन कुच कुच अपना तौल कर ।

हम दोनो कुच सों कुच लगा कुच कुच करें हरवार ऐश ॥
छाती सों छाती एक कर एक जीव हौर एक मीत सों ।

तुज नख सेती नख मुँज करने में है ठारे ठार ऐश ॥
मेरे तेरे रोमावली जमना व गङ्गा जूँ मिल अहँ ।

रो रो सों मछली होष कर करते हैं तुज गंगधार ऐश ॥
दो नाभी दो भारे अहँ संग्राम के दगिया मने ।

दो मन तेरा दो तीर तिर करते अहँ इठ ठार ऐश ॥
तुज मुँज कँवर के कट मने पैगत चकट संपइया विकट ।

इय फट मने करता अहँ दायम मदन का भार ऐश ॥
तेरे मेरे पायाँ सही जूँ नाग नागिन मिल रहे ।

मिदफे नवी करता फुतुव फतार ये आपार ऐश ॥
कुल्लियात, भाग १, पृ० ३०:

सौगन्ध

मगध होइ इन्द्र राजी राज मुँज ये ना रहा जासे ।
दि सो दो काम करना कर में ले सौगन्ध खाया हूँ ॥

कुल्लियात, भाग १, पृ० ३

प्रेम की कहानी

मरना ही मरना कर्मियों को है ।

उसी का है दो जग में जीवना अनन्द सों ।

जिने नेह बूझया है सुन ऐ अर्यानी ॥

कुल्लियात, भाग १, पृ० ३११

दुनियाय फ़ानी

देवो जग कों भोजन ओ बख़िश करो जम ।

कि भ्रमकेगा उस नूर थे तुम पिशानी ॥

कुल्लियात, भाग १, पृ० ३१८

गज़ल

पिया वाज प्याला पिया जाय ना ।

पिया वाज एक तिल निया जाय ना ॥

कहे थे पिया बिन सवूरी करूँ ।

कह्या जाय अरम्मा किया जाय ना ॥

नहीं इश्क़ जिस वह बड़ा कूढ़ है ।

कधी उससे मिल बैसिया जाय ना ॥

कुतुब शह न दे मुज दिवाने को पंद ।

दिवाने कों कुच पंद दिया जाय ना ॥

कुल्लियात, भाग २, पृ० २३

गज़ल

सुनो मेरी साती पिया हीरो राता ।

कि पर सेज पर साईं परसंग गमाता ॥

डुवा बे सन्नर साईं हमना सों करवट ।

पकड़ दूती का मन हमन मन सँताता ॥

पिया मुज सों यों मिल कि भल खाय दूतिन ।

मैं हूँ तेरी माती तू है मेरा माता ॥

हिकायत परम का नको मुँज थे पूछो ।

पिया हात देहों मैं सब मन का भाता ॥

मैं भूली हूँ तेरे छँदाँ सों पियारे ।

कि खातिर दिखा कर भी फिर फिर मनाता ॥

नहीं अग्ने खातिर मुँजे बल्ल म्याने ।

कि हर दम मुँजे विरह साहँ डराता ॥

नवी सिदके कुतुवा की माती कती है ।

कुतुवशाह सुन्दर गुनी मह माता ॥

कुल्लियात, भाग २, पृ० २६.

राजल

तेरे नेह का मुँज को विच्छू लइया ।

मेरे सब ही तन में बिस उसका चइया ॥

मैं आइँ हूँ तुज पास उतारा करन ।

तुमों करने हारा उतारा पियारा ॥

जो देती मैं उस रूपवंता सजन ।

नयन उस सलोनी ये फिर बिस चइया ॥

कुल्लियात, भाग २, पृ० २७.

राजल

पियारे गर च मैं तुज बिन नहीं तिल रहने सकती हूँ ।

पसे लोगों के उर ये भी अरस तई कूँड (कैद) रखती हूँ ॥

दिसी चोरी कहीं मुद्द (लेकिन) मैं यकट पाती सो हूँ कइँ तुज ।

तो देग तुज मरल हो ज्ये मुद्दर (मोर) अरस मैं अप टुमकती हूँ ॥

समी सो मैं अनाचोती गले तुम फूल सो एक दिन ।

तयों ये सर के पावों लग अरुँ गुशरू मरकती हूँ ॥

मेग सब होय तो आनटवट हो- तुज तई जीन देने में ।

कि पुरमउ मैं पसों क्या किन्न हम गुग्गा ने पकती हूँ ॥

तुमों मैं पाव करती तो सो दूबिन पेट सो टगरे ।

न पडिसा हारों को अरने पदो रगग विरकती हूँ ॥

दूतिन के भूट कों सच मानता तूँ यूँ तो वाजिब नैं ।
 वो क्यों कए भूट आ तुज कों बरी जा उस हटकती हूँ ॥
 कुतुब शह मस्त हूँ इस वक्त पर तू बख्श हो मुँज कों ।
 न जानूँ क्या कती हूँ मैं न जानूँ क्या फड़कती हूँ ॥

कुल्लियात, भाग २, पृ० १८२-३

गज़ल

कि साईं पास मेरे है कि देखी आज सपने में ।
 उठी जत्र हड़बड़ा कर मैं न देखी सेज अपने में ॥
 पिया की छाती लगकर मैं रही थी छिपके छाती में ।
 तहाँ थे युह दुतन काड़े जो मत देखे थे छुपने में ।
 न बूझूँ तुज पिरित म्याने मेरा चीनत क्यों बरावेगा ।
 न मुँज में सवर ना तुज महर जावें फुरन जपने में ॥
 तुमारी सों तुमन कों मैं कहीं भी याद आई थी ।
 तुमन जपने थे निस दिन मैं पुनमचंद जूँ है खपने में ॥
 नबी के सिदक़े रे कुतुबा मरया है इश्क का बाज़ार ।
 जु कुच मँगता है सौदा गर नफ़ा कुच नैं है तपने में ॥

कुल्लियात, भाग २, पृ० १६६

गज़ल

न बिछड़ूँ साईं थे एक तिल सहेली ।
 पिया के रंग सों मैं हूँ अकेली ॥
 सदा पिउ जोत सों मैं जगमगाती ।
 पिया नेह की छवि सों हुई हूँ छत्रीली ॥
 सक्याँ प्यारियाँ मने मैं पिउ की प्यारी ।
 हुई पिउ नेह सँ फुल जूँ नवेली ॥

सजन कद सरो सौ मुँज दिल बँधाना ।

पलेवी रूक को जूँ काँली बेली ॥

पिया मुतलक मुँजे दिल ये बिसारे ।

पिया भिन क्यो जिवूँ कह री सहेली ॥

सीने थे मुँज पियारी नैं उतारी ।

किये रँग रस सेती मुँज नित नवेली ॥

नची सिदके कुतुबशाह महर सेते ।

न छोड़े तेज पर मुँज कद (कभी) यकेली ॥

कुल्लियात, भाग २, पृ० २२५

चमन फूल सब चास खुशबू का पाए ।

सुघड़ सुन्दरी जब अरपस केस खोले ।

कुल्लियात, भाग २, पृ० २३४

पिया मूरत रखी हूँ यो नयन में ।

कि अरप पुत्लियाँ को रङ्को नैं दिखाई ॥

कुल्लियात, भाग २, पृ० २५६

तेरे दरसन की मैं हूँ साहं गाती ।

मुजे लावो पिया छाती सों छाती ॥

पियारे हात घर संभालो मुँजको ।

कि तिलतिल दूती तुज माती डराती ॥

परेम प्याला पिलावो मुँज को दम दम ।

कि तूँ है दो जगत में मुँज संगीती ॥

न राखूँ तुज नयन में राखूँ दिल में ।

कि तूँ मेरा पियारा जिव का साती ॥

पिया के ध्यान सों मैं मस्त हूँ मस्त ।

मुँजे बिरहे के बैना की (क्यों) सुनाती ॥

अगर यक तिल पड़े अंतर पिया सों ।

नयन जल सों सपत समदर भराती ॥

नबी सिदक़े कहे कुतुना की प्यारी ।

रिभा दम दम अघर प्याला पिलाती ॥

कुल्लियात, भाग २, पृ० २५८

सहेली मदनलाल मो.चित्त भावे ।

कि तिलतिल दिल उस छंद पर वारी जावे ॥

किसे चित बुलावे किसे रैं जगावे ।

किसे दिल तपावे किसे मन रिभावे ॥

किसे नेह लगावे किसे मद पिलावे ।

किसे रूप दिखावे किसे पैम पिलावे ॥

किसे लव चखावे किसे छिप रिभावे ।

किसे सेज मनावे किसे गज़क दिलावे ॥

किसे अन्न दिखावे किसे तख्त सिरावे ।

किसे पिक बतावे किसे छत्रि दिखावे ॥

किसे प्रेम लगावे किसे चित भुलावे ।

किसे बह (भय) किलावे किसे पाँ दिलावे ॥

नबी दास कर आन्न के तैं पुवावे ।

कुतुनशह सदा चीर मालाँ गवावे ॥

कुल्लियात, भाग २, पृ० २८४-५

रेखती

सुनो एक दो बात साहय हमारी ।

सहेलियाँ चतुर मैं हूँ बंदी तुमारी ॥

कहो रात किन सात कैते मन में बातों ।

कि चूता है तुम नैन ये रंग खुमारी ॥

नयन चित सों देखी हूँ मैं पँथ तुमारा ।

तुमन त्रिन मुँजे क्यों गमे रात सारी ॥
कहो साहब येनों ई किसकी निशानी ।

खने खन तुमन पर ये जाऊँगी वारी ॥
उनन सात तिल मिलके मुँज को बिसारे ।

तुमन कौल वेरे कने थी मैं प्यारी ॥
तुमी साहब हँ कस मनाओ भुलाओ ।

मो अंदाज़ा क्या तुम कहूँ मैं धिचारी ॥
नबी सिद्के बेचारी को यो न मारो ।

अलह की नज़र थे कुतुब की सवारी ॥

कुल्लियात, भाग २, पृ० ६०

अली आदिलशाह (शाही)

कोई जाओ कहो मुज साजन सात

मुज नँह थन्दी तूँ फैताँ घात ।

दिल मेरा अपने सात किया । मुज बिरहे में दिन रात किया ॥

दिलदारी का ना बात किया । सब बिसरा सुख है हात किया ॥

कए मुज सों ऐसी घात किया । कोई जाओ०

पिउ मूरत देखो सीने में । जत्र जागो तत्र रहूँ सपने में ॥

ला दीपक बिरहा अपने में । तन जाए भकभक जीने में ॥

आराम अछे मुज खपने में । कोई जाओ०

तुज याद करतल मलती हूँ । लहू तेल मने दिल तलती हूँ ॥

तन मोमबत्ती हो जलती हूँ । इस जलने सों ना टलती हूँ ॥

सब आयँ बिरह में गुलती हूँ । कोई जाओ०

कोई आओ सँवरे मेरा हाल । पिउ कैसा मुज सों जो कोताल ॥

मैं जगते नित उठ अंजू ढाल । कलपती आँसू मोती माल ॥

मुज यक यक पल है लकलक साल । कोई जाओ०

सब दिअस गया है घन ते लड़ते लड़ते । खुट रात गई है पावों पड़ते पड़ते ॥

दकिन में उदूर्, पृ० ११६-२०

चुर्हानुद्दीन जानिम

नहीं मुझ सें पीत लगाए मन लेता रे ।
 अल्ला मुझे आशिक अपना तूँ कैता रे ॥
 अब छोड़ नैन कहुँ मन जावे रे ।
 मुझ विरह जली को मत तरसावे रे ।
 यो जाने तूँ मेरे मन भावे रे ।
 यो तो शाम सलोना तूँ मेरा रे ।
 न चले तुझ पर मन्तर टोना रे ।
 जो कोई चाहिए सो फ़ानी होना रे ।
 यो तो विरह अगिन सब दिल लाई रे ।
 तन फ़ानूस कर हौँ दिखलाई रे ।
 लहू तेल दिया दीपक जलाई रे ।
 आखे जानिम जीव जाने फ़ानी रे ।
 जान की आज है मेहमानी रे ॥

दकिन में उदूर्, पृ० १२५

वली

विरागी जो कहाते हैं उसे घर बार करना क्या ।
 हुई जोगिन जो कोई पी की उसे संसार करना क्या ॥
 जो पीवे पित्त का पानी उसे क्या काम पानी सों ।
 जो भोजन दुख का करते हैं उसे आघार करना क्या ॥
 सखी तुमना को अर्ज़ानी यह किसवत और ज़रीना सब ।
 दिले जी सों जो बेज़ार उसे सिंघार करना क्या ॥

खजालत की गरद अँछवाँ के पानी सो गिलावे में ।
 बनाने गम का घर मुजकों टुजा मेमार करना क्या ॥
 नहीं कोई धर्मधारी जो कहे पीतम कों समझा कर ।
 कि दुखिया कों विछोही सों इता वेज़ार करना क्या ॥
 महल दिल का तेरी खातिर बनाया हूँ मैं दिल जाँ सों ।
 जुदाई सों उसे यकनारगी मिस्मार करना क्या ॥
 सहेत्याँ जत्र तलंक मुजकों न चोलेंगी वली आकर ।
 मुझे तत्र लग किसो सो बात और गुफ्तार करना क्या ॥

कुल्लियात, पृ० ५५

तेरे बिन मुजकों ऐ साजन तो यो घर बार करना क्या ।
 अगर तू ना चहे मुजकों तो यो संसार करना क्या ॥
 मँदे घर वासों बाहर कर अपस के आप मुंसिफ़ हो ।
 निकारा त्योछ बकत्रक कर इता वेज़ार करना क्या ॥
 अगे जत्र सों न आने की थी मनसा मन में तुमना के ।
 तो मुझ से दुख भरे सों फिर झुटा इफ़रार करना क्या ॥
 पतियारा नहीं तेरे कहे का तो चुप हैरान करता है ।
 जो मन में निहीछः मिलने का तो फिर तकरार करना क्या ॥
 तेरे आने की बाट ऊपर बिछाया हूँ अँखाँ अपनी ।
 तो बेगी आ कि तुझ बिन मुजको यह घर बार करना क्या ॥
 तुम्हीं मिलने सों गर अपने सुझागिन ना करोगे मुझ ।
 तो जूड़ा गजगरी का और करैलाधार करना क्या ॥
 जो कोई जाले पिरत की आग में तनमन को यो अपने ।
 वली संगम बना ऐसे को फिर आधार करना क्या ॥

कुल्लियात, पृ० ५६

चाल अपनी बिसर गई मंगल ।

खोल अँखियाँ को अपनी मिस्ल कँवल ।

कँवल का दिल खिला सीनः के दह में ।

हँसली तुझ गल में देख कहते हैं ।

चाँद से मुख का है यो हाला ॥

नैन मिगों की घाँस पकड़ी मुख ।

देख तेरी अँखियाँ का दुंवाला ॥

मुझे अचरज यही आता पिया के पान खाने का ।

न जानूँ क्या सब्र याकूत असली के रँगाने का ॥

कुल्लियात, (फुटकर)

अजमत

मुझे पीत का याँ कोई फल न मिला ,

मेरे जी को यह आग लगा सी गई ।

मुझे ऐश यहाँ कोई पल न मिला ,

मेरे जी को यह आग जला सी गई ॥

मेरे ताया के पूत थे तुम सभी हम ,

रहे एक जगह पले एक ही साथ ।

मेरे बाप ने उम्र जो पाई थी कम ,

उन्हें छीन के ले गया मौत का हाथ ॥

मैं थी नन्ही सी जान ग़रीब बड़ी ,

कभी भूल के दुख न किसी को दिया ।

न तो रूठी कभी न किसी से लड़ी ,

मेरी बातों ने घर ही को मोह लिया ॥

थे तो बाले ही तुम पै या तुम को बड़ा ,

मेरा ध्यान किसी की मनाल न थी ।

मुझे टेढ़ी नज़र से भी देखे ज़रा,
 मुझे खेल में भी तो किया न दुखी ॥
 मेरे सिर में तुम्हारा ही ध्यान बसा,
 मेरी चाह के राजदुलारे बने ।
 तुम्हें देवता मान के मन में रखा,
 मेरी फूल सी आँखों के तारे बने ॥
 मेरा चुन्नु अभी से है इस पै फिदा,
 यह मुखोली है मोहिनी मेरी बहू ।
 यह चची का कहा मेरे दिल में लिखा,
 वहीं दौड़ गया मेरे मुँह पै लहू ॥
 इसी बात के घर में जो चर्चे हुए,
 सभी कहते थे मुझ को तुम्हारी दुल्हन ।
 मुझे तुम ने भी अपने लगा के गले,
 कई बार कहा “मेरी प्यारी दुल्हन” ॥
 हुए पढ़ के निचन्त तो उहदा मिला,
 हुआ ग्यान का गुन का जो शहर में नाम ।
 यह मज़े का नया ही शिगूफ़ा खिला,
 लगे मेंह की तरह से बरसने पयाम ॥
 मेरे ताया बड़े थे ज़माना शनास,
 बड़े ऊँचे घराने में ठहरा पयाम ।
 गया टूट सा जी गई टूट सी आस,
 मेरी चाह का हो गया काम तमाम ॥
 बड़ी धूम से आई तुम्हारी दुल्हन,
 मैं भी काम में ब्याह के ऐसी जुती ।
 कोई और थी गो मेरी प्यारी दुल्हन,

मेरा आखिरी वक्त है आन लगा,
 कोई और तुम्हारी है प्यारी दुल्हन।
 मुझे अब भी तुम्हारा ही ध्यान बसा,
 न बनी, पै रही हूँ तुम्हारी दुल्हन ॥
 मुझे जीते जी पीत का फल यह मिला,
 मेरे तन को यह आग लगा ही गई।
 मुझे प्यार की रीत का फल यह मिला,
 मेरे तन को यह आग जला ही गई ॥

दक्कन में उर्दू

वजही का गद्य

असील मेहर व मुहब्बत का भूका। असील शफ़क़त और मुरब्बत का भूका। जो वादशाह असीलां को मंगता उसे कुछ जफ़ा नै कि बोले हैं 'असल ते कुछ ख़ता नहीं कमज़ात ते वफ़ा नहीं। काम पड़े वग़ैर किस का जात दिस नहीं आता।' भला हौर चुरा असील हौर कमज़ात दिस नहीं आता। सबीच बड्य़ाँ वारतों करते, एक बात कों सौ हिकायतों करते। जिस आदमी में बहुत अछेगा ग़्यान उसीच में कुछ है भले बुरे की पहचान। आदमी बहुत बड़ा गौहर, उस गौहर कों परकना हर किसी कों काम नै, हर किसी में यो दूर वीनी यो नाज़ुक फ़ाम नै। यो खुदा का देना है, यों क्या जोरां सों लेना है। असील को बला दूर, असील ते साहब शर्म हुज़ूर, असील लोग वादशाहों कों बहुत हैं ज़रूर। 'असील पैकों (पैसों) पर नज़र नहीं करता, असील अपनी शर्म कों मरता, अपने नेम धर्म कों मरता। जो कुछ होता खुदा का भाता। चुरा वक्त क्या पूछ कर आता।

उस हुस्न के हमजाद कों हाज़िर कर हुस्न के हुज़ूर लाया । हुस्न देख हुड़े हैरान, यकायक यो किधर ते पैदा हुई यहाँ । परियों में ते आई परी । यो भी बहुत तवाज़ा करी, बहुत ताज़ीम करी । वो नाज़ हौर गमज़े की घड़ियाँ । एक को एक देख दोनों हँस पड़ियाँ ।

—

एक रात बात में बात अक़ल हौर दिल के लश्कर का क़िस्सा काड़ी, अपने राज़ का पर्दा फाड़ी । काँटे का ज़ख़्म घाव दर्द कही । अपने हमदर्द पास दर्द कही कि हमना हौर दिल में आशिक़ हौर माशूकी की निस्वत दमियान है, दो तन हैं वले दो तन कों एक जान है—दोहरा

जे मैं कही सो उन कहा प्रीत है इस घात ।

दो मन का एक मन भया अब दो की एक ही बात ॥

दिल बाप के मुलाहिज़े सों जब भगड़े में आता है नहीं तो यो भगड़ा उसे कर्धा भाता है । वो आशिक़ साहेवे सूरत साहेवे मुहब्बत, उसे भगड़े सों क्या निस्वत । बात अजब है । उसके भगड़ने कों एक सबब है । यहाँ कुछ हम नै, इसका कुछ गम नै । वले भगड़ा इताल अक़ल सों आ पड़-या है, क़िस्सा मुशिकल खड़या है । हुस्न धन मनमोहन जगजीवन की बात हुस्न की हमजाद सुन सब खातिर लिया बिचारी कही खुदा है डर न को, अक़ल क्या अछे बिचारी ।

सबरस, पृ० १६८

अनुक्रमणी

क

अग्रस्त्य १६, २६	इंशाअल्ला ८६
अजमत ३८	इखलाके हिन्दी ८७
अप्पर स्वामिगल, २०	इब्न निशाती १५, ३६, ८८
अबुलहसन ६०	इब्राहीम आदिलशाह सुल्तान ३६
अबुलहक, डा० २८, २६, ३१, ३३, ३५, ६२, ६८, ८५, ८८	इब्राहीम सुल्तान ६०
अबुल्ला कुतुबशाह ६०	इशादिनामह १४
अबुल्ला द्वितीय अहमदशाह बहमनी ३६	इशरती ३६, ६०
अबुल्ला हुसेनी ३६	उदय २१
अमीन ६०	उदू की इन्तिदाई नशो व जुमा में सूफियाय कराम का काम, २८
अमीनुद्दीन आला ८७	एकनाथ १६
अमीर खुसरो ३०, ३१, ३६	एकनाथी भागवत १६
अमृतानुभव १८	एहकामुल्लसल्वाह ८५
अल्वेरुनी २६	औरंगजेब १७, ३४, ३६
अवन्तिमुन्दरीकथा २१	कदमराव व पदम ३६, ८७
अशरफ, शेर १४	कपिलर २०
अशोक २६	कबीर २६, ३२
अहमद जुनेदी ६०	कमालखॉ १५
आचार्यसूत्र १८	कर्षूरमंजरी २३
आसफजाह १७	कविराजमार्ग २०
आसफजाह (सूवेदार) ३७	कवीश्वर २१
इंजील २६	काज़ी महमूद बहरी ६०
इंडियन ऐंटिकवेरी, ५३	कुंडलकेशि २०
	कुतुब मुश्तरी १५, ४४, ६८, ८८
	कुतुबशाहमु हम्मद कुली ३६, ६६

कुरेशी ६०	शानेश्वर १८, १९, २२
कुल्लियात वली ६८	शानेश्वरी १८, १९
कृष्ण १७	भूलना ३१
खंडनखंडखाद्य २३	तज्ञकरह उर्दू मख्तुलात ८८
ख्वाजा ३३	तज्ञकरे ३०
ख्वाजा अन्दानवाज़ गेसूदराज़ सैयद	तत्त्वार्थमहाशास्त्र २१
मुहम्मद हुसेनी, ८४	तिरुविलइयाडल पुराण १९
खाविरनामह १५, ६०	तुलसीदास २६, ५३
गंजमखफ़ी ८७	तूतीनामा ८७, ८८
गवासी ३६, ६८, ८८	तेवारं १९, २०
गुणगविजयादित्य २१	तैमूर लंग ३५
गुलामअली ३६, ८८	दंडी २५
गुल्शनइश्क ६०	दकिन में उर्दू ८७
गोरख २९	दत्तात्रेय १७
गौतमबुद्ध २६	दस्तूर उश्शाफ़ ८५
चंडपाल २३	दारुमि २०
चंदकवि ३२	दीपक पतंग ६०
चंदरबदन व महयार १४, ८८	दुर्विनीत २१
चंद्र २१	दौलताबाद ३३
चक्रधर १८	नक्कीरर २०
चित्तलगन ६०	नवरस ६०
चूड़ामणि (तुम्बुलूराचार्य कृत) २१	नसरती १७, ३६, ६०
जंगनामा ६०	नसीखदीन हाशिमि ८७
ज़ईफ़ी ३६	नागार्जुन २१
जयचन्द २३	नान्नय भट्ट २१
जयबन्धु २१	नामदेव १९
जायसी ८८	नासिख़ ३७
ज़ियाउद्दीन बख़शी ८८	निकातुश्शोअरर ३६
जुनूनी १४	निज़ामी ३६, ८४, ८७
ज़ौक ३७	निज़ामुद्दीन ३३

निशादुल इश्क ३६	भारवि २१
नृपतुंग (अमोघवर्ष) २०, २१	भावार्थदीपिका १८
नेहदर्पन ६०	भास्कराचार्य १८
नैषधीयचरित २३	भोगवल ६०
नौसरहार १४	मखतूतात १४
पंडित २१	मणिमेखलइ २०
पद्मावत ८८	मनलगन ६०
परमामृत १६	मसऊद ३०
परशुराम २६	महमूद गज़नवी २४
परिपाढल २०	महानुभाव पन्य १७, १८
पुष्पदन्त ३२	महावीर स्वामी २६
पृथ्वीराज २३, ३२	महिमभट १८, २२
पृथ्वीराजरावो ३२	महीन्द्रभट १८
फ़ताही ८६	महेन्द्रपाल २३
फ़रिश्वा, ३४	मारफ़तुरसलूक ८७
फ़ातही, ८५	माह पैकर ६०
फ़िक्कए हिन्दी १५	मीर ३६, ८३
फ़ूलबन १५, ८८	मीर अमन ६२
वल्लभाचार्य ३२	मीरांजी हुस्न खुदानुमा ८६
वहराम व हसन बानो ६०	मीरालुल आशिकीन २२, ३३
वहरी ३६	३५, ६८
वाण २५	मुकीमी ३६, ८८
विसातीन ८८	मुकुंदराल १६
बुर्हानुदीन ३३	मुल्ला वजही १४ ८५, ८६
बुर्हानुद्दीन औलिया ८७	मुसहफ़ी ३६
बुर्हानुद्दीन जानिम, शाह ३६, १४, ८७	मुहम्मद ५१
बुलबुल १४	मुहम्मद औफ़ी ३०
बौद्ध गान ओ दोहा ३२	मुहम्मद कुतुवशाह ६०
भारत २१	मुहम्मद कुली ६०
भारतीय भाषा सर्वे (६धीनिलद) ४३	मुहम्मद कुली कुतुवशाह १५८३, ६०,

- मुहम्मद गोरी २४
 मुहम्मद हुसेनी २२, ३५
 मुहिव ३८
 मुहीउद्दीन कादिरी (डा०) 'ज़ोर',
 ४३, ४४, ५३, ८८
 मोजज़ह १४
 मौलाना अब्दुल्ला ८५
 मौ० रूम १४
 मौ० सुलेमान नदवी, ४०
 राजराज २१
 राजशेखर २३
 रामचरितं २१
 रामायण ५३
 'रामायण में संज्ञा रूप' ५३
 रिसाला सेहवारा ३५
 रुस्तमी १५, ३६, ६०
 लाला मोहनलाल 'मेहताब' ३७
 लाला लख्मिमीनरायण 'शक्तीक' ३७
 लीलाचरित १८
 लोकपाल २१
 वजदी ३६
 वजही १५, ३६, ३६, ८८
 वज़नन्दि २०
 वर्णरत्नाकर ३२
 बली, श्रीरंगावादी कवि ३६, ३७, ६८,
 ८२, ८३, ८४
 बली वेल्लूरी ३६, ६०
 वार्करी पन्थ १७, १८
 विठ्ठल १७
 विमल २१
 विवेकसिन्धु १६
 विष्णुवर्धन (चालुक्य) २१
 विष्णुवर्धन (पल्लव) २१
 शंकराचार्य २७
 शक्तिस्ताने खयाल ८५
 शरहतमहीद हमदानी ८७
 शिव १६
 शाह बलीउल्ला कादिरी ८७
 शाह मीरांजी ३६
 शिशुपालवध १८
 शुमायलुल-इत्किया ८७
 शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ३६
 शेख निज़ामुद्दीन ३०
 शेखराचार्य ३२
 शेख शकरगंजी फ़रीदुद्दीन ३१, ३६
 शेख शरफ़ुद्दीन वू अली कलन्दर ३१
 श्रीराम २१
 श्रीविजय २१
 श्रीहर्ष २३
 सनाती ३६
 सन्नरस १४, ४४, ६८, ६६, ८५, ८६
 सिद्धान्तसूत्रपाठ १८
 सुल्तान अहमद शाह तृतीय ३६
 सुल्तान इब्राहीम ३०
 सुल्तान फ़ीरोज़शाह बहमनी ३५
 सुल्तानुल औलिया ३३
 सेवक ३६, ६०
 सैफ़ुल्मलूक बदीउज्जमाल ४४
 सैफ़ुल्मलूक व बदीउज्जमाल, ६८,
 ८८

सैयद यूसुफ ३५
 स्कंदगुप्त २४
 हफ्तीज़ ३७
 हरि १७
 हर्षचरित २५
 हर्षवर्धन २३
 हलम ३८

हस्तमसायल ८७
 हाशिमि ८८
 हिंदुस्तानी फ़ोनेटिक्स ४३
 हिंदुस्तानी लिसानियात ४४
 हिदायतनामा ३५
 हिदायते हिन्दी १५
 हुस्नोदिल ८५

अनुक्रमशी

ख

अखियाँ ४८, ५५
 अखियाँसों ४८
 अंगन ७३
 अंगारयाँ ४८
 अंगो ६५
 अँझू ७७
 अंतर ५६, ७३
 अदेशा ७०
 अंधारा ७४
 अंधारे ६२
 अंधेरी ८३
 अपड़ना ७७
 अपाड़ना ७७
 अंबर ७३
 अ ४३
 अकल ४८, ५४, ५६

अखण्ड ७३, ७७
 अखल ७०
 अगर् ४८, ६०, ६२, ६३, ८२
 अगला ७५
 अगिन ७५
 अञ्चर ७५
 अञ्छर ७५
 अच ६१
 अचत ६१
 अचते ६१
 अचल ७३
 अछ ६१, ६३
 अछता ६१
 अछता है ६१
 अछती ६१
 अछते हैं ६१

अछना ६१	अन्मनाना ७४
अछरी ७४	अपंग ७७
अछसे ५६, ६१	अपछरी ७४
अछी ६१	अपटना ७०
अछूँ ५५, ५१	अपना ४८, ५७, ५८, ५९, ८४
अछेगा ४८	अपनियाँ ४७
अछैगा ६१	अपनी २६, ५०, ५३, ५५
अछो ६१	अपने ३३, ५८
अजनबी ४४	अपन्यां ४८, ५०
अजत्र ४७, ५५, ७१	अपरूप ७३
अङ्गाव ७७	अपस ५०, ५४, ८६
अङ्गाट ७७	अपसको ८६
अढाई ६८	असैं ५०
अथ्या ६१	अपाङ्गना ७७
अथा ४५, ६१	अपार ७३
अथी ६१	अपैं ५०
अथे ६१	अपे ४७, ५०
अदत्र ४८, ८६	अफ़्ज़ा ८३
अदम ५४	अत्र ५८
अदमी ४४, ७०	अबूभ ७५
अदरमान ७४	अमाल ७४
अदा १५	अमत ७४
अदि ४६	अम्रीत ७४
अदिफ ७४	अरडावना ७७
अदिल ७४	अरत ७५
अघर ७३	अरबी ४४, ८७
अघार ४८	अरै ८३
अधिक ७४	अल्फ़ाज ६८, ८७
अनंत ७३	अलक ७४
अनाचती ७७	अलविदा ७१

अलावा ४४	आधार ६८, ७३
अली ६४	आन १४
अवकल ७४	आप ५०
अवतार ७३	आपने ५०
अवासवा ७७	आप ही ५२
अवल ५६	आपस ५०
असाक्रिया ३१	आपी ५३
असील ५८	आपी ५०, ५२, ५३
अस्तोत ७४	आव ८२
अस्मान ४४	आम ६१
अहै ६१	आमद ४०
अहै ५५, ६१	आयकर ५६
अहै है ६१	आयाँ ५७
-आँ ४६, ४७, ४८	आया ४६, ५७, ६१
आँ ६४	आये ४६
आँके ८३	आये हैं ६१
आँव ७४	आरायश ५७
-आ ४७, ५७	आरिजाँ ५६
आ ४३, ६६	आरूस ७०
आफिल ६२	आला ६६
आफिलाँ ५६	आवना ६०
आखिर ५७	आवाज़ ४८, ८३
आग ८३	आवे ५३
आगें के ६३	आशनाई ४८
आछें ५३	आशिक ६४
आज ४७, ६१, ८७	आशिक ८२
आट ७७	आस ८६
आटा ७७	आसान १४
आता ४५, ८१, ८३	आसी ५६
आदि ७३	आस्मान ५६

अछना ६१	अन्मनाना ७४
अछरी ७४	अपंग ७७
अछसे ५६, ६१	अपछरी ७४
अछी ६१	अपटना ७०
अछूँ ५५, ५१	अपना ४८, ५७, ५८, ५९, ८४
अछेगा ४८	अपनियाँ ४७
अछैगा ६१	अपनी २६, ५०, ५३, ५५
अछो ६१	अपने ३३, ५८
अजनबी ४४	अपन्यां ४८, ५०
अजब ४७, ५५, ७१	अपरूप ७३
अङनांव ७७	अपस ५०, ५४, ८६
अङवाट ७७	अपसको ८६
अढाई ६८	असें ५०
अथ्या ६१	अपाङना ७७
अथा ४५, ६१	अपार ७३
अथी ६१	अपे ५०
अथे ६१	अपे ४७, ५०
अदब ४८, ८६	अफ़ज़ा ८३
अदम ५४	अब ५८
अदमी ४४, ७०	अबूभ ७५
अदरमान ७४	अमाल ७४
अदा १५	अमत ७४
अदि ४६	अम्रीत ७४
अदिक ७४	अरडावना ७७
अदिल ७४	अरत ७५
अघर ७३	अरनी ४४, ८७
अघार ४८	अरे ८३
अधिक ७४	अल्फ़ाज़ ६८, ८७
अनंत ७३	अलक ७४
अनाचती ७७	अलबिदा ७१

अम्नाना ७४
 अपंग ७७
 अनक्षरी ७४
 अनन्ता ७०
 अनना ४८, ५७, ५८
 अनदियों ४७
 अननो २२, ५०, ५३
 अनने ३३, ५८
 अनन्यां ४८, ५०
 अनरु ७३
 अरत ५०, ५१, ८२
 अरुको ८२
 अरुते ५०
 अराइना ७७
 अरार ७३
 अरु ५०
 अरु ४७, ५०
 अरुना ८३
 अरु ५८
 अरु ७५
 अरुनाल ७४
 अरुत ७४
 अरुनात ७४
 अरुनावना ७७
 अरुत ७५
 अरुनी ४४, ८७
 अरुते ८३
 अरुनाल ६८, ८१
 अरुत ७४
 अरुनाविदा ७१

अलावा ४४
 अली ६४
 अवकल ७४
 अवतार ७३
 अवासवा ७७
 अव्वल ५६
 अरुनाक्रिया ३१
 अरुनील ५८
 अरुस्तोत ७४
 अरुस्मान ४४
 अरुहे ६१
 अरुहे ५५, ६१
 अरुहे है ६१
 -अरु ४६, ४७, ४८
 अरु ६४
 अरुने ८३
 अरुव ७४
 -अरु ४७, ५७
 अरु ४३, ६६
 अरुफिल ६२
 अरुफिलां ५६
 अरुखिर ५७
 अरुग ८३
 अरुगे के ६३
 अरुछे ५३
 अरुज ४७, ६१, ८७
 अरुट ७७
 अरुटा ७७
 अरुता ४५, ८१, ८३
 अरुदि ७३

आघार ६८, ७३
 आन १४
 आप ५०
 आपने ५०
 आप ही ५२
 आपस ५०
 आपी ५३
 आपी ५०, ५२, ५३
 आव ८२
 आम ६१
 आमद ४०
 आयकर ५६
 आयो ५७
 आया ४६, ५७, ६१
 आये ४६
 आये हैं ६१
 आरायश ५७
 आरिकां ५६
 आरुस ७०
 आला ६६
 आवना ६०
 आवज ४८, ८३
 आवे ५३
 आशनाई ४८
 आशिक ६४
 आशिक ८२
 आस ८६
 आसान १४
 आसी ५६
 आस्मान ५६

—इ ५६	उट ४५, ५८
इ ४३	उठ ३१
इधर ५०	उठी ८६
इन्साफ़ ४४	उतर ५६
इन २६, ३३, ५५, ५७	उतराई ७५
इनके २६	उतारू ७६
इनाम ७०	उत्तम ७३
इने ५०, ५१	उधान ७७
इबादत ६१	उधर ५०
इमारत ४८	उन ४०, ६२
इलाज ५०	उनन ५०, ५५
इश्क़ ३१, ४७, ४८, ५७, ५८, ८३, ६२	उनने ५७
इस्म ४६	उने ५०, ८६
इस १४, १५, ५३, ५४, ५६, ६३, ८३, ८६, ८७	उनों ४६, ४७, ५०, ५४, ५५,
इसका ४४, ८७	उपकार ७३
इसकी ८७	उपचार ७३
इसको १४, ८३	उपर १४, ५५
इसमें ८७	उपराल ५५, ५७
इसलिए २६, ४४	उपासी ७५
इसी २६	उभाल ७७
इसे १४, १५, ५०, ६१	उमस ७५
—ई ५२	उम्र ४८, ८३
ई ४३	उरगन ७४
ईमान ५८	उर्दू ४०, ४४
ईसा ५६	उर्दूदां ४४
उ ४२, ४४	उलासा ७४
उचाकर ६३	उलेठ ४६
उचाना ७६	उस्ता ७२
उजाला ६२	उस ४६, ५३, ५४, ५५, ५६,
	उसका ४८, ५७, ६०

उसकी ६१	ऐसियाँ ४७, ४८, ५२
उसके ४७, ५७, ६४, ८६	ऐसी ३१
उसको ८६	ऐसे ५३
उसास ४४, ७५	-ओ ४८
उसीच ५३	ओ ४३, ४४
उसे ४६, ५०, ५६, ६१, ६२,	ओ ४३, ४६, ५८
६८, ८४	ओ ४३
उसों ५०	ओधरम ७५
उसो ५०	ओर १४, २६, ३१, ३३, ४०,
ऊँचा ६२	४४, ४८, ५०, ५१, ५६,
ऊ ४३	६४, ६८, ८१, ८७
ऊकल ७४	ओरतां ४७, ४८, ५८, ६४
-एँ ४७, ४८	ओलखन ७४
एँ ४३	कँया ७६
-ए ४७, ४८	कँवल ८२
ए ४३, ५०	कँवल ७६
एक ४७, ५०, ५२, ५८, ५६, ६०	क ४४
६१, ६८, ८३	क ४४, ४५
एकस ५२	कई ६२, ६४
एग्यारह ५२	कड़ाई ४६
एता ८६	कता ४६
एतियाँ ४७, ५२	कता है ४६
एते ४७, ५२	फती ४७
एत्याँ ४७, ५०	फते ४६
एन्हों १४	फते हैं ४६
एलाइ ७८	फयई ८१
-एँ ४७	कदम ५६, ८६
ऐ ४३, ८३, ८६	कदर ८७
ऐन ६६	कदासी ८६
ऐन १४	कदीम ८७

कधी ३१	कहवाते ६१
कनें ६४	कहाँ ८८
कबूतर ८३	कहा ५३, ६२
कबूल ५६, ७१	कहाते हैं ६८
कया ४६	कहे ५६
क्याम ३३	कहे है ६१
कर १४, ३१, ३३, ४६, ४८,	कहाँ ५८
५१, ५३, ५८, ५९, ६२,	कहाँ ५८
८३, ८६, ८९	कहा ५४, ५७, ५८
करता ८१	कुछ ५१
करते ४४	काँद ७८
करते हैं ६८	का १५, २६, ३१, ४४, ४८, ५३, ५५, ५६, ५८, ६१, ८२, ८३, ८४, ८५
करत्याँ ५८	काकलोट ७८
करन ५९	काच ७३
करनहारे ६०	काजल ८३
करना ३१, ६८, ८९	काङ् ४६
करने ५४, ८१	कान ८१
करसी ५९	काफ़ ४४
करी ५६, ८९	काम २६, ४९, ५३, ५५, ५६, ६८, ८५
करे ५०, ५२, ५९	कामाँ ५४, ५७
कर्या ५७	कामिल ३३
कला ७३, ७८	कायल ७०
कलाम ६८	काल ६१, ७३
कवन ५१	कि ४०, ५५, ६१, ८२, ८७, ८८
कश्त ७४	किताब ५९
कस १५	किताब ही ५२
—कह ४६	किताबाँ ४७
कह ८९	किताबी ५२
कहते ८४	
कहने १४	

कित्तेक ५२
 किघर ६२
 किन ५१
 किनने ५१
 किने ५१
 किम् ६३
 किया १४, १५, ५०, ५३, ५६,
 ५७, ८३
 किये ५३, ५६
 किला ७१
 किस ५३, ५५, ५६
 किसका ६०
 किसकी ५३
 किसी ५१, ५३, ५४
 किसी के ५६
 किसे ५१
 किस्सए १४
 किस्सा ७०
 की १४, ३१, ३३, ४०, ४४, ४७,
 ४८, ५०, ५१, ५३, ५५,
 ५६, ६२, ६३, ६८, ८२, ८३
 कीमत ८३
 कुंतल ७३
 कुच ४५, ५१, ५६, ७३
 कुछ ५०, ६२, ८०, ८६
 कुजल ७३
 कुजात ७४
 कुदरत ४८, ५१, ५५
 कुमरियाँ ५५
 कुमलाते ४६

कुलुफ ७१
 कुल्लियात ६८
 कूच ५१
 के १५, २६, ३१, ३३, ४४, ४६,
 ४७, ४८, ५०, ५१, ५२,
 ५४, ५५, ५७, ५६, ६२,
 ६८, ८१, ८२, ८३, ८४,
 ८७, ८६
 केता ५२, ८६
 केरा ५५, ६४
 केरी ५५, ६४
 केरे ५५
 कैता १४
 कैते ५३
 कैसा ५६
 कैसी ६२
 को १५, ४५, ४६, ४७, ४८, ५०,
 ५३, ५४, ५५, ५८, ५६,
 ६४, ८१, ८३
 को १५, ३१, ४५, ४८, ५०, ५१,
 ५३, ५४, ५५, ५६, ५७,
 ५८, ५६, ६२, ६३, ८२, ८६,
 कोइ १५, ५६, ६८
 कोई ३१, ४८, ५१, ५२, ५६,
 ५६, ६१, ६४, ८६, ८६
 कोइ ७८
 कौन ५१
 क्याँ ४७, ५५
 क्या ४६, ५०, ५१, ५६, ५६,
 ६३, ६८, ८२, ८६

क्यों ६१, ६२, ६३

कौलियाँ ७८

ख ४४

ख ४५

खज़ीने ७१

खड्ग्याँ ५८

खड्ग ४८

खफ़ा ७०

खबर ४८

खम ७६

खयाल ४६

खयाली ५८

खर्चा जावेगा ७२

खसालत ७२

खाक ३१

खाकर ८१

खाकी ५०, ५१

खागा ५८

खाज ८७

खातिर ४७, ४८, ५३, ५५

खार ७१

खाला ७०

खालिक ५३

खाली ६२, ६४

खास ५६, ६१

खासा ७५

खाहीनखाही ७१

खिला ८२

खिलाफ ५६, ६३

खीच ४८

खीचे ५७

.खुदा ३१, ४७, ४८, ५३, ५४,

५६, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२

.खुदाये ५८

.खुरदेशे ८२

.खुरासान ५५

.खुश १४

.खुशलखन ७३

.खुमार ८४

.खुन्न ६१

खेल ५६

खेलनहार ४७, ६०

खेलाँ ४७

खो ७६

खोल १४, १५, ५४, ५८

खोले ४६, ५०, ५४

ख्वाब ४६

गंभीर ७३

गँवाई ५७

ग ४४

गई ४८, ५२, ८३

गगन ७३

गज ७३

गड्डा ४५

गमता ५८

गमना ७६

गमात्यां ५८

गमना ७६

गया ४०, ५७

गया है ६२

गर ३१, ६१
 गरीब ३३
 गर्चे ६१
 गवालियर ४६
 गवाहदार ३१
 गवासी ६८
 -गा ५८, ६४
 गाँड्डी ४५
 गाफिल ६३
 गाय ३१
 गालियाँ ५८
 गिला ८६
 -गी ५८, ६४
 गीरी ३१
 गुंगे ४४
 गुन ४६, ५०, ८६
 गुनकारों ४७, ५६
 गुनह ५६
 गुनाह ५८
 गुनाहां ५७
 गुमना ७२
 गुराँ ४६
 गुलबाही ७३
 गुला ४५
 गुलाकर १४, ८६
 गुस्से ८३
 गूक ३१
 गैव ४७
 गैर ५४, ५६
 गोई ८४

गोश ३१
 ग्यान १४, ५५
 घांस ७६
 घड़ी ३१
 घड़ी करना ७४
 वन ७३
 घर ४८, ५०, ५७, ६३, ८३
 घरघालू ७६
 घरदार ७६
 घरवार ६८
 घरे ४८
 घरों २६
 घात्रा ७५
 घायल ५०
 घाली ५७
 चिउ ७४
 घूँड़ते ४५
 बोल १४
 चंचल ८३
 चँदरमाँ ८६
 चँधोरी ७६
 -च ४३
 चकमक ७१
 चकोर ८२
 चल १४
 चढ़ ४६
 चढ़ चढ़ ४६
 चढ़ने ६२
 चतुर ७३
 चल्था ५६

चल ४७, ५६
 चलकर ८३
 चलना ३१
 चलने ५३, ६०
 चलसे ५६
 चली ८६
 चश्म ४८
 चाँद ८२
 चा ५३
 चाक ४५
 चाकरी ५५
 चाड़ ७८
 चातुराँ ४३
 चार ६३, ५०
 चारा ३१
 चारों ५८
 चाल ८३
 चाले ५२
 चाव ४८
 चावे ६२
 चितरना ७६
 चितारा ७४
 चिनगी ७५
 चीन्त्या ५७, ७६
 चुन्ना ४५
 चुलबुलाने ६०
 चूँ कि २६
 चूना ८१
 चूला ७४
 चौड़ ७८

चोयाँ ३१
 चोर ४६
 छ ५३
 छन्द ७३, ७४
 छन्दाँ १४, ८६
 छत्र ७५
 छल ७३
 छल्ले ४५
 छाच ४५
 छाती ८३
 छिनाल ५७
 छिपावे ५०
 छुड़ाती ८३
 छुपाने ५३
 छुप्याँ ४७
 छुरियाँ ४८
 छोड़के ३१
 जंजाली ८१
 ज ४४
 ज ४६, ५३
 जग ६१
 जगावना ७४
 जन्याँ ४८, ५२
 जनावर ७१
 जफ़ापुर ८६
 ज़वाँ १४, ५४
 ज़मान १४, ८६, ८७
 जम ७६
 जमातं ७१
 जने ६१

ज़माने ५६
 ज़मीन ५६
 ज़र्ज़ा ६४
 ज़रूर को ५४
 ज़रूर ५४, ६४
 ज़रूरत १४
 जरूरत ४८
 ज़रूर से ६४
 ज़रोसी ५६
 ज़र्ज़ा ६४
 जल ८६
 जलजल ८३
 जलते ८३
 जलाती ८३
 जली ३१
 जले ६३
 जहाँ ५८
 जहान ८६
 ज़हार ७२
 जहालत ५४
 जहालत को ५४
 जाँ ८१
 जा ८३
 जाएँ ३१
 जाके ८६
 जागता ८२
 जागा ४८, ५०, ५१, ७१
 जाता ४४, ५८, ६२
 जाता है ६२
 जाते हैं ६८

जाने ६३
 जान्यो ५८
 जान्या ५७
 जानती हूँ ६०
 जानिव ३३
 जाने ५०, ५६, ५६, ८६
 जानेंगे ६२
 जाव ७१
 जायेंगे ३१
 जाय ५६
 जायगा ५८
 जायगी ५६
 जाया ७१
 जायेंगा ५८
 जारी ८२
 जालना ७४
 जावते ५८
 जावना ६०
 जावने ६०
 जासी ५६
 जाहिलों ४७
 जिस ५४
 जिउ ७४
 जिउते ५८
 ज़िट ७२
 जितना ५१
 जितनी ५१
 जितने ५१
 जिते ५२, ५६
 ज़िन्दगानी ७१

जिन्ह ५३	जोगी ८३
जिने ५०	जोड़े ६१
जिनो ४७	ज्यादा ६३, ८७
जिनो ५०	ज्यों ४४, ६२
जिबे ७१	ज्योती ५०
जिस ५३, ५५	झगड़त्याँ ५८
जिसकी ४८	झड़ी ८२
जिसके ८१	झर ७४
जिसमें ४४	झल ७८
जिसे ५०, ५६, ६२	झाँप ७८
जीउना ७६	भाड़ ७८
जीता ५६, ६१	भाल ७८
जीना ८६	भिड़क ८६
जीत्र ४६	भूच्याँ ४७
जीव ५६	टलना ३१
जीवाँ ४७	टुक ८३
जु ५१	टेसन ८०
जुझ ३१	टेसनि ८०
जुड़थाँ ५७	टेसनिन ८०
जुदा ५३	टेसनिया ८०
जेकर १४	टेसनी ८०
जेतो ५२	टेसनेँ ८०
जेते ४७, ५६	ठहार ७८
जेत्याँ ४७	ठार ४७, ४८, ५६, ६१, ७८
जैसियाँ ५२	ठारें ४८
जों ५८	ठावें ४८
जो १४, १५, ३१, ४०, ४५,	ठावें ४८
४८, ५०, ५१, ५५, ५६,	ठावे ४८
५७, ६१, ६२, ६८, ८४	ठैरते ४६
जोगिन ६८	डराए ५६

डरालू ७३
 डल्ली ४५
 डीरा ७६
 डोसा ७६
 ढंगों ४७
 —त ५८
 तञ्जल्लुक ४४
 तहँ ५५
 तहँ ५५, ८६
 तकरीर १४
 तकलीन २६
 तकसीर ५७
 तगादा ६६
 तगादा ८०
 तगैयुरात ४०
 तत्ता ७४
 तन ३१, ८३
 तनासुव ६८
 तपते ५०
 तफसील ५३
 तत्र ५२, ५४
 तरक ५८, ८३
 तरसते ५०
 तरह ४४
 तर्जुमा १५
 तलत्र ८७
 तलक्कुल ४४
 तलवयों में ४८
 तलासना ७२
 तल्ला ४५

तसलीम ५६
 ताँटा ४५
 —ता ५१, ५८
 ताला ५८
 तालीम २६
 तिर्गुन ५२, ७४
 तिलोक ७४
 तिल ३१
 तिलमिली ८६
 तिस ५३, ८३
 तिसपर ५०
 तिसरे ५२
 —ती ५१
 तीनों ५२
 तुं ५८, ६१
 तुं ५७, ५८, ६३, ८६
 तु ६०
 तुज ४५, ४६, ५२, ८६
 तुजको ४५
 तुजे ४६, ६२, ८६
 तुझ ४६, ८३
 तुटे ४५
 तुम ६१
 तुमन ४६
 तुमन बिन ४६
 तुमना ४६
 तुमरे ४६
 तुमारी ४६
 तुमीं ५३
 तुरंग ७३

तुक्क ८८	दक्खिनी ४४
तुहीं ५३, ६१	दखिन १५
तूं ५६, ६१, ६३	दखिनी १५
तूँ १४, १५, ४५, ४८, ५३, ५७, ६०, ८६	दगा ६१
तू ५६	दङ्गी मारना ७८
तूज ४६	दफ्फे ७०
तूहीं ५३	दवटना ४५
-ते ५१	दवीर १५
ते ४४, ४६, ५०, ५३, ५४, ५६, ६३, ६६, ८६	दम ५३
तेज ७३	दया ७४
तेडीच ४५	दर १४
तेतियाँ ५२	दरसनी ७४
तेती ५२	दर्स ८३
तेरा ४६, ५७, ८६	दर्शन ८३
तेरी ५१, ८३, ८६	दल ७३
तेरे ४६, ५५, ८१	दवा ४८
तैरालू ७६	दाट ४५, ७८
तो १४, ५६, ५७, ६०, ६२, ८२	दाद ४८
ताडा ८६	दानायौँ ४७
तोय ६६	दानिशमन्दाँ ४७
थंडी ४५	दानी ७३
था १४, २६, ३१, ४८, ६४, ८४	दायम ५८, ८३
थी ५६	दार ७४
थे २६, ५४	दारी ८२
थोडे १६	दावन ७०
थ्यौँ ४७, ५७, ६१	दावा ७०
दंडल ४५	दिई ५७
दक्किन ३३, ८४	दिककत ६६
	दिककत ८७
	दिककद ६६

दिक ६३, ७३	दुगुन ५२
दिखलाता ६१	दुनिया ४८
दिखलार्यंगा ५८	दुसरा ५२
दिखलावे ५३	दूजा ५२
दिखाती ८३	दूद ४६
दिखाना १४	दूर ८६
दिनरात ६१	दूसरा ६४
दिपाना ७४	दूसरे ४४, ५८
दिया ५४, ५६, ५७	दे ५१, ६१, ८२
दिये ४८, ५६, ५६, ६४	देओंगा ५८
दिल १४, ३१, ४४, ५३, ५४, ५५, ५६, ५८, ६२, ८१, ८२, ८३, ८६	देक ४५
दिलपजीर १५	देखत ५८
दिल पीछे ५३	देखता ५८
दिलवरी ८६	देखते ५३
दिवा ७४	देखने ४८
दिवाकर ७४	देखलाता ६१
दिवाना ८६	देखलाना ५८
दिवाने ८६	देखी ५६
दिशत ७४	देखे ४६, ५०
दिसना ७६	देख्या ४५, ५०, ५७, ५८, ५९
दिसें ८१	देते ४७
दीखें १४	देना ५६
दीदयाँ को ४८	देवन ५६
दीन ५८	देवा ८६
दीवा ७४	देस ६३, ७६
दुंदियाँ ४८	देह ७३
दुंदी ५३, ७४	दो ५०, ५२, ५८, ६१
दुकाल ७४	दोआनः ४४
दुख ६८	दोइ ५२
	दोई ५०

दोनों ५२, ५५	६३, ६४, ८६
दोनो ५२	नईं ३१
दोय ५२	नई ३१
दोस्तदारों ४७	नको ६३, ८६
दोस्तां ४७, ५४	नज़र ५६, ७१
दौड़ाए ५६	नज़िक ८१, ८६
दौड़या ५७	नज़ीक ७१
धनियारा ७८	नळम १४, ८६
धनी ५६, ७३	नन्हवाद ७६
धरत ७४	नफ़ा ५७, ६६, ७०
धरती ५६, ७४	नबतर ७८
धरम ८३	नबद ५२
धरया ५६	नबी ५६
धरित्री ७३, ७४	नवृत्रत ८२
धरूया ५७, ८६	नवल ७५
धाड़ ७८	नवा ७५
धात १५, ५४, ७४	नवाज़ना ७२
धाना ७४	नवाना ७४
धावे ४८	नवी ७५
धीक ७५	नख १४, ८६
धीर ७३	नहीं १४, ४४, ४५, ५३, ५५, ६१,
धुंडने ६२	८३, ८४, ८६, ८६
धुंडाने ४५	नाँव ४८
धेर ७६	नाँव ५२
धोने ३१	नाँव ४८
धोया ५७	-ना ५१, ५६
नं ५३	ना ३१, ४८, ५१, ५३, ५६,
नँह ७४	६३, ६४
-न ४६, ५६	नाग ५४
न १४, ३१, ५०, ५६, ५८, ५६,	नाज़ ८३

नाञ्जुक ७१	नौ ५२
नाम ४०	न्यामतौ ४७
नामा ७१	न्यारा है ३१
नारी ७३	-न्ह ४६
नाव ४८	न्हनपन ७५
निकलसूँ ५८	न्हाटना ७५
निकले ६३	न्हासना ७५
निभाई ५७	पंजाब ४४
निभाना ७७	पंत ७४
नित ७४	पकड़ा ८३
निपचाना ७६	पचीस ५२
निरासा ७४	पट्टा ४४
निरासी ८६	पढ़ता है ६८
निजाँव ७४	पढ़ने ४६
निर्मोल ७४	पड ८३
निहायत ५४	पड़ेगा ४६
-नी ५१	पड़्याँ ५८
नी ५४	पढ़ने ५३
नीट ७६	पत ७४
नीहचल ७५	पतियारा ७४
नुख ७१	पर ४८, ५०, ५२, ५३, ५५, ५६,
नुपचाना ७६	८४, ८६
-ने ६०	परकाज ७४
ने १४, ४७, ५४, ५६, ५७, ६०, ८३	परते ७४
नेकी ५०, ५६	परदल ७४
नेमघरम ७४	परदुख ७४
ने १४, १५, ४४, ५२, ५३, ५४,	परघान ७५
५६, ६२, ६३, ६४, ८२	परमेश ७३
नैन ३१, ८१	परविभंजन ७४
नैना ८२	परसाद १४

परस्तिश ८३
 परी ५६, ८६
 परेशानगी ७१
 पलँग ४८
 पवन ७३
 पहचांत्याँ ५८
 पहचान्या ५७
 पहिराना ७४
 पहुँच ३३
 पाँए ६८
 पाँव ५०, ८३
 पाएँ ३१
 पाक ५६
 पाच ७६
 पाङना ७६
 पादशाही ५४
 पान ५६, ५८, ६४, ८१
 पानी ५६, ६८, ८३
 पाने ४८
 पाप ४६
 पायक ७५
 पाया ५६, ६२
 पायें ४७
 पाये ५१
 पारकी ४५
 पास ४८, ५२
 पावां ५५
 पास ५३
 पिड ५३
 पिगले ४५

पिचें ४५
 पिनाना ४६
 पिया ५४
 पिरीत ४८
 पिलान ५६
 पी ६२, ६८
 पीछे ५३
 पीता ५५
 पीर ३१
 पीत्रे ६८
 पुंजसे ५६
 पुकार ६३
 पुख्ता ७०
 पुजनहारी ८३
 पुजाती ८३
 पुढा ४४
 पुन १४, ७५
 पुरगम ७०
 पुरुष ७३
 पूक ३१
 पूच ४५
 पूछया ५७
 पेलना ७५
 पेलाइ ७८
 पेशरू ३१
 पैछान ४६, ४७
 पैदा ५६, ६०
 पैदायश ६०
 पैदा किया ६०
 पैनना ४६

पैसना ७५
 पो ५५, ५६
 पौलाद ७२
 प्रीत ६८
 पंखड़ियाँ ४६
 फ़ ४४
 फ़तवा ७०
 फ़र्माई ५०
 फ़र्माया ३३
 फ़र्माये ५६, ५७
 फ़र्स १४
 फ़ामना ७२
 फ़ायदे ५५
 फ़ारसी १४, ४७, ६८, ८७
 फ़िक़्का ४५
 फ़िक़र ४८
 फ़िक़रवन्द ७०
 फिर ८६
 फ़ीरोज़ ६१
 फ़ोलांच ५३
 फ़ोकट ७५
 बंदूयाँ ४८
 बंदों ४७, ४८
 बक़रीद ६६
 बक़रीद ६६, ८०
 बख़त ४४
 बख़शायगा ७२
 बख़शी ५७
 बख़ान १४
 बख़त ७१

बग़र ७०
 बग़ैर ५८, ५६
 बजाय ८७
 बजीद ७०
 बड़ा ६२
 बड़ाई ४६
 बड़े ३१, ४८
 बड़ाई ७५
 बतियाँ ४८
 बदख़ ७१
 बन ५४
 बनाती ८३
 बनेछ ५३
 बरसत्यां ५८
 बरी ६३
 बलक ७१
 बलवलिया ७६
 बहलाने ५३
 बहलाने खातिर ५३
 बहाया ४८
 बहार ६३
 बहुत ५५
 बहुते ५३
 बहोत ४७, ५६, ६४
 बांद कर ४६
 बाई ७५
 बाउ ७५
 बाग़ ८२
 बाज़ां १४
 बाज ६४

बाज़ियाँ ४८	बुरे ५३, ६१
बाज़े ४७, ७३	बुलबुल १४
बाट ५६, ७५	बुलबुलां ५८
बाट-पाइ ७५	बुलाय ५६, ५६
बाट-सार ७५	बुलाया ५७
बाटों ४७	बुलाये ६४
बाढ़ा ७५	बूट ७६
बात १५, ४६, ४८, ५०, ५३, ५४,	बेकटर ७६
५५, ५६, ६३	बेकड़ ७६
बातों १५, ४७, ५५	बेगि ७५
बाँद ४६	बेगी ७५
बादशाह ४८, ५४	बेटी ५१
बार ८३	बेडौल ८६
बाला ८१	बेपरवाई ५८
बाली ८१	बेरां ७६
बाव ७५	बेराज़ ६४
बाशिन्दः ८४	बेहतर ६३
बिचड़ावे ४५, ४८	बैठ ३१
बिचारा ७१	बैलों ३१
बिलुवों ८३	बैसना ७५
बिन ४६, ८६	बैसला ५७
बिना ६४	बैसियां ४७
बिरह ८२	बोल १४, १५, ५०, ८६
बिसरात ७५	बोलचाल २६
बिसलाना ७१	बोलने ४४, ५०
बी ४६, ५६	बोला ४४
बुलुगों २३, २६	बोली ४०
बुम्फाती ८३	बोलूँ १४
बुत ८३	बोले ४६, ४७, ५४
बुनी ४८	बोलों १४, ५३

भरी ८३, ८६	मंघिर ७५
भरे ४४, ६२	मँह ५५
भर्या ५७	-म ४६
भला ५३	मकतल १४
भांती ५३	मखी ८६
भाता ५८	मजाल ५३, ६०
भाती ५३	मत ८३
भान ७५	मतना ७५
भानु ७३	मतलव २६
भाया ४७	मदद ३१
भार ४४	मदह ८२
भाव ७३, ८३	मदाह ५३
भावता ५८	मनसा ७१
भिन्नाव ७५	मनहर ७५
भिगना ४४	मना ५३, ७१
भी २६, ३१, ४६, ५०, ५४, ६०, ६२	मने ५०, ५५
मुञ्चक ७५	मय ५५
मुञ्चग ७५	मया ७५
मुहँ ५५, ७५	मरद ५७, ५८, ६४
मुलासी ५६	मरँगो ३१
भूल ८३	मर्द ५५, ६२
मेज ५७	मशारे ७२
मेदना ७६	मसनवी ६८
मेद्या ५७	महताव ५७
भोजन ६८	महमूद ६१
भोर ३१	महिं ५५
भौत ६१	माक ७८
मंगता है ६२	माकूल ५४
मँगने ५३	माटी ७५
मंग्या ६२	मान ६४, ७३

माना ७७	मुज ४५
मानी १४	मुजकों ४५, ४६
मामला ६२	मुजे ८६
मारने ५३	मुफ ५७, ८१
मारी ५७	मुफकों ८१
मालूम ४०	मुफ्रीद २६
मावाँ ४८	मुमताज़ ४०
माशूक ८०, ८४	मुरक ८६
मास ७३	मुशिद ३३
मिठी १५	मुलम्मा ७१
मिठे ५०	मुलाज़ा ७०
मियाने ५५	मुलायक ७३
मिल्याँ ४८	मुश्किल ४८, ८७
मिलकर ६१	मुश्ताक ८३
मिल को ५६	मुसल्मान ६१
मिलता ३१	मुसल्मानाँ ४८
मिलने ५३	मुसल्मानां में ६२
मिला १४, ८६	मुसलमानों ४०
मिला के ५६	मुसों ४६
मिले ५४	मुहब्बत ६२
मीठी ५४	मुँहों ७५
मुँज ५५, ५६	मूप ७८
मजे ४५, ४६, ५१, ८६	मूरक ४५
मुँक १४	मूरतियाँ ४७, ५०
मुँह ५३	में १४, १५, २६, ३१, ३३,
मु ४६	४४, ४८, ४६, ५०,
मुए ८६	५५, ५८, ५६, ६१,
मुकामात ४४	६८, ८१, ८२, ८३,
मुकामा ४०	८६
मुल ५७, ८३	मेरा ५७, ८३

मेरी ५५, ८३, ८६	याँ ५६, ५८
मेरे ५६, ६३	-या ५७
मेलजोल ४०	या ५३, ६१
मैलागी ५८	याद ३१
मेहर ८३	यादगार ४८, ५३
मेहरवां ५४	यार ५३
मेहरवान ७१	याराँ ४७
मैं १४, ४६, ५२, ५६, ५७, ६०, ६३, ८६	यूँ ८६
मों ५८	यूँही ८४
मोछियाँ ५५	यू १५
मोज़ेह १५	ये ५०
मोती ४४	येता ५२
मोहन ८३	-योँ ४८
मोहन्वत ५५	योँ १४, ४६, ४७, ५०, ५३, ५६, ६०, ६१, ६२, ८६
मौजूँ १४	यो ५०, ५३, ५५, ५६, ५७, ६१
म्याने मने ७५	रंगों ४७, ५२
-म्ह ४६	रंजानते ७२
म्हाड़ी ७५	रकते ४५
य १४	रक्खा ४०
यकंग ७५	रख' ८२
यक १४, ३१, ४५, ४८, ५२, ५५	रखता ६२
यकायक ५३, ६०	रख्यां ४८
यदी ७५	रख्या ४८, ५७
यहँ ५६	रगत ७५
यह १४, २६, ४०, ४४, ५०, ७१, ८१, ८३	रचे ६१
यहाँ ३३, ५३	रचैगा ६१
यही ६८	रच्या ६१
-याँ ४७, ४८	रज ७५
	रतन ६१

रनखाम ७५
 रफ्त ४०
 रमूज़ ३१
 रवाज २६
 रवाना ३३
 रवीश ७२
 रश्क ५३
 रसरी ७५
 रह ६१
 रहना ३१
 रहसे ५८
 राकस ७५
 राखें १४
 राख्या ५०
 राज ५५
 रात ४८
 राताँ ८२
 राते ४८
 राते रात ४८
 रानवाँ ७८
 राम ८६
 राय ५६
 रायकों ५६
 रावाँ ७८
 रास ७६
 रीच ७५
 रीज ७५
 रीश ३१
 रीस ७६
 रुच ७५

रुछ ७५
 रुस ७५
 रूत ७५
 रेखतः ८४
 रेल-छेल ७५
 रैन ३१, ७५, ८३
 रोजौट ७८
 रोमावलि ७३
 रोय ३१
 रोलना ७६
 रोशनी ८३
 रौज़ा ३३
 लग्या ५७, ६२
 लगन ४७, ८६
 लगा १४, ५६
 लगाती ८३
 लगी ५०
 लजीज़ ५३
 लट ८३
 लड़त्यां ५८
 लत ७६
 लताफ्त १४, ५४, ८६, ८६
 लनालन ६४
 लह ५६
 लहुवा ७८
 लाइया ५७
 लाक ४५
 लाना ७६
 लाने ३१
 लाया ५७

लाये ८४
 लालन ८०
 लावती ५८
 लावते ५८
 लिखी १४
 लिया ८३
 लिये ४४
 लुब्धाहया ७५
 लुहायी ७६
 लूङना ७६
 लेकर ६१
 लेकिन ४०
 लेको ५६
 लेते २६
 लेनहार ६०
 लेसू ५८
 ले जाऊँ ६३
 लै ६१
 लैला ५३
 लोको ४७
 लोग ५६, ६१
 लोहती ६२
 लौन ८०
 ल्याने ६०
 ल्यायकर ५६
 ल्यायगा ५८
 ल्याया ५७
 व २६, ४०, ५८
 वहँ ८६
 वफ्त ४४, ५८, ५६

वखत ४४, ७१
 वज़ा ५६, ५६, ६६
 वर ७३
 वरम ६३
 वरां ७६
 वर्ज—६४
 वली ५६, ८४
 वले ४७
 वस्ताद ७१
 वस्तु ७३
 वह २६, ४६, ५७
 वहां ५६, ६४
 वहीं ८६
 वाका ६६
 वाकिफ़ ८३
 वाखा ६६
 वादी ७३
 वालों ४४
 वासलाँ ३१
 वासिल ३१
 वासिलाँ ४७, ५४
 वास्ते १४
 विचारूया ५७
 विचित्र ७५
 विते ५२
 विदा ७१
 विघना ३१
 विरागी ६८
 विलायत ४४
 वै ५८

वेत्याँ ५७	सकता है ६०
वैशियाँ ४७	सकारे ३१
वो ४४, ४८, ४९, ५०, ५६, ६२, ८२	सकेगा ५८, ६०
शक ५८	सखुन ८४
शय ५५	सगट ७६
शरमँदा ७२	सजन ३१
शरम ४८	सजान ७६
शराब ४८, ४९, ६२	सती ५४
शहनाई ७१	सते ५४
शातीर ७२	सदा ६१
शाद ३१, ५१	सन्मुख ७३
शाह १४	सपढ़ना ७६
शाहपरियाँ ४७	सफ़ा ७२
शुजाअत ५७	सफ़ाई ५६
शुरू ५३	सब १४, ४४, ४७, ५०, ५४, ५५, ५८, ६४,
शेर ६१	सबका ४०
शैतान ८४	सबब ८२
शोले ८३	सबरस ५३
शौ ७२	सबलत ३१
शौक ४४	सबूरी ७१
शौख ४४	सभों ५१
संग ४९	सभी ५१, ५२, ५६
संग्राम ७४	सम ७४
संघाती ७५	समव्या ५०
सँभाल ४८	समज ४५, ८६
संभोग ७४	समजता ६२
संसार ६८	समझते ४७, ५०
—स ५८	समजाई ५६
सकत ७६	समझी ५४
सकता ६०	

समजे ६४
 समजेगा ४५
 समझना ८७
 समझा १५
 समझे १४
 समौ ४८
 समुद ७५
 समुंदर ५५
 सरना ७६
 सराफ़राज़ ७२
 सक्षासत ५५
 सवाद ५३
 सवा ७५
 सह्या ५७
 सहो ४४, ५९, ७०
 साँदी ७९
 सा ५७
 सात ४६, ५४, ७०
 साय ३३
 सादना ७६
 सारना ७६
 सारी ६८, ८३
 सारयाँ १५
 साहब ५६
 साहब पास ५३
 सिंगार ५५
 सिंघार ७५
 सिन्नदा ५६
 सिङ्गत ५२
 सिङ्गत ५३

सिर ६०
 सिज्याँ ५७
 -सी ६४
 सीता ८९
 सीनः ८२
 सीन ६९
 सीने ५९
 सीपियाँ ४८
 सीस ७५, ७९
 सुंदर ८३
 सुगते ४४
 सुखर ७६
 सुवड़ ६१
 सुद ४६
 सुन ५६, ८९
 सुनकर ५५
 सुनते ५३
 सुना ७५, ५९
 सुनाती ८३
 सुनावे ५३
 सुना ४५
 सुन्नार ७५
 सुन्या ५०
 सुपारी ८१
 सुवा ७०
 सुरंग ७४
 सुन ७६
 सुलगा ७४
 सूवे ४०
 सूर ७३

सूरत १४, ४८, ६२, ७१, ८३	हज़रत ३३, ४७
सूरताँ ४७	हड़ ७६
सूरतियाँ ५२	हत ७५
से २९, ३१, ३३, ४०, ५८, ६४, ६९	हत्ती ४५, ४६
सेत ५४	हम ४९, ६२, ८४
सेती १४, ५४	हमतुम होना ७७
सेवक ७३	हमन ४९, ५०, ५८
सैंसार ७५	हमन को ४९
सौ १४, ३१, ४८, ४९, ५०, ५४,	हमन ते ४९, ५०
५६, ५९, ८३, ८६, ८९	हमन संग ४९
सो ४९, ५०, ५३, ५७, ५८, ६३,	हमना ४९, ५०
६८, ८९	हमना उपर ४९
सोती ६४	हमना ते ४९
सोय ५४	हमीं ५८, ५३
सोरात ७६	हमेशा ८२
सोरेज ७६	हमै ५०, ४९
सोसना ७७	हर १५, ३१, ४०, ५२, ५३, ५५, ५८
सौ ३३, ४८	हर्क ४४
सौख ४४	हलासी ५९
स्टेशंस ८०	हवस ५३
स्टेशन ८०	हस्त ७५
स्वाद ७४	हस्ति ७३
हँकारना ७६	हस्त्र ८७
हँस ५८	हाँ ६२
हँडी ७६	हाँक ६३
हँस पढ़याँ ५८	हात ४६
-ह ४६	हाय ८१
ह ६९	हाल ६३, ६८
हफ ५६	हालत ४८
हकीकत ४०, ४८	हालात ४८

हिंदवी १४
 हिंदी १४, २६, ६८, ८६
 हिंदुओं ४८
 हिंदुओं में ४८
 हिंदू ८६
 हिंदोस्तान १४, ४४, ८६
 हिज़ ५६
 हिम ७२
 हिलता ६४
 हों ५३
 ही ५२, ५३
 हुआ १४, ५६
 हुई ५८, ६८
 हुए ४०, ४४
 हुकम ३३, ६४
 हुज़ूर ३१, ५६, ५६, ६४
 हुदरना ७७
 हुनर ५६
 हुनर बन्द ७०
 हुवा ८६
 हुसें १४
 हुस्न ५६, ५८
 हूं ५६, ५७, ८१, ८६
 हेड़ा ७६
 हेरना ७६

हो ३१, ४८, ५४, ६१
 हो अछेगा ६१,
 होकर १४, ५६, ६४
 होता ३१, ५३, ५८
 होती ४०
 होतें ५८
 होते ३१, ५१
 होना ८६
 होना है ५०
 होय ३१, ५०, ५३, ५६
 होय कर ५६
 होय को ५६
 होयसन ४७, ५६
 होवता ५८
 होसी ५६
 होसे ५६
 हीर १५, ४६, ४७, ५१, ५८, ६१,
 ६४, ८६, ८६
 हैं ४६, ४७, ५०, ५२, ५४, ५५,
 ५६, ५८, ६२, ८१, ८४, ८७
 है ४०, ४४, ४७, ४८, ५४, ५५, ५६,
 ५७, ५८, ६२, ६४, ८२, ८३, ८७
 हैगी ५३, ६१
 हैरत ४४
 हैरां ५८